

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 556]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 2 दिसम्बर 2014—अग्रहायण 11, शक 1936

कार्यालय, संभागीय आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर (मध्यप्रदेश)

इन्दौर, दिनांक 1 दिसम्बर 2014

क्र. 1642/वार्ड विस्तार न.पा.नि.-इन्दौर-2014.—मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3-518-अठारह-3-2004, दिनांक 24 फरवरी 2004 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, संजय दुबे, आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर, एतद्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 10 (1) के अन्तर्गत नगर पालिक निगम इन्दौर के वार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार, अवधारित करता हूँ:—

अनुसूची

वार्ड न.	वार्ड का नाम	वार्ड समाहित क्षेत्र	चर्तुः सीमा			
			(1)	(2)	(3)	(4)
			उत्तर	पूर्व	दक्षिण	पश्चिम
1	सिरपुर	विजयश्री नगर, मारुती पैलेस, गणेश नगर श्री खेडापति हनुमान मन्दिर के आगे, गोर्वधन पेलेस मदीना मस्जिद के पास, गांधी पेलेस श्री खेडा पती हनुमान मंदिर के पास, सम्राट नगर, सिरपुर धार रोड, जगनाथपुरी सिरपुर कांकड के पास खेडापति हनुमान, बजरंग नगर सिरपुर कांकड, राणा कालोनी ए, अम्मार नगर (सम्पूर्ण), राणा कॉलोनी, डायमण्ड पैलेस, फेन्स कालोनी, सहयोग नगर, सागर पैलेस कॉलोनी, आशियाना पैलेस नई कालोनी धार रोड, केशव नगर, गुलाब बाग, संयोगनगर, गीता नगर मेन अग्निहोत्री पेट्रोल पम्प के पास धार रोड, कृष्णपुरी, हरिहर नगर, विशाल नगर, रामबलराम नगर, "शहीद चन्द्रशेखर आजाद के प्रतिमा के पास, रिंगरोड, नट कालोनी सिरपुर तालाब के सामने धार रोड सिरपुर सायफन तक, जगदीश पुरी, "यश होटल के पीछे गीता नगर एक्सटेंशन धार रोड, पेट्रोल पम्प के सामने, हकीम बाग के सामने पेट्रोल पंप धार रोड एवं कॉलम क्रमांक 4 में दर्शित वार्ड की चर्तुःसीमा के अन्तर्गत समस्त क्षेत्र ।	एयरपोर्ट बाउण्ड्रीवाल, ब्यास नगर बी एस एफ एरिया, जयश्री नगर तक	नगीन नगर, वर्धमान नगर, गीता नगर पेलेस, धार रोड, चंदन नगर चौराहा, रिंग रोड, स्कीम नं. 71 तक	स्कीम नं. 71 सेक्टर डी, ग्वाला कालोनी सिरपुर तालाब पाल धार रोड तक	धार रोड से बॉक गांव, कोरंडिया बर्डे गांव, एयरपोर्ट बाउण्ड्रीवाल तक
2	चंदन नगर	चन्दन नगर (सम्पूर्ण), लोहे वाला गेट, नाके वाली गली, गीता नगर पैलेस, रानी पैलेस, सकीना मस्जिद वाली गली एवं कॉलम क्रमांक 4 में दर्शित वार्ड की चर्तुःसीमा के अन्तर्गत समस्त क्षेत्र ।	जगनाथपुरी से नाला होते हुए रामानंद नगर पुलिया तक	गंगा नगर धार रोड तक	धार रोड आम वाली गली से अग्निहोत्री पेट्रोल पम्प तक	अग्निहोत्री पेट्रोल पम्प से नाले तक

वार्ड न.	वार्ड का नाम	वार्ड समाहित क्षेत्र	चर्तुः सीमा			
			(1)	(2)	(3)	(4)
			उत्तर	पूर्व	दक्षिण	पश्चिम
3	कालानी नगर	बी.एस.एफ. परिसर, एरोझम कालोनी, कालानी नगर, जयश्री नगर, नगीन नगर, नन्दन नगर एन सेक्टर एवं कॉलम क्रमांक 4 में दर्शित वार्ड की चर्तुःसीमा के अन्तर्गत समस्त क्षेत्र ।	एयरपोर्ट थाने से कालानी नगर चौराहे तक	हुजुर गंज धर्मराज कालोनी पुलिया, दामोदर नगर नाले तक	दामोदर नगर नाले से डायमण्ड पैलेस नाले तक	सम्राट नगर खेडापति हनुमान नगीन नगर सेक्टर ई एयरपोर्ट रोड तक
4	सुखदेव नगर	व्यंकटेश नगर मेन, पटेल नगर, साधना नगर, साधना नगर एक्स., मनपंसद कालोनी, गुरुकृष्ण कालोनी, साहू नगर, पंचवटी नगर, द्वारकाधीश नगर, सुखदेव विहार, सुखदेव नगर, शिक्षक नगर, अंजनी नगर, श्रीकृष्ण नगर एरोझम रोड पुलिस क्वार्टर, कान्यकुब्ज नगर, विद्या धाम, रतनबाग, अम्बिकापुरी, आम्रकुंज कालोनी, कृष्णबाग एरोझम रोड, अखण्ड नगर, आराधना नगर, हरिजन कालोनी, गंगा नगर, परिहार कालोनी, हुजुरगंज एवं कॉलम क्रमांक 4 में दर्शित वार्ड की चर्तुःसीमा के अन्तर्गत समस्त क्षेत्र ।	अम्बिकापुरी, सुविधी नगर से पल्लर नगर एवं पुलिस क्वॉटर	दूसरी पल्लन पुलिस क्वॉटर, वी आई पी रोड पुलिस लाईन तक	वी आई पी रोड, बिजासन कालोनी, तिरुपति नगर, धर्मराज कालोनी, कालानी नगर चौराह से बी एस एफ एरिया तक	एयरपोर्ट कालोनी
5	राजनगर	जय भवानी नगर, राजनगर, रामनगर, वर्धमान नगर, रामानन्द नगर, चंदन नगर सेक्टर - ई, राणा कालोनी, प्रफुल टाकीज के पास, दामोदर नगर, व्यास रामानन्द नगर, गंगा कालोनी केशव धर्मशाला के पास एवं कॉलम क्रमांक 4 में दर्शित वार्ड की चर्तुःसीमा के अन्तर्गत समस्त क्षेत्र ।	कालानी नगर, भोलेनाथ कालोनी, हुकमचंद कालोनी,	इन्द्रानगर झोपड पट्टी नाला हरिराम नगर, पंचमूर्ति नगर से नाला धार रोड तक	धार रोड	आमवाली गली, (चंदन नगर) कालानी नगर
6	मल्हारगंज	रामचन्द्र नगर सम्पूर्ण, तिरुपति नगर, हुकमचन्द कालोनी, विंध्याचल नगर, रामनगर, गणेशगंज, सीताराम पार्क, सम्पूर्ण वेंयर हाउस, प्रजापत पुरा कुम्हार मोहल्ला, तेली बाखल, कडाबीन, (बगीचे वाला) एम.जी.रोड, मल्हारगंज, लोहार पट्टी मेनरोड, धर्मराज कालोनी,	वी आई पी रोड, पिलीया खाल, बडा गणपति मंदिर से जिसी बस स्टेण्ड एम.जी रोड, मल्हारगंज पुलिस थाने तक	यशवंत गज साउथ, लोहार पट्टी	नार्थराज मोहल्ला, महेश नगर, गिरधर नगर से महादेव नगर तक	जय भवानी नगर, कालानी नगर, नया पुरा मोहता बाग

वार्ड न.	वार्ड का नाम	वार्ड समाहित क्षेत्र	चर्तुः सीमा			
			(1)	(2)	(3)	(4)
			उत्तर	पूर्व	दक्षिण	पश्चिम
		तिरुपति नगर, झोपड पट्टी, सांखला कालोनी, बिजासन कालोनी, भोलेनाथ कालोनी, इन्द्रनगर झोपड पट्टी, पंचकुईया श्मशान घाट के पास, रामचन्द्र नगर एक्स., नयापुरा के पास, शुक्ला नगर, रामायण नगर, नयापुरा इटभट्टा, एवं कॉलम क्रमांक 4 में दर्शित वार्ड की चर्तुःसीमा के अन्तर्गत समस्त क्षेत्र ।				
7	जनता कालोनी	पिलिया खाल, गौरव नगर, छत्रपति नगर, महावीर नगर, अग्रसेन नगर, श्रमिक कालोनी, जनता कालोनी, सुभाष मार्ग (बडा गणपति से जिन्सी चौराहा तक) दुसरी पल्टन, वायरलेस पुलिस क्वार्टर, जिन्सी मेन रोड, अर्जून पल्टन पुलिस लाईन, अर्जून पल्टन, शंकरगंज मेन रोड, किला मेदान रोड आफिसर बगला से गोकुल गंज, कंडिल पुरा, शंकरगंज, दुधाधारी बगीचा, (राधा गंज जुना रिसाला) नीलकंठ कालोनी, राधा नगर एवं कडाबीन (लाल मंदिर) एवं कॉलम क्रमांक 4 में दर्शित वार्ड की चर्तुःसीमा के अन्तर्गत समस्त क्षेत्र ।	सांवरिया नगर, अनाज मण्डी, किला मेदान, सिकन्द्राबाद कालोनी,	भिश्ती मोहल्ला, शास्त्री कालोनी, मल्हार पल्टन, से एम.जी.रोड तक	कडाबीन गली नं. 1 सीताराम पार्क से विध्याचल नगर तक	पुलिस पेट्रोल पम्प से पुलिस क्वार्टर साहू नगर पल्लर नगर तक
8	जूना रिसाला	मल्हारगंज मेन रोड, (मधुबन होटल से रामाशाह मंदिर तक) तम्बोली बाखल, गोपाल विलास मल्हारगंज, टोरी कार्नर, मल्हार पल्टन, शांति नगर, चौथी पल्टन, छीपा बाखल, नार्थ यशवंतगंज, एम. जी.रोड. गोरा कुड चौराहा, अहिल्यापुरा, खजूरीबाजार एम.जी.रोड, गौराकुड चौक, टोरी कार्नर, अर्जूनसिंह नगर, रविदास नगर, हरिजन कालोनी, सिकन्द्राबाद कालोनी, कम्युनिटी हाल, शास्त्री कालोनी, रामगंज जिंसी, जिंसी हाट मेदान,	शंकरगंज, अर्जून पल्टन, अहिल्या पल्टन	अहिल्या पल्टन, बडवाली चौकी, जुना पिठा, खजूरी बाजार	गौरा कुण्ड चौराहा, एम.टी. एच क्लाथ मार्केट मल्हारगंज से कडाबीन तक	कडाबीन

वार्ड न.	वार्ड का नाम	वार्ड समाहित क्षेत्र	चर्तुः सीमा			
			(1)	(2)	(3)	(4)
			उत्तर	पूर्व	दक्षिण	पश्चिम
		जूना रिसाला गली नं. 1, 2, 3 एवं कॉलम क्रमांक 4 में दर्शित वार्ड की चर्तुःसीमा के अन्तर्गत समस्त क्षेत्र ।				
9	वृन्दावन	शेषाद्री कालोनी, साउथ गाडराखेडी, सम्पूर्ण ब्रम्हबाग कालोनी, कुम्हारखाडी सम्पूर्ण, दूर्गानगर मरीमाता चौराहे के पास, रघुवंशी कालोनी, नार्थ गाडराखेडी, राहीनगर, खासगी का बगीचा, वृन्दावन कालोनी, महेशगार्ड. पुलिस लाईन, पेनजान कालोनी, लटूर बाग, मेहता नगर, कमला नेहरूनगर, शहीद हेमू कालोनी, गोमती नगर, लक्ष्मणपुरा, गुरु गोविंदसिंह नगर एवं कॉलम क्रमांक 4 में दर्शित वार्ड की चर्तुःसीमा के अन्तर्गत समस्त क्षेत्र ।	मां अहिल्या नगर, गोविंद कालोनी, बाणगंगा	जयहिन्द नगर, बाणगंगा, मुक्तीधाम, फ्रीगंज से मरीमाता चौराहा सदर बाजार नाला	सिकंदराबाद कालोनी, किला मेदान से रामबली नगर तक	लक्ष्मीबाई नगर, बी.एस.एन.एल. आफिस, लक्ष्मीपुरी, से संगम नगर तक
10	बाणगंगा	सत्यसोईबाग, वाल्मिकी नगर, सम्पूर्ण महेश यादव नगर, सम्पूर्ण बाणगंगा, सुभाष नगर, फ्रीगंज छोटी कुम्हारखाडी, पटेल का भट्टा, जयहिंद नगर एवं कॉलम क्रमांक 4 में दर्शित वार्ड की चर्तुःसीमा के अन्तर्गत समस्त क्षेत्र ।	महाराणा प्रताप नगर, लेप्रोसी हास्पिटल, लक्ष्मीबाई नगर, रेल्वे लाईन	नाला, पोलोगाउण्ड, इण्डस्ट्रीयल एरिया	मरीमाता स्केयर	वृन्दावन कालोनी, गोविंद कालोनी से शीतल नगर, दुर्गा नगर, महाराणा प्रताप नगर,
11	भागीरथपुरा	रफेली भागीरथपुरा, कम्युनिटी हॉल के पीछे भागीरथपुरा, मेन भागीरथपुरा, भागीरथपुरा फर्शी वाली गली, रेडवाल कालोनी एवं यादव कालोनी, बगिया मोहल्ला, नई बस्ती भागीरथपुरा, चिराड मोहल्ला, बावडी की चाल, मा.व., लक्ष्मीबाई नगर, मोहता नगर, लक्ष्मीबाई नगर रेल्वे स्टेशन एवं कॉलम क्रमांक 4 में दर्शित वार्ड की चर्तुःसीमा के अन्तर्गत समस्त क्षेत्र ।	नाला इण्डस्ट्रीयल एरिया	नाला भागीरथपुरा	नाला शुक्ला नगर	लक्ष्मीबाई नगर, रेल्वे लाईन
12	गोविंद कालोनी	गणेशबाग सम्पूर्ण, गोविंद नगर, सम्पूर्ण न्यू गोविंद नगर, महाराणा प्रताप नगर, न्यू शीतल नगर, सम्पूर्ण यादवनन्द नगर, राधाकृष्ण नगर, कर्मनगर, दुर्गानगर, विशाल नगर, दुर्गानगर नई	दशरथ बाग, प्रिंस नगर, कुशवाह नगर, मेंटल हास्पिटल तक	महेश यादव नगर, वाल्मिकी नगर, बाणगंगा,	वृन्दावन कालोनी, पेनजॉन कालोनी, लटूर बाग	मां अहिल्या नगर, स्कीम नं. 51 एवं स्कीम नं. 155 मातेश्वरी नगर

वार्ड न.	वार्ड का नाम	वार्ड समाहित क्षेत्र	चर्तुः सीमा			
			(1)	(2)	(3)	(4)
			उत्तर	पूर्व	दक्षिण	पश्चिम
		बस्ती, गंगा बाग, श्रध्दा धाम एवं कॉलम क्रमांक 4 में दर्शित वार्ड की चर्तुःसीमा के अन्तर्गत समस्त क्षेत्र ।				
13	संगम नगर	अवन्तिका नगर, स्कीम न.51, संगम नगर, माँ अम्बिका नगर, माँ अहिल्या नगर, लक्ष्मी पुरी, रामबली नगर, अर्चना नगर, हम्माल कालोनी, मेन रोड बांगडदा रोड, लक्ष्मीनगर झोपड पट्टी अनाज मंडी कीचड पट्टी, वैष्णव विहार, कावेरी नगर, शुभम पैलेस, शुभम नगर एवं कॉलम क्रमांक 4 में दर्शित वार्ड की चर्तुःसीमा के अन्तर्गत समस्त क्षेत्र ।	राखी नगर, स्कीम नं. 155, दुर्गा नगर	लटुर बाग, लक्ष्मणपुरा, बी. एस.एफ. क्वार्टर, पुलिस लाईन किला मेदान तक	फायर बिग्रेड पुलिस क्वार्टर, सांवरिया नगर से रूकमणी नगर तक	सुविधी नगर, महावीर नगर, शुभम पैलेस, गरीब नवाज कालोनी,
14	अशोक नगर	अशोक नगर, अम्बिका पुरी एवं एक्सटेशन, सुविधी नगर, रूखमणी नगर, सोमानी नगर, कृषि नगर (श्री लक्ष्मी नगर), सुखदेव नगर एक्स., लोकनायक नगर, सांवरिया नगर, पल्हर नगर, ओम विहार, पंचशिल नगर झोपड पट्टी एयरपोर्ट के सामने, व्यास नगर एवं कॉलम क्रमांक 4 में दर्शित वार्ड की चर्तुःसीमा के अन्तर्गत समस्त क्षेत्र ।	बिजासन माता मंदिर, शक्ति नगर, बापू मुराई मोहल्ला, वैष्णव कालोनी मनोजश्री नगर से महावीर नगर तक	सृष्टि नगर, हम्माल कालोनी, कावेरी नगर, अनाज मण्डी	पुलिस क्वार्टर, साहू नगर, अखण्ड नगर, वैकटेश नगर से बी एस एफ एरिया, मारुती पैलेस, गांधी पैलेस लक्ष्मी नगर	एयरपोर्ट
15	बिजासन	बडा बांगडदा गाँव, गांधी नगर, बोहरा कालोनी, टिगरीया बादशाह गाँव, चौरसिया नगर, शक्ति नगर, पटेल नगर बिजासन माता मन्दिर, आशा पैलेस, लक्ष्मी नगर, परमहंस नगर, मनु श्री नगर, विद्या पैलेस, बाबू मुराई मोहल्ला एवं कॉलम क्रमांक 4 में दर्शित वार्ड की चर्तुःसीमा के अन्तर्गत समस्त क्षेत्र ।	पाला खेडी गाँव, से भौरासला गाँव की सीमा	इण्डस्ट्रीयल एरिया, नरवल गाँव, बजरंग नगर, गंगा नगर, नरीमन सिटी, रूप नगर	अशोक नगर, लक्ष्मी नगर, पंचशील नगर, एयरपोर्ट, नेनोद गाँव	बुडानिया गाँव की सीमा, जम्बूडी हप्सी गाँव की सीमा
16	नंदबाग	नन्द बाग, राखी नगर, जयराम नगर, मातेश्वरी नगर, नन्दन नगर, एक्ता नगर सुरेन्द्र नगर, यादव पैलेस, श्रेयश नगर, रूप नगर, लेक पैलेस, कैदार नगर, वन्दना नगर, शांति नगर,	टिगरिया बादशाह गाँव, की सीमा	ईशान पैलेस, जयराम नगर, दशरथ बाग, राधा कृष्ण कालोनी,	स्कीम नं. 51 अवतिका नगर, से श्रीनाथ स्ट्रीट आराधना नगर, अशोक नगर	विद्या पैलेस कालोनी, छोटा बागडदा गाँव, बडा बागडदा गाँव

वार्ड न.	वार्ड का नाम	वार्ड समाहित क्षेत्र	चर्तुः सीमा			
			(1)	(2)	(3)	(4)
			उत्तर	पूर्व	दक्षिण	पश्चिम
		श्रीराम नगर, दुर्गा नगर, वैकटेश विहार, छोटा बांगडदा ग्राम, स्कीम न. 155, स्मृति नगर, महावीर नगर, विकास नगर, गंगा धाम, विशाल पैलेसएवं कॉलम क्रमांक 4 में दर्शित वार्ड की चर्तुःसीमा के अन्तर्गत समस्त क्षेत्र ।				
17	कुशवाह नगर	सम्पूर्ण कुशवाह नगर, कुशवाह नगर मेनरोड से जगदीश नगर तक, न्यू प्रिसननगर, प्रिसनंगर, सुन्दर नगर, ऋषि नगर, रोशनबाग, पुष्पनगर, अंजनीनगर, जगदीश नगर, जगन्नाथ नगर, रामनगर, न्यू रामनगर, राजाबाग, कमला केशर नगर, दशरथ बाग एवं कॉलम क्रमांक 4 में दर्शित वार्ड की चर्तुःसीमा के अन्तर्गत समस्त क्षेत्र ।	टिगरिया बादशाह ग्राम, बजरंग नगर, से इण्डस्ट्रीयल एरिया	दुर्गा नगर, से मेटल हास्पिटल,	महाराणा प्रताप नगर, राधाकृष्ण कालोनी स्कीम नं. 155	मातेश्वरी नगर, नंदबाग, गंगा नगर होते हुए टिगरिया बादशाह गाँव की सीमा
18	संत कबीर	शिव नगर, गोविन्द नगर खारचा, बजरंगपुरा, सुगंधा नगर, अवंतिका नगर, शिवकंठ नगर, बद्रीधाम, भवानी नगर व कांकड़, शांति नगर, पागलखाना, भगतसिंह नगर, नई बस्ती, मानसिक चिकित्सालय के आसपास का क्षेत्र, गंगाबाई की बस्ती मारुती नगर, भोलेनाथ कॉलोनी, ईशावास कॉलोनी, बालाजी विहार, बरदरी ग्राम, रेवती ग्राम, भौरासला ग्राम, सॉवेर रोड औद्योगिक क्षेत्र सेक्टर ए एवं ई, टिगरिया बादशाह क्षेत्र एवं कॉलम क्रमांक 4 में दर्शित वार्ड की चर्तुःसीमा के अन्तर्गत समस्त क्षेत्र ।	भांग्या ग्राम की सीमा	करोलबाग बाहरी हिस्सा, भांग्या गांव, कुमेर्डी, इंडस्ट्रीयल एरिया- , ई सेक्टर, मार्डन चौराह, रिद्धी सिद्धी नगर, गणेशधाम, दुर्गा नगर, मुखर्जी नगर	सरस्वती कुष्ठ आश्रम, राजाबाग सुंदरनगर, विजयवर्गीय नगर,	टिगरिया बादशाह गांव, पालाखेडी गांव
19	विश्वकर्मा	गणेश धाम, मुखर्जी नगर, भगतसिंह नगर, (बाणगंगा नाके से उज्जैन जाने वाले मार्ग की ओर पूर्व की तरफ का भाग) रामदत्त का भट्टा, बाणगंगा थाने के सामने वाली गली, सॉवेर रोड	भांग्या ग्राम	भानगढ, एम. आर.10 ब्रिज, टोल टेक्स, रेल्वे लाईन, सुखलिया, खातीपुरा ब्रीज से नाला,	महेश यादव नगर, महाराणा प्रताप नगर	बाणगंगा, मानसिक चिकित्सालय, रेल्वे ब्रिज, शिव नगर, भवानी नगर, इंडोरामा जर्मन टूलरूम, से

वार्ड न.	वार्ड का नाम	वार्ड समाहित क्षेत्र	चर्तुः सीमा			
			(1)	(2)	(3)	(4)
			उत्तर	पूर्व	दक्षिण	पश्चिम
		औद्योगिक क्षेत्र सेक्टर सी. व एफ. आदर्श गणपति नगर, साँई सुमन नगर, नरवल गाँव एवं कांकड़, दुर्गा नगर, कुमेडी ग्राम व कांकड़ करोलबाग, रिद्धि-सिद्धि नगर, गंगा नगर एवं कॉलम क्रमांक 4 में दर्शित वार्ड की चर्तुःसीमा के अन्तर्गत समस्त क्षेत्र ।		लक्ष्मीबाई नगर से महेश यादव नगर		कुमेडी तक
20	गौरी नगर	गौरी नगर, न्यूगौरी नगर, भोलेनाथ धाम, रूप नगर, केशव नगर, आदिनाथ नगर, न्यू खातीपुरा, खातीपुरा गाँव, खातीपुरा हरिजन बस्ती, सुखलिया ग्राम, देवश्री नगर, खातीपुरा कालोनी, मोती नगर, प्रिन्स सिटी, आद्योगिक क्षेत्र सेक्टर-डी, पन्ना नगर, रेल्वे झुग्गी झोपड़ी, सूरज नगर आदि एवं कॉलम क्रमांक 4 में दर्शित वार्ड की चर्तुःसीमा के अन्तर्गत समस्त क्षेत्र ।	टोल टेक्स नाका, एम. आर.10 ब्रिज. से भाग्यलक्ष्मी नगर,	भाग्य लक्ष्मी नगर, अभिनन्दन नगर, किंग्सपार्क, गौरी शंकर नगर से राधिका सोसायटी	शारदा विधा मंदिर, इंडस्ट्रीयल एरिया, डी-1 एण्ड डी-2 से गणेश धाम	गणेश धाम से इंडस्ट्रीयल एरिया, सेक्टर सी, से एम.आर. 10 टोल टेक्स नाका ।
21	श्याम नगर	श्याम नगर, श्याम नगर एनेक्स, श्याम नगर एक्सटेंशन सहित सम्पूर्ण श्याम नगर, भाग्य लक्ष्मी नगर, जनकपुरी, गायत्री नगर, न्यू गायत्री नगर, वीणा नगर एम.सेक्टर म.नं. 1 से 235 तक वीणा नगर एम.बी. सेक्टर म.नं. 12 से 71 तक अभिनन्दन नगर, राधिका सोसायटी, सागर विहार कॉलोनी, न्यू हीरा नगर, सुन्दर नगर एक्सटेंशन, मंगल नगर, काशीपुरी, ट्रीटमेन्ट प्लान्ट वाला रोड नगर निगम क्वार्टर, गुलमोहर ग्रीन, तिरुमाला प्राईड, बॉसुरीवाला, शालीमार स्वयं, कल्पना नगर, सिद्धी नगर कैलाश पुरी, अल्कापुरी किंग्स पार्क, गौरीशंकर नगर आदि एवं कॉलम क्रमांक 4 में दर्शित वार्ड की चर्तुःसीमा के अन्तर्गत समस्त क्षेत्र ।	कुमेडी गाँव व भानगढ़ गाँव की सीमा	निरंजनपुर नई बस्ती, चन्द्रगुप्त मौर्य चौराह, हीरा नगर, वीणा नगर, आदर्श मौलिक नगर, आई.टी. आई.	इलेक्ट्रानिक काम्पलेक्स, भगवती नगर,	गौरी नगर, प्रिंस सिटी, कुमेडी ग्राम

वार्ड न.	वार्ड का नाम	वार्ड समाहित क्षेत्र	चर्तुः सीमा			
			उत्तर	पूर्व	दक्षिण	पश्चिम
(1)	(2)	(3)	(4)			
22	पं. दीन दयाल उपाध्याय	पं.दीनदयाल उपाध्याय नगर सेक्टर ए.एच.म.नं. 1 से 23 तक ए.एम.म.नं. 1 से 76 तक ए.एल.म.नं. 1 से 31 तक सेक्टर ए.म.नं. 1 से 484 तक ए.एम-2 शॉप कम रेसीडेन्सल म.नं. 1 से 50 तक डी.एच.म.नं. 1 से 31 तक बी.एम.म.नं. 1 से 120 तक ए.एम.म.नं. 77 से 150 तक ए.एम-2 म.नं. 200 से 310 तक आदर्श मौलिक नगर म.नं. 1 से 45 तक सी.एच.डी.म.नं. 19 से 54 तक सी.एल.म.नं. 1 से 200 तक डी.एम.म.नं. 1 से 344 तक सी.एम.म.नं. 1 से 60 तक सी.एच.म.नं. 1 से 51 तक, सी.सेक्टर प्लॉट म.नं. 602 से 799 तक रविदास नगर, लवकुश विहार, सबरी नगरी, हीरा नगर मेन रोड़ वीणा नगर, एम.आर. 10 रोड़ सुखलिया चौराहे से चन्द्रगुप्त मौर्य चौराहे तक, सुखलिया चौराहे से मारुती नगर चौराहे तक मेन रोड़, सुन्दर नगर मेन, वीणा नगर सेक्टर-ए, बी, सी आदि एवं कॉलम क्रमांक 4 में दर्शित वार्ड की चर्तुःसीमा के अन्तर्गत समस्त क्षेत्र ।	चन्द्रगुप्त मौर्य चौराह, एम.आर.10 रोड़ बापट चौराहा पुलिया तक	फार्चून लेण्ड माक	डॉ कालोनी, मारुती नगर, अम्बे नगर, प्राईम सिटी, एम.आर.-9 से श्याम नगर	श्याम नगर से जनकपुरी होते हुए चन्द्रगुप्त मौर्य चौराहा तक
23	स्व. राजेश जोशी	परदेशीपुरा सम्पूर्ण, अर्जुनसिंह गौहर नगर, लालगली, गणेश नगर, क्लर्क कालोनी, धनलक्ष्मी अपार्टमेन्ट, रेडिमेड कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स, समाज कल्याण परिसर, क्लर्क कॉलोनी एक्सटेंशन, भगवती नगर, यशोदा नगर, पुराना गौरी नगर, कोली मोहल्ला, आदर्श बिजासन नगर एवं कॉलम क्रमांक 4 में दर्शित वार्ड की चर्तुःसीमा के अन्तर्गत समस्त क्षेत्र ।	गौरीनगर, श्याम नगर, आय.टी.आय. खातीपुरा (तिराह)	आय.टी.आय., खातीपुरा (तिराह) आय. टी.आई. एम. आर.09 तिराहे से इ.एस.आई. हास्पिटल चौराह, तीन पुलिया तिराहे तक	तीन पुलिया से परदेशी चौराह, सुभाष नगर चौराह, कुलकर्णी भट्टा, भागीरथ पुरा पुलिया तक	भागीरथ पुरा ब्रिज से नाले होते हुए न्यू गौरी नगर तक

वार्ड न.	वार्ड का नाम	वार्ड समाहित क्षेत्र	चर्तुः सीमा			
			(1)	(2)	(3)	(4)
			उत्तर	पूर्व	दक्षिण	पश्चिम
24	संत बालीजी नाथ महाराज	सर्वहारा नगर, सम्पूर्ण सुभाष नगर, शंकर कुम्हार का बगीचा, पेनजॉन कॉलोनी, शिवशक्ति नगर, स्वदेशी मिल गेट से सुभाष नगर तक मेन रोड परदेशीपुरा थाने के क्वार्टर, गोकुलदास कॉम्प्लेक्स श्यामचरण शुक्ल नगर, सम्पूर्ण कुलकर्णी का भट्टा, शीलनाथ कैम्प, लक्ष्मण माली का खेत, कोटावालो की चाल, बैरवा समाज बस्ती, नंदामाली का बस्ती, नारायण माली का खेत अहिरवार समाज बस्ती, जाटव समाज बस्ती, सहित हुकमचंद मिल के आसपास का क्षेत्र व राजकुमार मिल सब्जी मंडी आदि एवं कॉलम क्रमांक 4 में दर्शित वार्ड की चर्तुःसीमा के अन्तर्गत समस्त क्षेत्र ।	भागीरथपुरा ब्रिज, डमरूपुरा, सुभाष नगर, चौराह, परदेशी पुरा चौराह तीन पुलिया ।	तीन पुलिया, परदेशीपुरा मेन रोड से जीवन की फेल, मालवा मील मुक्तीधाम तिराहे से हुकुमचंद रेल्वे लाईन तक	भंडारी रेल्वे लाईन से एम. पी.ई.बी. रेल्वे अंडर ब्रीज नाले होते हुए इन्दौर स्टील ।	शुक्ला नगर नाला से कुलकर्णी भट्टा नाला से भागीरथ पुरा पुलिया तक
25	नंदा नगर	नंदा नगर रोड नं. 1-2-3-4 व 7-8 सहित रोड नंबर 13 से 26 तक नंदानगर तीन पुलिया एम. आई.जी.क्वार्टर, जनता क्वार्टर, अयोध्या नगरी, पुलिस क्वार्टर, मालवा मिल, पतरे की चाल, पक्की चाल, सम्पूर्ण मालवा मिल कम्पाउण्ड मेन रोड सर्वहारा नगर से पाटनीपुरा चौराहा तक एवं कॉलम क्रमांक 4 में दर्शित वार्ड की चर्तुःसीमा के अन्तर्गत समस्त क्षेत्र ।	नंदा नगर रोड नं. 9 सेन्ट जोसफ चर्च ।	सेंट जोसफ चर्च, पाटनीपुरा चौराहे से मालवामील पुलिया तक	मालवामील पुलिया से नाले होते हुए जीवन की फेल	जीवन की फेल, सर्वहारा कालोनी, सुगनी देवी कालेज से नंदानगर रोड नं. 9 तक
26	जीण माता	नेहरू नगर रोड नं. 1 से 10 तक बहुमंजिल सहित, मेन रोड मालवा मिल से पाटनीपुरा तक, अमीर पहलवान की चाल, नरसिंग की चाल, भैरवबाबा की गली, गफूर खॉ की चाल, मुमताज सेठ की गली, नंदराम बनिया का बगीचा, बेकरी वाली गली, हाकिम की चाल, मुकादम की चाल, दनफन	पाटनीपुरा चौराह से एम.आई.जी थाना अटल द्वार तक ।	अटल द्वार, सरकारी स्कूल, रूपेश यादव नगर	रूपेश यादव नगर, रूस्तम की चाल, काजी की चाल पुलिया मेन रोड ।	मालवामील पुल से, पाटनी पुरा चौराहा ।

वार्ड न.	वार्ड का नाम	वार्ड समाहित क्षेत्र	चर्तुः सीमा			
			(1)	(2)	(3)	(4)
			उत्तर	पूर्व	दक्षिण	पश्चिम
		की चाल, लालापुरा, मांगीलाल की चाल, मोतीलाल की चाल, फुलसिंग जमादार की चाल, कन्हैयालाल की चाल, आदि एवं कॉलम क्रमांक 4 में दर्शित वार्ड की चर्तुःसीमा के अन्तर्गत समस्त क्षेत्र ।				
27	पशुपति नाथ	बजरंग नगर सम्पूर्ण, जूनियर बजरंग नगर, डी.एम.क्वार्टर, नंदानगर रोड नंबर- 5-6 एवं -9 10-11-12 सहित रोड नंबर-27 से 31 तक सत्यम विहार, सुयश विहार, डॉक्टर कॉलोनी, पंचदीप भवन, तीन मंजिला हॉस्पिटल के क्वार्टर व आसपास का क्षेत्र, कारसदेव नगर, मारुती नगर, अनुदेशक नगर, अम्बे नगर, प्राईम सिटी एवं प्राईम सिटी एनेक्स, स्टाफ कालोनी एवं कॉलम क्रमांक 4 में दर्शित वार्ड की चर्तुःसीमा के अन्तर्गत समस्त क्षेत्र ।	खातीपुरा (आई.टी.आई.) तिराहा सुंदर नगर, आदर्श मौलिक नगर, पं. दीनदयाल नगर, होटल फार्चून लेण्ड मार्क ।	फार्चून लेण्ड मार्क के पीछे नाले से मेघदूत नगर, अंजली नगर, आस्था सिनेमा से सेंट जोसफ चर्च रोड नं. 9 तक ।	रोड नं. 9 नंदा नगर	नंदा नगर रोड नं. 9 से क्लर्क कालोनी, वृद्धा आश्रम, खातीपुरा आई.टी.आई. तिराहा ।
28	मां तुलजा भवानी	मेघदूत नगर, नेत्रा कॉलोनी, छोटी भमौरी, संजय गांधी नगर, शिव शक्ति नगर, बडी भमौरी (दुबे) भमौरी प्लाजा, राम नगर, अंजनी नगर, कैलाश का भट्टा, न्यू अंजनी नगर, मालवीय समाज बस्ती, रामनगर नई आबादी, त्रिलोक का भट्टा, नवजीवन रहवासी संघ, मेघदूत गार्डन, मेघदूत श्मशान घाट के आसपास का सम्पूर्ण क्षेत्र होटल फॉर्च्यून लैण्डमार्क आदि, एल.आई.जी. सेक्टर-के मकान नं. 1 से 112 तक एवं आवास आदि एवं कॉलम क्रमांक 4 में दर्शित वार्ड की चर्तुःसीमा के अन्तर्गत समस्त क्षेत्र ।	बापट चौराहे से सयाजी चौराह एम. आर.10	सायाजी चौराहे से मनमंदीर, आदर्श मेकेनिक नगर, संजय गांधी नगर एम. आर. 9 पुलिया नादिया नगर	नादिया नगर. अंसारी कालोनी, कन्चू पटेल की चाल	नंदा नगर रोड नं. 7 चर्च चौराह, बजरंग नगर, राज्य कर्मचारी बीमा नगर, मारुती नगर से बापट चौराह ।
29	डॉ श्यामप्रसाद मुखर्जी	विजय नगर, स्कीम नं. 54 के संपूर्ण सेक्टर स्कीम नं. 74 के संपूर्ण सेक्टर स्कीम नंबर-54 आदर्श मेकेनिक नगर, मेकेनिक नगर एक्सटेंशन, स्कीम नं 54 पी.	नक्षत्र गार्डन तिराहा 74 मेन रोड से ए.बी.रोड	ए.बी.रोड बसंत विहार तिराहे से विजयनगर चौराहा, से अतिथि निवास होटल तक	ए.बी.रोड अतिथि निवास सेठी संबंध नगर	बडी भमौरी से सयाजी चौराहा, एम.आर.10 बापट चौराहा से एम. आर. 11 नक्षत्र गार्डन तिराहा

वार्ड न.	वार्ड का नाम	वार्ड समाहित क्षेत्र	चर्तुः सीमा			
			उत्तर	पूर्व	दक्षिण	पश्चिम
(1)	(2)	(3)	(4)			
		यू-3, ऐरन हाउस, सफायर हाउस, मान हाउस, होटल अतिथि निवास, सतगुरु बिल्डिंग, सुरभि गार्डन, हाउसिंग एच.आय.जी.क्वार्टर हाउसिंग बिल्डिंग, शर्मा नमकीन के आसपास का क्षेत्र एवं कॉलम क्रमांक 4 में दर्शित वार्ड की चर्तुःसीमा के अन्तर्गत समस्त क्षेत्र ।				
30	संत रविदास	बर्फानी नगर, मालवीय नगर रोड नंबर-2, अनुराग नगर भास्कर प्रेस के पीछे प्रेस कॉम्प्लेक्स परिसर, ओम गुरुदेव कॉम्प्लेक्स, शांतिदीप कॉलोनी, सम्पूर्ण कृष्णबाग, गुरु नगर, गुरु नगर एक्सटेंशन, श्रद्धाश्री कॉलोनी, सुन्दर नगर, न्यू मालवीय नगर, बर्फानी नगर, महेशबाग कॉलोनी, रविजागृति नगर, अंबिका नगर, अनिल नगर, सोलंकी नगर, चन्द्र नगर के पास होटल अमरविलास, स्टेट बैंक परिसर, श्रीमाया रेसीडेंसी के आस-पास का क्षेत्र एवं कॉलम क्रमांक 4 में दर्शित वार्ड की चर्तुःसीमा के अन्तर्गत समस्त क्षेत्र ।	सी 21 माल ए.बी.रोड से आदर्श मौलिक नगर से मां अम्बिका नगर से रिंग रोड	वेलोसिटी टॉकीज, रिंग रोड एम.आर. 9 स्वर्ण बाग	कालिंदी पार्क नई सड़क खजराना कांकड पुलिया से लाईफ लाइन अस्पताल ए.बी.रोड	ए.बी.रोड एल आई जी गुरुद्वारा एम. आर. 9 चौराहा से सी 21 मॉल तक
31	महाराजा छत्रसाल	भाग्यश्री कॉलोनी, शीतल नगर ए सेक्टर शीतल बी सेक्टर सुमन नगर गंगादेवी नगर, मां अंबिका नगर, मंगल सिटी, स्कीम नं. 54 पी.यू-4 बी.सी.एम.हाईट्स, शेखर प्लेनेट, प्रिन्सेस प्लाजा, रायल प्लेटिनम, बसंत विहार कॉलोनी, शांति निकेतन, बापजी नगर, राजाबाग, स्कीम नं. 114 पार्ट-2, स्कीम नं. 94 सेक्टर डब्ल्यू. ए. डब्ल्यू. बी. डब्ल्यू. ई. सेक्टर ई.बी. अनुराग नगर, शालीमार टाउनशिप के पीछे शालीमार टाउनशिप के पीछे सम्पूर्ण बापू गांधी नगर, गुलाब बाग, आदर्श मेघदूत नगर, न्यू शीतल नगर, चित्रानगर,	निरंजनपुरा चौराहा से लसुडिया मोरी तिराहा रिंग रोड	लसुडिया तिराहा रिंग रोड रेडिसन चौराहा वेलोसिटी सिनेमा तक	रिंग रोड अंबिका कालोनी, अनिल नगर, मालवीय नगर ए.बी.रोड सी 21 तिराहा तक ।	ए.बी.रोड सी 21 के सामने रसोमा चौराहा, विजयनगर चौराहा से निरंजनपुर चौराहा

वार्ड न.	वार्ड का नाम	वार्ड समाहित क्षेत्र	चर्तुः सीमा			
			उत्तर	पूर्व	दक्षिण	पश्चिम
(1)	(2)	(3)	(4)			
		पटेल नगर, पूनम पैलेस कॉलोनी, बी.एस.एन.एल. क्वार्टर, स्कीम नंबर-54 पी. यू.-4 21 मॉल, मल्हार मेगा मॉल, मालवीय नगर रोड नंबर-1 व 3 श्रीराम नगर, कल्पकामधेनु नगर, आदि एवं कॉलम क्रमांक 4 में दर्शित वार्ड की चर्तुःसीमा के अन्तर्गत समस्त क्षेत्र ।				
32	अटल बिहारी वाजपेयी	स्कीम नं. 78 स्लाईज नं. 2-4 एवं 5-6 के समस्त सेक्टर अटल बिहारी खेल संकुल परिसर, नर्मदा क्वार्टर , 78 पार्ट-2 होटल वृंदावन, सी.एच.एल.हॉस्पिटल,नक्षत्र कवेशन सेन्टर के आसपास का इलाका, स्कीम नं. 113 रघुनंदबाग व ईश्वर नगर एवं कॉलम क्रमांक 4 में दर्शित वार्ड की चर्तुःसीमा के अन्तर्गत समस्त क्षेत्र ।	एम.आर.11 सिक्का स्कूल चौराहा, स्कीम नं. 78 पार्ट 1 से ए. बी.रोड ।	शालीमार टॉउन शीप. ए.बी. रोड, बंसत बिहार कालोनी ।	स्कीम नं. 74 सी, प्रेस्टीज कालेज नक्षत्र गार्डन तिराहा ।	एम.आर.11 नक्षत्र तिराहा से सिक्का स्कूल 78 चौराहा
33	सुखलिया	कबीटखेडी, लाहीया कॉलोनी,सूर्या पैलेस, शिवानी नगर, पराग नगर, मॉ शारदा नगर, रॉयल बंगलें संस्कृति नगर, स्वास्थ्य नगर, शालीमार बंगलें पं.दीनदयाल उपाध्याय नगर सेक्टर सी. एन.म.नं.1 से 303 तक, ए. एच.म.नं.24 से 54 तक, ए. एस.एच.म.नं. 1 से 21 तक, ए.एच.डी.म.नं. 1 से 52 तक ए.एम-सेकण्ड म.नं. 1 से 199 तक, सी.एम.सेकण्ड म. नं. 1 से 654 तक सी.जे.आर. एम.म.नं. 1 से 125 तक सी. एम. म.नं. 61 से 250 तक सी.एच.52 से 101 तक सी. सेक्टर प्लाट म.नं. 485 से 601 सी.एल. 1 से 100 तक । सी.सेक्टर प्लाट 800 से 1125 तक सी.एच.डी. 1 से 18 तक। आदर्श मौलिक नगर , न्याय नगर, जय अम्बे नगर एवं कॉलम क्रमांक 4 में दर्शित वार्ड की चर्तुःसीमा के अन्तर्गत समस्त क्षेत्र ।	भानगढ नाला, स्कीम नं. 136 होते हुए स्कीम नं. 113 तक	कबीट खेडी, स्कीम नं. 136, सिक्का स्कूल, स्कीम नं. 54 एफ एच सेक्टर	बापट चौराहा एम.आर.10 रोड चन्द्रगुप्त मौर्य चौराहा के पूर्व तिराहा	चन्द्रगुप्त मौर्य चौराहा ट्रीटमेंट प्लाट भानगढ ।

वार्ड न.	वार्ड का नाम	वार्ड समाहित क्षेत्र	चर्तुः सीमा			
			उत्तर	पूर्व	दक्षिण	पश्चिम
(1)	(2)	(3)	(4)			
34	शहीद भगतसिंह	निरंजनपुर व आसपास का क्षेत्र स्कीम नं. 114 पार्ट-1 सम्पूर्ण राजीव आवास योजना, स्कीम नं. 78 स्लाईज नं. 1 व 3 के सम्पूर्ण सेक्टर स्कीम नं. 78 लोहा मंडी, रो-हाउस (पिक सिटी) स्कीम नं. 136, किश्चियन क्वार्टर, आदि एवं कॉलम क्रमांक 4 में दर्शित वार्ड की चर्तुःसीमा के अन्तर्गत समस्त क्षेत्र ।	निरंजनपुर, नई बस्ती, एम.आर. 11 रोड निरंजनपुर चौराहा ए.बी. रोड	ए.बी.रोड निरंजनपुर चौराहे से शालीमार टाउनशीप	अरण्य स्कीम नं. 78 से सीका स्कुल, स्कीम नं. 113 लाहिया कालोनी, मुक्तीधाम	भानगढ ग्राम नाला
35	लसूडिया मोरी	ग्राम लसूडिया मोरी, ग्राम तलावली चॉदा, राहुल गांधी नगर, निरंजनपुर नई बस्ती, स्कीम नं. 78 लोहा मंडी का राहुल गांधी नगर से लगा हुआ क्षेत्र बजरंग नगर कांकड़, तलावली चॉदा क्षेत्र की समस्त बस्तीयों व नगर, लसूडिया ग्राम क्षेत्र की समस्त बस्तीयों व नगर एवं कॉलोनी, मधुबन का ढाबा, निरंजनपुर चौराहा से तलावली चॉदा तक देवास नाका मेन रोड, शकर खेडी, भानगढ आदि एवं कॉलम क्रमांक 4 में दर्शित वार्ड की चर्तुःसीमा के अन्तर्गत समस्त क्षेत्र ।	कैलोद हाला	अरंडिया, मायाखेडी	निपानिया, श्रीराम नगर से ए.बी.रोड निरंजनपुर चौराहा से एम. आर.11 होते हुए निरंजनपुर नाला से भांग्या रोड तक	निरंजनपुर नाले से रेल्वे पटरी होते हुए कैलोद हाला भांग्या रोड से रेल्वे क्रांसिंग से भांग्या गाँव की सीमा
36	निपानिया	ग्राम मायाखेडी, ग्राम अरण्डिया, ग्राम निपानिया, ग्राम पिपल्याकुमार, लसूडिया मोरी गाँव का शेष भाग आदि एवं कॉलम क्रमांक 4 में दर्शित वार्ड की चर्तुःसीमा के अन्तर्गत समस्त क्षेत्र ।	मांगलिया	सिल्वर पार्क, बल्याखेडी, ओमेक्स सिटी	बायपास, स्कीम नं. 134 साई कृपा महालक्ष्मी नगर	महालक्ष्मी पिपल्याकुमार, स्कीम नं. 94, लसूडिया तिराहा से निरंजनपुर ए. बी.रोड लसूडिया मोरी तलावली चॉदा
37	साई कृपा	स्कीम नं. 94, वक्रतुण्ड नगर, मुमताज नगर, संजीवनी नगर, आनंदी नगर, सांवरिया नगर पार्ट 1, रामकृष्ण बाग, रामकृष्ण बाग बी, यशोदा नगर, रामकृष्ण बाग 2, पटेल नगर, स्कीम नं. 94 क्लासिक पूर्णिमा, शान्ति कुंज, स्वर्ण आनंदा नगर, तपेश्वरी बाग कालोनी, न्यू	लसूडिया तिराहा, पिपल्याकुमार गाँव, निपानिया गाँव सीमा	स्कीम नं.134 बाबा मनसब नगर से धीरज नगर तक	धीरज कालोनी, विश्वनाथ कालोनी, पटेल नगर, रिंग रोड से कालींदी पार्क	अनुराग नगर, राधाकुंज कालोनी, श्रद्धाश्री कालोनी, अम्बिका कालोनी, श्रीराम नगर, रेडिसन चौराहा, बाम्बे हास्पिटल चौराहा अनुराग नगर,

वार्ड न.	वार्ड का नाम	वार्ड समाहित क्षेत्र	चर्तुः सीमा			
			(1)	(2)	(3)	(4)
			उत्तर	पूर्व	दक्षिण	पश्चिम
		हरसिद्धि नगर, गुरुनानक नगर, न्याय नगर मालवीय पेट्रोल पंप के पीछे, श्री कृष्णविहार कालोनी, स्कीम न. 94 राधिका पैलेस कालोनी, वैभव लक्ष्मी नगर, कृष्ण बाग बी सेक्टर, न्यू चित्रा नगर, साई कृपा कालोनी, स्वर्ण बाग कालोनी, संजोगपुरी, महालक्ष्मी नगर, गणेश नगर वीणा नगर, मानसरोवर नगर, नगर, चिकित्सक नगर मेन एवं बस्ती स्कीम नं. 94 बाम्बे हॉस्पिटल के सामने न्याय नगर एक्स. गणेश पुरी, सुमित नगर, आनंद कालोनी एवं कॉलम क्रमांक 4 में दर्शित वार्ड की चर्तुःसीमा के अन्तर्गत समस्त क्षेत्र ।				स्कीम नं. 94 से बापू गांधी नगर से लसुडिया तिराहे तक
38	हाजी कालोनी	सुहाना पार्क, अर्शफी नगर, गांधी ग्राम, राजीव नगर, पुलिस क्वार्टर, ताज नगर, ताज नगर सेक्टर ए व बी, सदर बाजार, ममता कालोनी, जल्ला कालोनी, हाजी कालोनी, लक्ष्मीबाग, नाहर शाह नगर, मन सब नगर, आनार बाग, बाबा मनसब नगर, शाही बाग, बंगाली कालोनी, सुपर पेलेस, बडला, बडला घाटी, राजीव नगर बडला, विजयनगर, एवं कॉलम क्रमांक 4 में दर्शित वार्ड की चर्तुःसीमा के अन्तर्गत समस्त क्षेत्र ।	साई कृपा कालोनी, निपानिया ग्राम सीमा	कनाडिया ग्राम सीमा से बायपास तक	कनाडिया गाँव की और से रोशन नगर, हरिजन कालोनी, खजराना गणेश मंदिर तक	खजराना गणेश मंदिर मेन रोड से अहिल्या नगर, शिवबाग होते हुए श्रीकृष्णबाग कालोनी से साई कृपा कालोनी तक
39	नाहर शाहवाली	जकारिया कालोनी, सायरा नगर हबीब कालोनी, डाकतार कालोनी, तंजीम नगर, गौहर नगर, दोसिया नगर, रायल पैलेस रजा कालोनी, सिल्वर कालोनी, रियाज उल मदरसा, न्यू शराफत नगर, न्यू मेजेस्टिक नगर, पारसी कंपाउण्ड, खुदा बक्स पेलेस, खजराना पेलेस, खिजराबाद, खिजराबाद बी सेक्टर, इलियास कालोनी,	अशरफी नगर, स्कीम नं. 134, से बायपास,	कनाडिया गांव, से टिगरिया राव गांव तक	बिचौली हप्पी बायपास से संचार नगर, सम्राट नगर, मित्र बंधू नगर, से गोयल विहार,	गणेश पुरी, खजराना गणेश मंदिर, झला कालोनी मोमीन नगर, ताज नगर, नाहरशाह कालोनी अशरफी नगर

वार्ड न.	वार्ड का नाम	वार्ड समाहित क्षेत्र	चर्तुः सीमा			
			(1)	(2)	(3)	(4)
			उत्तर	पूर्व	दक्षिण	पश्चिम
		मेजेस्टिक नगर, अली कालोनी, खान कम्पाउण्ड जैतान बाग, गरीब नवाज कालोनी, शालीमार कालोनी, अमन नगर, अहमद नगर, कादर कालोनी, हारुन कालोनी, अशरफ नगर हिना पैलेस, न्यू हिना पैलेस, दिलीप नगर, संचार नगर दाउदी नगर, मोमिन पुरा, शाहजहाँ कालोनी, ईशाक कालोनी, रोशन नगर, रोशन नगर ए. बी एवं सी सेक्टर, दौलत बाग, शेरशॉह सूरी नगर एवं कॉलम क्रमांक 4 में दर्शित वार्ड की चर्तुःसीमा के अन्तर्गत समस्त क्षेत्र ।				
40	खजराना गणेश	सुंदर बाग, मायापुरी, मायापुरी सेक्टर बी एवं सी, शिवबाग बडी, रामकृष्ण बाग, देवकी नगर, आशा नगर, जुम्मन नगर, साईधाम, शांति नगर, खजराना गांव, गोयल विहार कालोनी, गणेश मंदिर, गणेशपुरी, कालोनी, पटेल मोहल्ला, खजराना मेंन रोड तथा बाई ओर, खजराना मेन रोड, सावरिया नगर पार्ट.बी, बलाई मोहल्ला, रविदास नगर, पंकज नगर, शकर नगर, विश्वनाथ धाम, शिव बाग, धीरज नगर, छोटी शिवबाग, सरस्वती नगर कृष्णबाग सेक्टर-बी, गोया तालाब रोडे, सोहराब कालोनी, बाबा की बाग, शहरयार कालोनी एवं कॉलम क्रमांक 4 में दर्शित वार्ड की चर्तुःसीमा के अन्तर्गत समस्त क्षेत्र ।	पटेल नगर, न्याय नगर, बाबा मनश्व नगर,	बाबा मनसन नगर, हाजी कालोनी, राजीव नगर, झला कालोनी दिलीप नगर, मित्र बंधु नगर तक	गोयल विहार एवेन्यू, गणराज नगर, रिद्धी सिद्धी कालोनी, खजराना चौराहा तक	खजराना चौराहा, अमन नगर, संजोगपुरी अनंती नगर, मुमताज बाग कालोनी, एम आर 9 से पटेल नगर तक
41	कैलाशपुरी	देवपुरी, सुरज नगर, मंगलमूर्ति नगर, सोनिया पैलेस कालोनी, चेतन नगर ए. बी, कैलाशपुरी कालोनी, मित्रबंधू नगर, पलाश पैलेस, आलोकनगर, आशीष नगर, संचार नगर, गोयल नगर एक्स., माधव नगर, भावना	सहस्त्र अर्जुन चौराहा, गणेशपुरी, गोयल विहार, अमन कालोनी से अहमद नगर कनाडिया	अहमद नगर, कनाडिया रोड से वैभव नगर ब्रजेश्वरी एन. एक्स तक	गणेश धाम	रिंग रोड, वंदना नगर, शक्ती नगर, जीनियस पार्क एरिया, पालीवाल धर्मशाला, गणेश धाम मंदिर बंगाली चौराहा

वार्ड न.	वार्ड का नाम	वार्ड समाहित क्षेत्र	चर्तुः सीमा			
			उत्तर	पूर्व	दक्षिण	पश्चिम
(1)	(2)	(3)	(4)			
		कम्पाउण्ड, गणराज नगर, गणनायक नगर, उत्कर्ष स्टेट, शेखर नगर एनक्लेव, आशानगर, सोमनगर, प्रीतिनगर, श्रीराम नगर कनाडिया रोड, स्कीम नं. 94 बी एस एन एल क्वा. व मयूर अस्पताल सर्विस रोड, डायमंड कालोनी, डायमंड पैलेस, वैभव नगर, मैन एक्स. , महादैव तोतला नगर, कंधारी नगर, बंगाली कालोनी, सुशात कालोनी, रिद्धि सिद्धि नगर, सुमित नगर, गोयल विहार एवेन्यु, लक्ष्य विहार, शेखर एन्क्लेव, शुभ लाभ एवेन्यु एवं कॉलम क्रमांक 4 में दर्शित वार्ड की चर्तुःसीमा के अन्तर्गत समस्त क्षेत्र ।	रोड तक			से होते हुए खजराना चौराहा तक
42	स्वामी विवेकानंद	मनभावन नगर, हर्ष नगर, मुकाती नगर, ज्ञान पार्क, टेलीफोन नगर, सांझी छत बिल्डिंग, शुभलाभ बिल्डिंग, सिल्वर एवेन्यु, सिल्वर विंग, रविन्द्र नगर, विनोबा नगर (मं. न. 465 से 626 एवं मेन रोड मं. न. 1 से 90 तक को छोड़कर) साकेत नगर, स्वामी विवेकानंद नगर, चन्द्रलोक कालोनी, पालीवाल नगर, कल्पना लोक कालोनी, मनीषपुरी, मनीष एक्सटेंशन, शितल नगर, स्कीम नं. 94 क्लासीक पालीवाल, मुलतानी कालोनी, मेनन कालोनी, उत्कर्ष विहार, क्लासिक पुर्णिमा स्टेट, संजीवनी नगर, रिजेंसी प्रियदर्शनी, कनाडिया मेन रोड एवं कॉलम क्रमांक 4 में दर्शित वार्ड की चर्तुःसीमा के अन्तर्गत समस्त क्षेत्र ।	बडवानी प्लाजा, साकेत झोन, रेफिल टॉवर होते हुए बैकुण्ठ धाम से खजराना मेन रोड होते हुए अनुराग नगर, सजोग पुरी रिंग रोड तक	आनंदी नगर रिंग रोड से खजराना चौराहा रिंग रोड होते हुए बंगाली चौराहे तक	बंगाली चौराहा से गोयल नगर, महावीर नगर, संविद नगर, तिलक नगर मेन रोड बडी ग्वालटोली पुलिया तक	बडी ग्वालटोली से बडवानी प्लाजा तक
43	श्री नगर	न्यू पलासिया, अनूप नगर, शकुन विला अपार्टमेंट, महक अपार्टमेंट, चांदनी अपार्टमेंट, न्यू पलासिया कम्युनिटी हॉल, लक्ष्मी मेमारियल हास्पिटल लोखण्डे पुल, सर्वोदय नर्सिंग	पांचु की चाल, नाला, ए.बी. रोड, ओल्ड पलासिया,	कालिंदी पार्क नाले से खजराना मेन रोड कल्पना लोक,	साकेत नगर चौराहे से रविन्द्र नगर होते हुए बडवानी प्लाजा	जंजीर चौराहा से पंचकी फेल होते हुए पांचु की चाल

वार्ड न.	वार्ड का नाम	वार्ड समाहित क्षेत्र	चर्तुः सीमा			
			(1)	(2)	(3)	(4)
			उत्तर	पूर्व	दक्षिण	पश्चिम
		होम, सन साईट अपार्ट, गौरव अपार्टमेंट, कंचन अपार्ट, अनूप नगर ओल्ड, खजरानी कांकड, कीर्ति पैलेस, श्रीनगर मेन व एक्स., बैंकुंठधाम, बीमा नगर, स्टेट बैंक कालोनी, श्रीनगर कांकड, कालिंदी पार्क, रवि नगर, पी.सी. कालोनी, ओल्ड पलासिया रानडे कंपा. रानडे कं. एक्स, मनोरमागंज पुल से ओल्ड पलासिया, जाय बिल्डर्स कालोनी, यमाहा शौरुम, ए.बी. रोड, सांधी कालोनी, गुरुकृपा रेस्टारेंट खजराना रोड, सांधी कालोनी एवं कॉलम क्रमांक 4 में दर्शित वार्ड की चर्तुःसीमा के अन्तर्गत समस्त क्षेत्र ।	एल आई जी स्केयर, गुरुद्वारा पुल से कालिंदी पार्क तक	चन्द्रलोक, होते हुए साकेत नगर चौराहे तक	ग्रेटर केलाश हास्पिटल ए.बी. रोड, हरिजन कालोनी, से जंजीर वाला चौराहे तक	
44	एच आई जी	कन्नू पटेल की चाल, सोमनाथ की नई चाल, छोटी खजरानी, नया बसेरा ,मालवा परिसर ए बी रोड , शहनाइ रेसीडेंसी ब्लाक बी व डी, साई संपदा अपार्टमेंट, सतकार रेसीडेंसी, अक्षयदीप कालोनी ,शालीमार मालवा परिसर ,प्रकाशचन्द्र सेठी नगर ,न्यू नादिया नगर व नादिया नगर , अंसार कालोनी , महाबलेश्वर मंदिर सेक्टर आई , एल आई जी सेक्टर आई-एल , एम.आई. जी. जी सेक्टर, एल.आई. जी. जी. थाना एच व जी सेक्टर, कालोनी, शापिंग काम्पलेक्स गृह निर्माण आफिस के नीचे से शापिंग काम्पलेक्स के पीछे की दुकानों तक, पाटनी पुरा चौराहा से सुलभ काम्पलेक्स तक, हरि कालोनी, जगजीवनराम नगर सम्पूर्ण, एवं कॉलम क्रमांक 4 में दर्शित वार्ड की चर्तुःसीमा के अन्तर्गत समस्त क्षेत्र ।	आदर्श मेकेनिक नगर, पाकिजा ए. बी.रोड,	ए.बी.रोड. सी-21 माल से गुरुद्वारा पुलिया तक	गुरुद्वारा पुलिया नाले से होते हुए एम.आई.जी. सेक्टर एफ. एल.आई.जी मेन रोड क्रिश्चन एमिनेन्ट स्कूल से पाटनी पुरा चौराहा तक	पाटनीपुरा चौराहा, शिवशक्ति नगर, संजय गांधी नगर, झोपड पट्टी एरिया आदर्श मेकेनिक नगर तक

वार्ड न.	वार्ड का नाम	वार्ड समाहित क्षेत्र	चर्तुः सीमा			
			(1)	(2)	(3)	(4)
			उत्तर	पूर्व	दक्षिण	पश्चिम
45	डा. भीमराव अंबेडकर	अम्बेडकर नगर, एम.आई.जी एल.आई.जी कालोनी, सेक्टर -एल, गुरुद्वारे के पीछे, संजय गाँधी उपवन, आर.के. पुरम, गिरनार अपार्टमेंट, देव नगर, हरिजन कालोनी, रूपेश यादव, लाला का बगीचा, मोर की चाल, पांचू कुमार की चाल, नीलगिरी अपार्टमेंट, एवं कॉलम क्रमांक 4 में दर्शित वार्ड की चर्तुःसीमा के अन्तर्गत समस्त क्षेत्र ।	एल.आई.जी. मेन रोड से न्यू होरीजन स्कूल से नाला होते हुए गुरुद्वारा पुलिया ए.बी. रोड तक	गुरुद्वारा पुलिया ए.बी.रोड से एल.आई.जी. चौराहा होते हुए सागर अपार्टमेन्ट तक	सागर अपार्टमेंट, न्यू पलासिया, लक्ष्मी मेमोरियल हास्पिटल, सोमनाथ की चाल तक	गोटू की चाल, शिव व्यायाम शाला, नेहरू नगर, से एम. आई.जी. थाने तक
46	सोमनाथ	पंचम की फेल, रूस्तम का बगीचा, गोटू की चाल, अमरटेकरी, विकास नगर, सोमनाथ की चाल, काजी की चाल तक एवं कॉलम क्रमांक 4 में दर्शित वार्ड की चर्तुःसीमा के अन्तर्गत समस्त क्षेत्र ।	नेहरू नगर, रूपेश यादव नगर, लाला का बगीचा अम्बेडकर नगर तक	लक्ष्मी मेमोरियल हास्पिटल न्यू पलासिया, जंजीरवाला चौराहा तक	जंजीर वाला चौराहा रोशनसिंह भण्डारी मार्ग, गोमा की फेल होते हुए मालवा मिल चौराहे तक	मालवा मील स्केयर तक नाले तक
47	सरदार वल्लभभाई	यशवंत निवास रोड, बिल्डर्स कालोनी, अहिल्या माता कालोनी, जी एस आई टी एस, डायमंड कालोनी, पार्क रोड, अग्रविहार कालोनी रोड, धेनू मार्केट, वल्लभ नगर, दुबे का बगीचा, न्यू देवास रोड, मालवीय मील चौराहा, रेसकोर्स रोड, रोशनसिंह भंडारी मार्ग, गोमा की फेल, पंचम की फेल (मकान नं. 221 से 577 तक) हरिजन कॉलोनी, जंजीर वाला चौराहा, 56 दुकान अभिलाषा अपार्टमेंट चैन सिंह का बगीचा, बी बिल्डर्स कालोनी, नेहरूपार्क, शिखर पार्क बिल्डींग, तुलसी टॉवर डी. एम. टॉवर एवं कॉलम क्रमांक 4 में दर्शित वार्ड की चर्तुःसीमा के अन्तर्गत समस्त क्षेत्र ।	हुकमचंद मील, शिवाजी नगर, मालवामील स्केयर, से रूसतम का बगीचा	गोटू की चाल, पंचम की फेल, भण्डारी मार्ग, जंजीर वाला स्केयर से न्यू पलासिया तक	पलासिया स्केयर, ए.बी. रोड, साउथ तुकोगंज एम. जी.रोड. हाई कोर्ट. रीगल स्केयर अण्डर शास्त्री ब्रिज	गांधी हाल, न्यू सियागंज, नयापुरा, सेंट्रल जेल, स्नेहलतागंज तक हुकमचंद मील तक
48	गीता भवन		ए.बी.रोड गीता नगर चौराहे से श्रीनगर,	सांकेत नगर झोन, रवीन्द्र नगर, तिलक नगर मेन, बख्तावर	एग्रीक्लचर स्टाप नगर, बी. एस.एन.एल. आफिस शिवाजी वाटिका ए.बी.	विश्वविद्यालय, रतलाम कोठी. गीता भवन स्केयर, हरिजन कालोनी, ए.बी.

वार्ड न.	वार्ड का नाम	वार्ड समाहित क्षेत्र	चर्तु: सीमा			
			(1)	(2)	(3)	(4)
			उत्तर	पूर्व	दक्षिण	पश्चिम
			ओल्ड पलासिया,	रामनगर, से परिचारिका नगर नाले तक	रोड, तक	रोड गीटार चौराहे तक
49	तिलकनगर	राजश्री वाटिका ,पायल वाटिका ,तिलक नगर मेन व एक्सटेंशन , गोयल नगर, शक्ति नगर, वंदनानगर सम्पूर्ण , श्रीनाथ कालोनी ,संविद नगर सम्पूर्ण, श्रीनाथ कालोनी, साईनाथ कालोनी सेक्टर बी व सी ,बख्तावर रामनगर बी. सी. सेक्टर, वंदना नगर मेन, साई विहार कालोनी ,वसुनंधरा अपार्टमेंट, कृषिविहार कालोनी , वंदना नगर बी व सी सेक्टर, विनोबा नगर मं. 465 से 626 विनोबा नगर मेन रोड मं. न. 1 से 90 तक, तिलक नगर मेन, सुनील नगर ,स्वर्णवाटिका, स्वर्णहार ,गोयल नगर, तिलक नगर मुक्तिधाम वाली रोड एवं कॉलम क्रमांक 4 में दर्शित वार्ड की चर्तु:सीमा के अन्तर्गत समस्त क्षेत्र ।	विनोबा नगर नाले से तिलक नगर मेन रोड पत्रकार कालोनी, कनाडिया, गुलमोहर नगर, बंगाली स्केयर, रिंगरोड	बंगाली नगर स्केयर से महादेव तोतला नगर, गणेश धाम तक रिंग रोड	पिपल्याहाना गांव रिंग रोड, गिरधर नगर, परिचारिका नगर नाले तक	परिचारिका नगर नाले से होते हुए गीता नगर, तिरुपति , कालोनी, सेवासदन नगर, तिलक नगर मेन से विनोभा नगर तक
50	ब्रजेश्वरी	निर्मल नगर, वृन्दावन गार्डन कालोनी पिपल्याहाना तालाब पाल, चौहान नगर, ग्रेटर ब्रजेश्वरी, उत्कर्ष स्टेट, गणेश धाम ,ब्रजेश्वरी मेन व एक्सटेंशन, श्री मंगल स्टेट शुभ लाभ वेली, बाम्बे योजना स्कीम नं. 140, पिपल्याहाना सम्पूर्ण, रेवन्यू नगर ,बिजली नगर, आशीष नगर ,श्रीकांत पैलेस, शिव मंगल नगर ,शिव शक्ति नगर, सर्वसुविधा नगर ,लक्ष्मीविहार कालोनी, शेखर इन्क्लेव ,संचार नगर, मोर्या हिल्स गार्डन ,मोर्या हिल्स से लगा हुआ अलोक नगर, वैभवनगर बी व सी सेक्टर एक्सटेंशन, न्यू आशीष नगर तपन इन्क्लेव, दौलत विहार, आशीष विहार ,रमाबाई नगर ,सुखशांति नगर ,महावीर धाम, गिरधर	रिंग रोड गोयल नगर एक्सटेशन से, पाटीदार कालोनी होते हुए कनाडिया रोड संचार नगर तक ।	कनाडिया रोड, बायपास, बिचौली हप्सी, बिचौली मर्दाना, तक	अग्रवाल कालोनी से होते हुए आशीष रिजेन्सी रिंग रोड पिपल्या हाना चौराहा से ओल्ड सिहोर रोड से ऐग्रीकल्चर स्टॉफ कालोनी तक	ऐग्रीकल्चर स्टॉफ कालोनी से गीता नगर होते हुए स्वर्णवाटिका से रिंग रोड तक ।

वार्ड न.	वार्ड का नाम	वार्ड समाहित क्षेत्र	चर्तुः सीमा			
			उत्तर	पूर्व	दक्षिण	पश्चिम
(1)	(2)	(3)	(4)			
		नगर ,परिचारिका नगर ,नंदगाव, शालीमार पाल्म्स, ज्ञानेश्वर पार्क ,निधिवन कालोनी, पलास पेलेस,पारसधाम इन्क्लेव ,शर्मा एनक्लेव, विमल श्री ब्रजेश्वरी, राज कालोनी एवं कॉलम क्रमांक 4 में दर्शित वार्ड की चर्तुःसीमा के अन्तर्गत समस्त क्षेत्र ।				
51	भगवती नगर	शिवनगर, आलोक नगर, चोधरी पार्क, राम नगर, विराट नगर, उद्योग नगर, शिवदर्शन नगर, शाहिन नगर, धनलक्ष्मी उद्योग नगर झुग्गी सम्पूर्ण, कृष्णपुरी कालोनी, अभिलाषा नगर, इन्दिरा एकता नगर, कमल नगर, मॉ भगवती नगर, अभिषेक नगर, कृष्ण नगर, नेमावर रोड, बाबूलाल नगर, चन्द्रपुरी एवं कॉलम क्रमांक 4 में दर्शित वार्ड की चर्तुःसीमा के अन्तर्गत समस्त क्षेत्र ।	रॉयल रिजेंसी, शालीमार पॉम, संजना पार्क,	बिचौली मर्दाना गांव, बिचौली बायपास, देवगुराडिया गांव,	उद्योग नगर, पालदा गांव, नेमावर रोड से श्रीराम नगर	नेमावर रोड, पवनपुरी से होते हुए खाती मोहल्ला, इंदिरा नगर, मूसाखेडी पुलिया, शाहील नगर, मयूर नगर, से इंदरिश नगर रायल रेजेन्सी तक
52	मूसाखेडी	मूसाखेडी सम्पूर्ण, अलकापुरी सम्पूर्ण, यादव नगर, प्रेमनगर कांकड रिगरोड पानी टंकी के पास मूसाखेडी खाती मोहल्ला, अजय बाग कालोनी, फिरदौस नगर, नार्थ मूसाखेडी, चन्द्रपुरी कालोनी, चिराड मोहल्ला, खारवाल मोहल्ला, रवि नगर, गुलाब बाग, श्रीराम नगर, सीताराम पार्क, शाहिन नगर, चन्द्रपुरी कालोनी, जगदीशपुरी एवं कॉलम क्रमांक 4 में दर्शित वार्ड की चर्तुःसीमा के अन्तर्गत समस्त क्षेत्र ।	एम.पी.ई.बी. ग्रीड, पी.एच. ई. एरिया, तुलसी नगर, भील पल्टन, मूसाखेडी रिंग रोड चौराहा से होते हुए मयूर नगर	राम नगर से भगवती नगर तक	नेमावर रोड, उद्योग नगर, रिंग रोड, पवनपुरी कालोनी, भगवती नगर नाले से रिंग रोड पुलिया होते हुए पवनपुरी नगर तक	कोहीनूर कालोनी, मुक्तीधाम, नेतराम का बगीचा से एम.पी. ई.बी. ग्रीड तक
53	डा. मौलाना आजाद नगर	आजाद नगर ,आजाद नगर गोल चौराहा, आजाद नगर गोल चौराहा लोक निर्माण विभाग बिल्डींग ,पुराना आजाद नगर, इंदिरा चौक, आजाद नगर नई बस्ती, आजाद नगर मुसाखेडी मार्ग श्मशान घाट तक, हुसैनी	अहिल्यापुरी, रेडियो कालोनी, सेंद्रल जेल,	एम.पी.ई.बी ग्रीड, जगदीशपुरी नार्थ, फिरदोस नगर, से रवि नगर रिंग रोड तक	पवनपुरी, तीन इमली चौराहा रिंग रोड तक	तीन इमली चौराहा से रिंग रोड नाले होते हुए साजन नगर संवाद नगर प्रकाश क्लब पुलिया से आजाद नगर

वार्ड न.	वार्ड का नाम	वार्ड समाहित क्षेत्र	चर्तुः सीमा			
			उत्तर	पूर्व	दक्षिण	पश्चिम
(1)	(2)	(3)	(4)			
		चौक, गणेश चौक, गवली मोहल्ला, वाटर पम्प वाली लाईन, काली पुलिया आजाद नगर, गोप कालोनी, आजाद नगर हुसैनी मस्जिद रोड, नूरी नगर, मदीना नगर, सुमती नगर, कोहीनूर नगर, मीना पैलेश, अमन नगर, शबनम नगर, गुलशन नगर, नफीश नगर, गीता नगर गृह निर्माण संस्थान शमशान घाट मुख्य मार्ग एवं कॉलम क्रमांक 4 में दर्शित वार्ड की चर्तुःसीमा के अन्तर्गत समस्त क्षेत्र ।				चौराहा तक ।
54	रेसीडेंसी	न्यू एकता नगर रिंग रोड, शांती नगर, अमन नगर, पिक सिटी, भील कालोनी, भील पल्टन कालोनी, मुसाखेडी टेम्पो स्टेण्ड, इदरिस नगर, रेसीडेंसी आयकर आफिस कस्टम एक्साईज क्वार्टर जेल परिसर, डेली कालेज, कृषि नगर, पी.टी.एस परिसर क्वार्टर शासकीय 80 क्वार्टर, ए बी रोड चिडिया घर, दूर संचार परिसर, हरिओम प्रभानगर, सूर्य सुखधाम, अक्षर धाम, नुपुर नगर, तुलसी नगर, सम्पूर्ण रेसीडेंसी, मयूर नगर, नर्मदा प्रोजेक्ट कालोनी, मुसाखेडी टेम्पो स्टेण्ड, ए.बी. रोड बैंक ऑफ इण्डिया से शिवाजी वाटिका तक, सम्पूर्ण साटम पार्क कालोनी, पुलिस पेट्रोल पम्प, नेतराम का बगीचा, एवं कॉलम क्रमांक 4 में दर्शित वार्ड की चर्तुःसीमा के अन्तर्गत समस्त क्षेत्र ।	शिवाजी वाटिका ए.बी. रोड से एग्रीक्लचर स्टाप नगर, ओल्ड सिहोर रोड, रिंग रोड होते हुए ब्रजेश्वरी एक्सप्रेसवे से रायल रिजेन्सी तक	रॉयल रिजेन्सी से अग्रवाल कॉलोनी होते हुए पवनपुत्र सोसायटी	शाहीन नगर, विराट नगर, राम नगर, मुसाखेडी रिंग रोड से अल्कापुरी, यादव नगर, मुक्तीधाम से होते हुए आजाद नगर चौराहा चिडिया घर ए.बी.रोड से इन्द्रा सर्कल तक	आजाद नगर, इंदिरा गांधी चौराहा, पारसी मोहल्ला, जावरा कम्पाउण्ड, शिवाजी वाटिका चौराहा तक
55	साउथ तुकोगंज	साउथ तुकोगंज, जावरा कम्पाउण्ड, मथुरा वाला स्वीट्स, झाबुआ टावर, देवी अहिल्या वि.वि. परिसर, धार कोठी, गीता भवन चौराहा एम. व्हाय. हॉस्पिटल परिसर, आर.एन.टी. मार्ग, सहगल	शास्त्री अंडर ब्रीज रेल्वे लाईन से एम.जी.रोड रीगल चौराहा होते हुए पलासिया	ए बी रोड पलासिया चौराहे से गीता भवन चौराहा होते हुए सुयश हास्पिटल तिराहे से गीता	डेली कालेज से मेडिकल होस्टल होते हुए शिवाजी वाटिका से जी पी ओ चौराहे से छावनी	सरवटे बस स्टेण्ड रेल्वे अण्डर ब्रिज से रेल्वे लाईन होते हुए पटेल ब्रिज से शास्त्री ब्रिज तक

वार्ड न.	वार्ड का नाम	वार्ड समाहित क्षेत्र	चर्तुः सीमा			
			उत्तर	पूर्व	दक्षिण	पश्चिम
(1)	(2)	(3)	(4)			
		कालोनी, आई.जी बंगला, ए. बी.रोड व्हाईट चर्च होम गार्ड आफिस, छोटी ग्वाल टोली, बान्द्रा कम्पाउण्ड, रेल्वे स्टेशन पुलिस थाने से रिजर्वेशन आफिस तक, रेल्वे छात्रावास एवं क्वार्टर व पटेलब्रिज, मुराई मोहल्ला, नसिया रोड, ट्रेजर आईलेण्ड, नोबल हॉस्पिटल, छावनी, किवे कम्पाउण्ड, कल्याण विश्रांति गृह, रानी सराय ग्रीन पार्क, नेहरू प्रतिमा, एवं कॉलम क्रमांक 4 में दर्शित वार्ड की चर्तुःसीमा के अन्तर्गत समस्त क्षेत्र ।	चौराहे तक	नगर, परिवारिका नगर से डेली कालेज तक	नसिया रोड तिराहे से छोटी ग्वाल टोली सरवटे बस स्टेण्ड रेल्वे ब्रिज तक	
56	स्नेहलतागंज	जीवन की फेल , फिरोज गांधी नगर, बंशी प्रेस की चाल चिकमंगलूर चौराहा से साई भवन मंदिर, शिवाजी नगर, नयापुरा, स्नेहलतागंज, उषा फाटक, काछी मोहल्ला, एवं कॉलम क्रमांक 4 में दर्शित वार्ड की चर्तुःसीमा के अन्तर्गत समस्त क्षेत्र ।	कुलकर्णी भट्टा तिराहे से शिवाजी नगर चौराहे से मालवा मुक्तीधाम पुल से नाले होते हुए मालवा मील पुलिया तक	मालवा मील चौराहे से शिवाजी नगर तिराहा से स्कीम 91 से राजकुमार तालाब होते हुए रेल्वे पटरी तक राजकुमार ब्रीज से न्यू सियागंज तक	न्यू सियागंज से उर्दू स्कूल होते हुए सिख मोहल्ला तिराहा से मेवाती मोहल्ला होते हुए जेल रोड तक	जेल रोड गंजी कम्पाउण्ड चिमनबाग चौराहा से अहिल्या श्रम ब्रिज से नाले होने अंडर ब्रिज रेल्वे ट्रेक से भंडारी ब्रिज से कुलकर्णी भट्टा तिराहा
57	देवी अहिल्याबाई	नगर निगम रोड, नगर निगम क्वॉटर, सुतार गली, गंजी कम्पाउण्ड, जेल रोड सम्पूर्ण, (एम जी रोड, राजबाडा से गांधी हॉल तक,) देवी अहिल्या मार्ग, सबनीश मार्ग, शांतीपथ, डी.आर.पी.लाईन, नारायण बाग, पंतवेद्य कालोनी, गणेश कालोनी, रामबाग, जती कालोनी, तिलक पथ मेन रोड, वर्धमान टावर, नेताजी सुभाष मार्ग, चिकमंगलूर चौराहे से इमली बाजार चौराहे तक, भोई मोहल्ला, पीरगली, , निराला हनुमान मंदिर, विद्युत मण्डल कालोनी, रेल्वे कालोनी , जुना तुकोगंज, हेमील्टन रोड, पोलो ग्राउण्ड विद्युत मण्डल कालोनी, अहिल्याश्रम,	छोटी कुम्हार खाडी नाले होते हुए रेल्वे ट्रेक लक्ष्मीबाई नगर तक	लक्ष्मीबाई रेल्वे स्टेशन एम.पी इ बी अंडर ब्रीज नाले तक अहिल्या श्रम ब्रिज जेल रोड से अग्निबाण प्रेस, चिमनबाग चौराहा से जेलरोड मेवाती मोहल्ला, सिख मोहल्ला तिराहे से जुना मील दिवार से उर्दू स्कुल न्यू सियागंज वी आय पी रोड से शास्त्री अंडर ब्रिज फायर ब्रिगेड क्वार्टर तक	शास्त्री अंडरब्रीज एम जी रोड कोठारी मार्केट चौराहा होते हुए राजबाडा तक	सदर बाजार चौराहे से नार्थ कमाठीपुरा, एस. ए.एफ. होते हुए पोलग्राउण्ड चौराहा से ई.एस. आई. हॉस्पिटल मरीमाता चौराहा से मुक्तिधाम नाला होते हुए बादल का भट्टा से छोटी कुमार खाडी तक

वार्ड न.	वार्ड का नाम	वार्ड समाहित क्षेत्र	चर्तुः सीमा			
			उत्तर	पूर्व	दक्षिण	पश्चिम
(1)	(2)	(3)	(4)			
		सिख मोहल्ला, रेल्वे कालोनी, होटल कोहीनूर, सिख मोहल्ला, न्यू सियागंज, मेवाती मोहल्ला अल्का टाकीज, ईमली बाजार (वार्ड चर्तुसीमा में शामिल क्षेत्र) एम.जी.रोड. फडनीस काम्पलेक्स, गांधी हाल, एवं कॉलम क्रमांक 4 में दर्शित वार्ड की चर्तुःसीमा के अन्तर्गत समस्त क्षेत्र ।				
58	नेताजी सुभाषचंद बोस	एस.ए.एफ. पुलिस लाईन, गफूर खां की बजरिया, बडवाली चौकी, शिव विलास पैलेस, सुभाष मार्ग मेन रोड, साउथ कमाठीपुरा, नार्थ कमाठीपुरा, बक्शीबाग, बक्शीबाग एक्सटेशन, सिचाई कालोनी, बाफना कोठी, जूनापीठा, सुभाष चौक कुंवर मण्डली, खजूरी बाजार यशोदा माता मंदिर, जूनी कसेरा बाखल, दिलीपसिंह कालोनी, शंकरबाग, गरीब नवाज वाली ईदगाह सदर बाजार के पास नाले किनारे, भिश्ती मोहल्ला, मराठी मोहल्ला, अहिल्या पल्टन, नार्थ बजरिया, हकीम जी का बगीचा, सदर बाजार पूर्व, सदर बाजार, सदर बाजार मेन रोड, सदर बाजार मेन रोड पश्चिम तरफ, इकबाल कालोनी, एवं कॉलम क्रमांक 4 में दर्शित वार्ड की चर्तुःसीमा के अन्तर्गत समस्त क्षेत्र ।	ब्रम्हबाग पुलिया से मरीमाता होते हुए पोलोग्राउण्ड चौराहे तक	पोलोग्राउण्ड चौराहे से नारायण बाग तिराहे से तिलकपथ रोड से नार्थ कमाठी पुरा तिराहा, मार्तण्ड चौक, इमली बाजार से राजवाडा	राजवाडा इमामबाडा होते हुए सराफा नागोरी दुकान से खजूरी बाजार रोड होते हुए गोराकुंड जूना पीठा रोड तक	खजूरी बाजार रोड से जुना पीठा होते हुए बडवाली चौकी जुना रिसाला दुधाधारी का बगीचा, साउथ गाडरा खेडी, ब्रम्हबाग पुलिया नाले से मरीमाता तक
59	हरसिद्धी	प्रिस यशवंत रोड, कानूनगो बाखल, रेशम वाला लेन व कम्पाउण्ड, पंढरीनाथ पंथ, आडा बाजार, लक्ष्मी गली, साल्वी बाखल व ताजी कुंवर, नंदलालपुरा, जवाहर मार्ग शनि मंदिर के पीछे, नंदलाल मेन रोड, सब्जी मण्डी, वीर सांवरकर मार्केट, एम.जी.रोड व राजवाडा चौक, रामलक्ष्मण बाजार, निहालपुरा, गौतमपुरा, राजेश	खजूरी बाजार से एम.जी.रोड होते हुए जेल रोड चौराहे तक	एम.जी.रोड जेल रोड चौराहे से खातीपुरा से संजय सेतु से जवाहर मार्ग ब्रिज से नंदलालपुरा सब्जी मंडी चौराहा से नंदलालपुरा मेन रोड से चन्द्रभागा पुल	कलेक्टर गंजी कम्पाउण्ड से जी.डी.सी. तिराहा तक	जी.डी.सी.तिराहे से जयराम पुर पुलिया से नाले होते हुए छत्रीबाग पुलिया से मच्छी बाजार पुलिया से चौराहा से मोहनपुरा जवाहर मार्ग पिपली बाजार से राजवाडा

वार्ड न.	वार्ड का नाम	वार्ड समाहित क्षेत्र	चर्तुः सीमा			
			उत्तर	पूर्व	दक्षिण	पश्चिम
(1)	(2)	(3)	(4)			
		नगर, हरसिद्धी मंदिर के पास, नार्थ हर सिद्धी बगीचे के पास पानी की टंकी पुलिस चौकी के पास, मोती तबेला, कोयला बाखल, सुनार की बगीचा, हरिजन छात्रावास, बाराखोली, मिल्लत नगर, शेखर नगर एंव नई बस्ती, कलेक्टर कार्यालय मेन रोड एवं कॉलम क्रमांक 4 में दर्शित वार्ड की चर्तुःसीमा के अन्तर्गत समस्त क्षेत्र ।		तक आलापुरा बाल निकेतन होते हुए जैन स्वीट्स मोती तबेला तक		
60	रानीपुरा	जवाहर मार्ग मेन रोड, कोष्ठी समाज की धर्मशाला से सियागंज पुलिस चौकी, सियागंज, वैयर हाउस रोड, महेश जोशी नगर, रानीपुरा मेन रोड, मेहतानी मार्केट, जगजीवनराम नई बागड, सियागंज मेन रोड रेल्वे प्लेट फार्म नं.5, महारानी रोड, छोगालाल उस्ताद मार्ग एवं संत रविदास मार्ग, खातीपुरा मेन रोड, नार्थ तोडा सम्पूर्ण, साउथ तोडा सम्पूर्ण, दौलतगंज सम्पूर्ण, चम्पाबाग सम्पूर्ण, कबुतरखाना, एवं कॉलम क्रमांक 4 में दर्शित वार्ड की चर्तुःसीमा के अन्तर्गत समस्त क्षेत्र ।	एम.जी.रोड जेल रोड चौराहा से शास्त्री ब्रिज रेल्वे लाईन तक	शास्त्री अंडर ब्रिज रेल्वे ट्रेक से पटेल ब्रिज रेल्वे ट्रेक से जूनी इन्दौर मुक्ती धाम हाथीपाला अंडर ब्रिज तक	हाथीपाला मेन रोड मुक्तीधाम से बडा रावला होते हुए, महल कचेरी चन्द्रभागा से हरसिद्धी झोन तक	चन्द्रभागा पुल से नंदलाल पुरा मेन रोड से जवाहर मार्ग होते हुए प्रेमसुख ब्रिज से संजय सेतू से खातीपुरा चौराहा से एम.जी.रोड जेलरोड चौराहा तक
61	तात्या सरवटे	जबरन कालोनी सम्पूर्ण, पागनीस पागा, जूनी इन्दौर थाना पुलिस क्वार्टर, आलापुरा, बारगल कालोनी, गोधा कालोनी, तात्या सरवटे, भाट मोहल्ला, भीमगीरी गली, चन्द्रभाग मेन रोड पश्चिम साईड कमला रोड, मरीमाता का बगीचा, कल्लूखां का बगीचा, प्रकाश का बगीचा, राधागोविंद का बगीचा, बलाई मोहल्ला, कटकटपुरा सम्पूर्ण एंव मेन रोड, मोमीनपुरा, एवं कॉलम क्रमांक 4 में दर्शित वार्ड की चर्तुःसीमा के अन्तर्गत समस्त क्षेत्र ।	मोती तबेला से चन्द्रभागा, रावजीबाजार गाडी अड्डा, रेल्वे क्रासिंग तक	गाडी अड्डा रेल्वे फाटक से जूनी इन्दौर ब्रिज तक	जूनी इन्दौर ब्रिज से माणिक बाग चौराहे से मोतीतबेला जैन मिठाई तिराहे तक	मोती तबेला

वार्ड न.	वार्ड का नाम	वार्ड समाहित क्षेत्र	चर्तुः सीमा			
			उत्तर	पूर्व	दक्षिण	पश्चिम
62	रावजी बाजार	रावजी बाजार, जगजीवनराम मोहल्ला, कुमावतपुरा, गाडी अडडा, ब्रम्हचारी बगीचा, हरिजन मोहल्ला, झोपड पट्टी एवं रेल्वे पट्टी के पास, मुराई मोहल्ला, हाथीपाल मेन रोड, माली पुरा, व्यास फला सम्पूर्ण, शनिगली मेन रोड, चन्द्रभागा मेन रोड, चन्द्रभागा, महल कचहरी, गणेश मार्ग, हार्डिया कम्पाउण्ड, श्रद्धानंद मार्ग मेन रोड, कलाली मोहल्ला, लुनियापुरा, लोहामण्डी मुख्य मार्ग, अनाज मण्डी, पंचशील नगर, सर्वोदय नगर, नरसिंह टेकरी जगजीवन राम मोहल्ला, एवं कॉलम क्रमांक 4 में दर्शित वार्ड की चर्तुःसीमा के अन्तर्गत समस्त क्षेत्र ।	चन्द्रभाग ब्रिज से बडा रावले होते हुए जूनी इन्दौर मुक्तीधाम रेल्वे अंडर ब्रिज से नसीया रोड श्रद्धानंद मार्ग से छावनी चौराहा	छावनी चौराहा से जगन्नाथ पुलिया से कलाली मोहल्ला पुलिया स्नेह नगर, इल्वा स्कूल से पटेल नगर तक	सिन्धी कालोनी, साधू वासवानी नगर, न्यू लोहामण्डी रेल्वे लाईन, कटकटपुरा, रावजी बाजार पुलिस थाना से बलाई मोहल्ला	चन्द्रभागा बिज
63	नवलखा	जानकी नगर, स्नेह नगर, न्यू पटेल नगर, छावनी से अग्रसेन मुख्य मार्ग के पास शंकरबाग ब्रीज, अग्रवाल नगर, ए.बी.रोड इन्द्रा प्रतिमा के पास बंगाली क्लब से छावनी जगन्नाथ ब्रिज के पास, अग्रसेन चौराहा मुख्य मार्ग, पारसी मोहल्ला, बजाज शोरूम सपना संगीता, नवलखा बस स्टेण्ड से विशाल टावर तक, गुल मोहर काम्पलेक्स, विकास टावर, रामकृष्ण टावर, हर्षदीप टॉवर, विसर्जन आश्रम, बंगाली क्लब, इन्दिरा प्रतिमा ए.बी. रोड, जगन्नाथ ब्रिज, शुक्ल कम्पउण्ड यादव कम्पाउण्ड, प्रकाश हाकी क्लब क्षेत्र, सिरेमल बाफना होस्टल ए बी रोड, प्रेस्टिज टावर, श्यामाचरण शुक्ल नगर, एवं कॉलम क्रमांक 4 में दर्शित वार्ड की चर्तुःसीमा के अन्तर्गत समस्त क्षेत्र ।	कलाली मोहल्ला नाले से छावनी जगन्नाथ स्कूल पुलिया, छावनी चौराहे से जी पी ओ तक	जी पी ओ चौराहे से म्यूजीयम सेंटरल स्कूल, रेसीडेंसी क्लब से आजाद नगर चौराहा तक	संवाद नगर पुलिया से नवलखा बी सी एम हाईट, होल्कर कालेज विधा नगर होते हुए सपना संगीता रोड तक	सपना संगीता रोड से प्रोफेसर कालोनी, सर्वोदय नगर पंचशील नगर होते न्यू अनाज मण्डी, कलाली मोहल्ला नाले तक ।

वार्ड न.	वार्ड का नाम	वार्ड समाहित क्षेत्र	चर्तुः सीमा			
			(1)	(2)	(3)	(4)
			उत्तर	पूर्व	दक्षिण	पश्चिम
64	चितावद	नंदनवन कालोनी, खण्डेलवाल नगर, संवाद नगर, प्रकाश नगर, शिवकूर्पा कालोनी, साजन नगर, नेमावर रोड, शुक्ला कम्पाउण्ड, यादव कम्पाउण्ड, मितल कम्पाउण्ड, जवाहर दाल मील, कौशल्या पुरी, जगनाथचाल, आनंद नगर, आनंद एक्सटेंशन, मंगलमूर्ति नगर, गजाधर नगर, गुलमोहर का बगीचा, शिवमोती नगर, बी जे विहार, राधा स्वामी नगर, चितावद, त्रिवेणी कालोनी भंवरकुआ चौराहे से आसाराम बापू चौराहे तक, आर्टस एण्ड कामर्स कालेज, त्रिवेणी नगर नई बस्ती, तीन इमली चौराहे से आशाराम बापू चौराहे तक, अभिनय नगर, चितावद कांकड, नर्मदा नगर, लालबहादूर शास्त्री नगर, पंवार नगर, पवनपुरी, अंसारीबाग कालोनी, गुलमोहर का बगीचा, विश्वविद्यालय प्रांगण, अंकूर आवास गृह निर्माण एवं कॉलम क्रमांक 4 में दर्शित वार्ड की चर्तुःसीमा के अन्तर्गत समस्त क्षेत्र ।	टॉवर चौराहा विधा नगर, जानकी नगर होते हुए नवलखा चौराहा से संवाद नगर पुलिया तक	संवाद नगर पुलिया नाले से तीन इमली पुलिया नाले तक तीन इमली से रिंग रोड पवनपुरी तिराहे होते हुए नेमावर रोड तक	नेमावर रोड से चितावद कांकड होते हुए खंडवा रोड आई टी कालेज तक एवं पालदा गॉव की सीमा ।	खंडवा रोड आई टी से भंवरकुआ होते हुए विधानगर तक
65	संत कवंरराम	खातीवाला टेंक, खातीवाला टेंक एम-आर, साधु वासवानी नगर हरिजन कालोनी, न्यू लोडा मण्डी, बापू नगर, देव श्री टाकीज के पास जयहिन्द नगर, जागृति नगर, सिन्धु नगर, बैराठी कालोनी, बी.के. सिन्धी कालोनी सम्पूर्ण, वीर सावरकर नगर सम्पूर्ण, जीवनदीप कालोनी, स्कीम नं. 31, जोशी कालोनी, साधू बंसत कालोनी, प्रोफेसर कालोनी, प्रोफेसर कालोनी के झोपडे, एवं कॉलम क्रमांक 4 में दर्शित वार्ड की चर्तुःसीमा के अन्तर्गत समस्त क्षेत्र ।	हरिजन कालोनी, गाडी अड्डा	पंचशील नगर, पटेल नगर, सपना संगीता मेनरोड	सपना संगीता सिनमा, टॉवर चौराहा गुरुमित नगर, एस.बी. आई. बैंक. बी. एस.एन.एल कालोनी से माणिक बाग ब्रिज ।	माणक बाग ब्रिज से रेल्वे लाईन से जूनी इन्दौर ब्रिज, राधा गोविंद का बगीचा, हरिजन कालोनी गाडी अड्डा ।
66	शहीद हेमू कालानी	प्रताप नगर, गोपाल बाग, बारामत्था राजाबाग, गुरुनानक कालोनी, करबला मैदान,	लाल बाग पैलेस आर. टी. ओ.	सोनकर समाज धर्मशाला से जूनी इन्दौर	माणिक ब्रिज रेल्वे पटरी से बद्रीबाग नाले	बद्री बाग नाले से होते हुए, राजमहल

वार्ड न.	वार्ड का नाम	वार्ड समाहित क्षेत्र	चर्तुः सीमा			
			उत्तर	पूर्व	दक्षिण	पश्चिम
(1)	(2)	(3)	(4)			
		धोबीघाट, मालवा कन्या कैम्पस हेमसन कालोनी, वासुदेव नगर, लालबाग मेन रोड, लाडकाना नगर, प्रेम नगर सेक्टर ए.बी.सी., पलसीकर कालोनी, दुबे कालोनी, साधु नगर, जयश्री सिडिकेट कालोनी, आदर्श नगर, जवेहरी कालोनी, माणिकबाग पुल के नीचे स्कीम नं. 101, व्यकंटेस मार्केट, रूपराम नगर, त्रिवेणी कालोनी, राजमहल कालोनी, माडल विलेज कालोनी, पैलेस कालोनी, औरेंज कन्ट्री, आदर्श नगर लालबाग लाईन, माणिकबाग मेन रोड एंव लाईन एवं कॉलम क्रमांक 4 में दर्शित वार्ड की चर्तुःसीमा के अन्तर्गत समस्त क्षेत्र ।	रोड तिराहे से हेमूकालानी तिराहा से जूनी इन्दौर ब्रिज तक	ब्रिज रेल्वे पटरी से माणिक बाग रेल्वे पटरी तक	तक	कालोनी पुलिया से आर.टी.ओ. रोड, लालबाग तिराहे तक
67	महाराजा होल्कर	छत्रीबाग, प्रेमकुमारी हॉस्पिटल परिसर, सत्यम शिवम सुन्दरम् अपार्टमेन्ट, कंजर मोहल्ला, छत्रीपुरा थाना, महूनाका, छत्रीबाग पुलिस लाईन, रामद्वारा मार्ग, जोशी मोहल्ला, बाराभाई, सेठी नगर, लोधा कालोनी, राजस्व ग्राम, छत्रीपुरा, राजपूत समाज बगीची, जयरामपुर कालोनी, काटजू कालोनी, जमना नगर, जवाहर नगर, जमना नगर झोपड पट्टी, अर्जुन पुरा मल्टी स्टोरी एवं झोपड पट्टी, सम्पूर्ण बाल्दा कालोनी एवं कॉलम क्रमांक 4 में दर्शित वार्ड की चर्तुःसीमा के अन्तर्गत समस्त क्षेत्र ।	कडाव घाट, छत्री बाग पुलिया	गणगौर घाट, सरस्वती नदी जयरामपुर, पुलिया से जी. डी.सी. तिराहा तक	जी.डी.सी. कर्बला ब्रिज होते हुए महू नाका चौराहा	बद्री बाग नाले से होते हुए, राजमहल कालोनी पुलिया से आर.टी.ओ. रोड, लालबाग तिराहे तक
68	बम्बई बाजार	मोहनपुरा, बम्बई बाजार, जवाहर माग्र मेन रोड, आगरा होटल, उदापुरा, मुकेशपुरा, पिंजारा बाखल, कडावघाट, इसाक पहलवान की चाल, रोशनपुरा, मच्छी बाजार, नयापीठा, सिलावटपुरा, टाटपट्टी बाखल, कागदीपुरा, सम्पूर्ण रविदासपुरा, कागदीपुरा मेन रोड, कंट्रोल दुकान वाली	सांठा बाजार, बजाजखाना चौक, पीपली बाजार जवाहर मार्ग	लक्ष्मण बाजार, मच्छी बाजार चौराहा ब्रिज से नाले होते हुए, छत्री बाग नाले से गणगौर घाट से राजस्व ग्राम तक	राजस्व ग्राम, बियाबानी मेने रोड	बियाबानी मेन रोड, जंगमपुरा तिराहा लोधी पुरा, नरसिंह बजार चौराहा, जवाहर मार्ग

वार्ड न.	वार्ड का नाम	वार्ड समाहित क्षेत्र	चर्तुः सीमा			
			उत्तर	पूर्व	दक्षिण	पश्चिम
(1)	(2)	(3)	(4)			
		गली, डायमंड स्टेशनरी से हकीमी ग्लाश तक एवं कॉलम क्रमांक 4 में दर्शित वार्ड की चर्तुःसीमा के अन्तर्गत समस्त क्षेत्र ।				
69	जवाहर मार्ग	लोहार पट्टी मेन रोड, मालगंज भगतसिंह मार्ग, ओल्ड राजमोहल्ला, लोधीपुरा, जंगमपुरा, बियाबानी धार रोड, इतवारिया बाजार, नृसिंह बाजार, हुकमचंद मार्ग, नलिया बाखल, क्लाथ मार्केट, सितलामाता बाजार, शक्कर बाजार, मोरसली गली, पिपली बाजार, बजाज खाना, साठा बाजार, मारोठिया बाजार, बोहरा बाखल, धानगली बडा सराफा थाना, छोटा सराफा, महावीर मार्ग, मोलाना आजाद मार्ग, साऊथ राजमोहल्ला, चौथमल कालोनी, गुलाबपार्क कालोनी, महेश नगर, भक्त प्रहलाद नगर, न्यू महेश नगर, मौलाना आजाद मार्ग, न्य महेश नगर, मालगंज जवाहर मार्ग, समाजवाद नगर तरण पुष्कर रोड, वर्धमान नगर, लाबरिया भेरू भारत पेट्रोल पम्प, एवं कॉलम क्रमांक 4 में दर्शित वार्ड की चर्तुःसीमा के अन्तर्गत समस्त क्षेत्र ।	अंतिम चौराहा, कैलाश मार्ग, लोहारपट्टी, खजुरी बाजार मेन रोड, गौराकुण्ड चौराहा,	राजवाडा, कानूनगो बाखल, से जवाहर मार्ग, पिपली बाजार, मोहन पुरा, बाम्बे बाजार, मुकेरीपुरा, सिलावट पुरा, टाटपट्टी बाखल, बालदा कालोनी,	महू नाका चौराहा	महू नाका चौराहा से एम. आ.जी. लाईन्स, लबरिया भेरू, राजमोहल्ला चौराहा हरिजन कालोनी, गिरधर नगर से पंचकुईया मुक्तिधाम रोड तक
70	लोकनायक नगर	हरिजन कालोनी (राजमोहल्ला) गुलाब बाई का बगीचा, सुल्काखेडी, आदर्श इंदिरा नगर मेन रोड, गंगाबाई जोशी नगर, लोकनायक नगर सम्पूर्ण, पंचमूर्ति नगर, हरिओम नगर, जलाराम नगर, श्रीकृष्ण कालोनी, श्रीहरि सोसायटी, लाबरिया भेरू धार रोड से अपना पैलेस उत्तरी भाग, खालसा स्कूल कालेज परिसर सम्पूर्ण पिछे कोने तक, माली मोहल्ला सम्पूर्ण, माली मोहल्ला झोपड़ पट्टी, लाबरिया भेरू जी एन टी मार्केट, धार रोड किमती गार्डन, जिला अस्पताल, मिल्क कालोनी, गडरिया मोहल्ला,	रामानंद नगर, इंदिरा नगर, झोपड़ पट्टी, पंचकुईया मुक्ती धाम, महेश नगर गुलाब पार्क, राजमोहल्ला चौराहा से लाबरिया भेरू चौराहा	लाबरिया भेरू चौराहा, क्लाथ मार्केट हास्पिटल, एम.ओ.जी. लाईन्स वैष्णव पौलिटैक्निक कॉलेज	समाजवादी इन्द्रा नगर, चांदमारी बस्ती स्कीम नं. 71 होते हुए धार रोड तक ।	गंगा कॉलोनी, रामानंद नगर

वार्ड न.	वार्ड का नाम	वार्ड समाहित क्षेत्र	चर्तुः सीमा			
			(1)	(2)	(3)	(4)
			उत्तर	पूर्व	दक्षिण	पश्चिम
		गिरधर नगर, रामकृष्ण बाग, टिम्बर मार्केट, धार रोड एवं कॉलम क्रमांक 4 में दर्शित वार्ड की चर्तुःसीमा के अन्तर्गत समस्त क्षेत्र ।				
71	द्रविड नगर	द्रविड नगर, द्रविड नगर पुलिस लाईन, विश्वकर्मा नगर, बैंक कालोनी, उषानगर मेन, उषानगर एक्सटेंशन, समाजवादी इंदिरा नगर सम्पूर्ण, स्वस्तिक नगर, एम. ओ.जी लाईन, इन्दौर नेत्र चिकित्साल, क्लॉथ मार्केट हास्पिटल, गंगवाल बस स्टैण्ड, चांदमारी कम्पाउण्ड, एम.ओ.जी लाईन, नाकौडा पैलेस, श्रीनाथ टॉवर, मुर्गीपालन केन्द्र परिसर, के आसपास हाउसिंग बोर्ड के सभी अपार्टमेंट एवं कॉलम क्रमांक 4 में दर्शित वार्ड की चर्तुःसीमा के अन्तर्गत समस्त क्षेत्र ।	कस्तूर सिनेमा, लाबरिया भेरु चौराहा से होते हुए एम.पी.ई.बी. ऑफिस तक	एम.पी.ई.बी. ऑफिस से सराफा स्कूल, महु नाका, महावर नगर होते हुए अन्नपूर्णा पानी की टकी तक	सुदामा नगर मेन रोड दयाल गुरु गेट तक	सुदामा नगर पोस्ट ऑफिस, शासकीय अत्रीदेवी स्कूल, विश्राम बाग, स्कीम नं. 71, मिल्क कालोनी, टिम्बर मार्केट, माली मोहल्ला होते हुए धार रोड कस्तूर सीनेमा तक
72	लोकमान्य नगर	महावर नगर, रेवेन्यू नगर, निधि विहार ग्यारह बंगले, श्री रामनगर मॉडल टाउन कालोनी, सचिदानंद नगर, इन्दिरा गाँधी नगर, गानगर, मधुबन कालोनी, इन्द्रलोक कालोनी, मून पैलेस कालोनी, विनय नगर, पार्श्वनाथ नगर, यादव मोहल्ला, कुंजवन कालोनी एवं बसंत विहार कालोनी, लोकमान्य नगर एक्स, नेमीनगर मेन, नेमीनगर एक्स., केसरबाग रोड, सिद्धार्थ नगर, दशहरा मैदान निचली बस्ती, अलंकार पैलेस, सित्वर पैलेस, जोहरी पैलेस, एवं कॉलम क्रमांक 4 में दर्शित वार्ड की चर्तुःसीमा के अन्तर्गत समस्त क्षेत्र ।	महु नाका चौराहा, लाल बाग आर टी ओ रोड तिराहा तक	लाल बाग पैलेस. आर टी ओ आफिस घनश्याम दास कालोनी तिराहा से आयुर्वेदीक कालेज, रेल्वे पटरी होते हुए गायत्री मंदिर रेल्वे क्रसिंग तक	गायत्री नगर रेल्वे फाटक से क्रांतिकृपलानी गेट अन्नपुर्णा रोड तक	अन्नपूर्णा रोड, यूनिक हास्पिटल उषा नगर एक्सटेंशन, उषा नगर महु नाका चौराहा
73	लक्ष्मणसिंह चौहान	खातीवाला टैंक बी.एस.एन.एल. कालोनी एवं सैफी नगर वाले भवन, जयसवाल की चाल, नूरी नगर, गुलजार कालोनी, न्यू सैफी नगर एवं फडनीस कालोनी, विजय पैलेस (नगर),	माणिक बाग रेल्वे ब्रिज से बी.एस. एन. एल. क्वार्टर रोड, खातीवाला	खाती वाला टैंक रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, मेकेनिक नगर मेन रोड गुरुद्वारा होते हुए चोइथराम	चोइथराम ब्रीज से नाले होते हुए रेल्वे ट्रेक तक लोकमान्य नगर, आर.टी. ओ. रोड तक	इंदिरा गांधी नगर आर.टी.ओ. रोड राजमहल कालोनी पुलिया से नाले होते हुए रेल्वे ट्रेक

वार्ड न.	वार्ड का नाम	वार्ड समाहित क्षेत्र	चर्तुः सीमा			
			उत्तर	पूर्व	दक्षिण	पश्चिम
(1)	(2)	(3)	(4)			
		नंदवन कालोनी, नूरी कालोनी, गुलजार कालोनी, न्यू सैफी नगर, बुकबाण्ड कालोनी, अशोका कालोनी, पूरणदास का बगीचा, स्कीम नं. 102, श्याम नगर, सैफी नगर मेन एवं सैफी नगर झोपड पट्टी, घनश्यामदास नगर, लाल बहादुर शास्त्री नगर, फखरी मंजिल, कुतुबी मंजिल, मोहम्मदी मंजिल, बट्टीबाग, एवं कॉलम क्रमांक 4 में दर्शित वार्ड की चर्तुःसीमा के अन्तर्गत समस्त क्षेत्र ।	टेंक	ब्रीज तक		तक, रेल्वे लाईन से माणक बाग ब्रीज तक ।
74	विष्णुपुरी	आनंद नगर टावर चौराह के पास, गुरमीत नगर, शहीद भगतसिंह कालोनी, आनंद नगर, पिपल्यापाला मेन रोड बंशीधाम, अशोक नगर, विधा नगर, होल्कर कॉलेज से भव्हर कुँआ चौराहा, इन्द्रपुरी, अनंतपुरी, अहिल्यापुरी, शिवमपुरी, गिरधर नगर, मंगल नगर, आदित्य नगर, पिपल्याराव, सर्वानंद नगर, नानक नगर, नानक पेलेस, हरगोविंद नगर, भोलाराम, उस्ताद मार्ग, ब्रम्हपुरी,, अंबिकापुरी, जगनाथपुरी, बंशीधाम पिपल्यापाला गांव मेन रोड, राहुलगांधी नगर, भव्हर कुँआ थाना से सोयाबीन केम्पस, सोनियागांधी नगर, भोला नगर, गुजर हास्पिटल, विष्णुपुरी मेन, विष्णुपुरी एनेक्स, मेकेनिक नगर, स्नेह विहार, जीत नगर एवं कॉलम क्रमांक 4 में दर्शित वार्ड की चर्तुःसीमा के अन्तर्गत समस्त क्षेत्र ।	ट्रांसपोर्ट रोड से खातीवाला टेंक, सेफीनगर,एस. बी.आई. बैंक कालोनी, टावर चौराह, प्रोफेसर कालोनी पटेल नगर सपना संगीता मेन रोड	अग्रवाल नगर, भगवानदीन नगर, होल्कर कालेज, भंवरकुआ चौराह होते हुए राधास्वामी सतसंग व्यास तक	कृष्णोदय नगर, संतनगर, पिपल्यापाल तालाब, रिजनल पार्क, चोईथराम चौराह	चोईथराम चौराहा, चोईथराम अस्पताल से माणिक बाग पुलिया से ट्रांसपोर्ट नगर, रोड तक
75	पालदा	पालदा गांव सम्पूर्ण, मुण्डला नायता सम्पूर्ण एवं कॉलम क्रमांक 4 में दर्शित वार्ड की चर्तुःसीमा के अन्तर्गत समस्त क्षेत्र ।	खंडवा रोड चितावद कांकड होते हुए, नेमावर रोड, पवनपुरी, उद्योग नगर, भगवतीनगर, धनलक्ष्मी	सनावदिया गाँव की सीमा	रालामंडल की सीमा, मिर्जा पुर गाँव की सीमा ।	लिम्बोदी गाँव की सीमा, खंडवा रोड चितावद कांकड तक

वार्ड न.	वार्ड का नाम	वार्ड समाहित क्षेत्र	चतुः सीमा			
			उत्तर	पूर्व	दक्षिण	पश्चिम
(1)	(2)	(3)	(4)			
			नगर, देवगुराडिया ग्राम सीमा			
76	बिचौली	बिचौली मर्दाना गांव सम्पूर्ण, बिचौली हप्पी गांव सम्पूर्ण, टिगरिया गांव सम्पूर्ण, कनाडिया गांव सम्पूर्ण एवं कॉलम क्रमांक 4 में दर्शित वार्ड की चतुःसीमा के अन्तर्गत समस्त क्षेत्र ।	ओमेक्स सिटी खत्री खेडी, बेगन खेडी गाँव की सीमा,	रामगढ गाँव, बड़िया कीमा सीमा	देवगुराडिया	धनलक्ष्मी नगर, शिवनगर, संजना पार्क होते हुए बिजली नगर, मोर्या हिल्स से कनाडिया मेन रोड बाय पास होतु हुए ओमेक्स सिटी
77	बिलावली	एकता नगर, कुशवाह का बगीचा, संत नगर पैलेस, संत नगर, गणेश नगर, फुटापाला के सामने कृष्णोदय नगर, राजीवगांधी सर्कल पुलिया से एम.आर.3 रोड तक, मां विहार कालोनी, अमर पैलेस, महादेव नगर शिफ्टिंग वाले मकान, लिम्बोदी गांव सम्पूर्ण, बिलावली गांव सम्पूर्ण, फतनखेडी गांव सम्पूर्ण, केलोद करताल गांव सम्पूर्ण एवं कॉलम क्रमांक 4 में दर्शित वार्ड की चतुःसीमा के अन्तर्गत समस्त क्षेत्र ।	चोइथराम चौराहा से पिपल्यापाला तालाब रोड जीत नगर से राहुल गांधी नगर होते हुए खंडवा रोड सं राधा स्वामी सत्संग न्यास, पालदा गाँव की सीमा तक ।	मुडला नायता की सीमा, राला मण्डल, मिर्जा पुरु असरावर्द खुर्द	मोरद गांव, मांचल,	मांचल गांव, निहालपुर मुडी , संजयनगर, हुकमाखेडी, बिजलपुर, तेजपुर गडबडी, पुल ए बी रोड से चोइथराम चौराहा
78	चोइथराम	राज टाऊनशिप, होल्कर अपार्टमेन्ट ब्लॉक ए, बी, सी, स्वामी दयानंद नगर, चोइथराम अस्पताल परिसर स्कीम नं. 59 अमितेश नगर, बंसत पुरी , गोल्डन पैसेले, फलबाग क्षेत्र, नालन्दा परिसर, केसर बाग रोड, सारनाथ कालोनी, शुभम् रेसीडेंसी, बिजलपुर, तेजपुर गडबडी, ए.बी.रोड, इन्द्रजीत नगर आई.डी.ए. कालोनी, इन्द्रजीत नगर झोपडे, स्कीम नं. 103, गोया कालोनी, न्यू प्रकाश नगर सब्जीमण्डी, फुलमण्डी, बोलिया सरकार बंगला, महादेव नगर राजारानी नगर राज पाईन्ट, ब्लूमन भण्डारी मार्तण्ड एवं सामने की पट्टी, भीम नगर	आयुर्वेदिक कालेज, रेल्वे लाईन से नाले होते हुए चोइथराम पुलिया तक	चोइथराम नाले पुल से चोइथराम चौराहा होते हुए, ए.बी.रोड से तेजपुर गडबडी पुलिया गडबडी मुक्तीधाम,मार्तण्ड नगर होते हुए बिजलपुर स्कुल तक	बिजलपुर तालाब, ए.बी. रोड होते हुए राजेन्द्र रेल्वे लाईन	राजेन्द्र नगर रेल्वे लाईन होते हुए आयुर्वेदिक कालेज रेल्वे पट्टरी तक

वार्ड नं.	वार्ड का नाम	वार्ड समाहित क्षेत्र	चर्तुः सीमा			
			(1)	(2)	(3)	(4)
			उत्तर	पूर्व	दक्षिण	पश्चिम
		गंदी बस्ती, नेमा नगर, बिजलपुर गंदी बस्ती, नर्मदा कन्ट्रोल रूम से अर्जुन नगर तक अजुन नगर बस्ती, छापरी गाँव, गणगौर नगर, मार्तण्ड नगर, एवं कॉलम क्रमांक 4 में दर्शित वार्ड की चर्तुःसीमा के अन्तर्गत समस्त क्षेत्र ।				
79	सुख निवास	सुख निवास गांव सम्पूर्ण, अहिरखेडी गांव सम्पूर्ण, हुक्माखेडी गांव सम्पूर्ण, निहालपुर मुंडी गांव सम्पूर्ण एवं कॉलम क्रमांक 4 में दर्शित वार्ड की चर्तुःसीमा के अन्तर्गत समस्त क्षेत्र ।	बॉक गांव, सिरपुर तालाब, हवा बंगला सुखनिवास रोड केट चौराहा से रेत मंडी चौराहा, रेल्वे लाईन व ए बी रोड क्रॉस करते हुए श्री विठ्ठल मंदिर होते हुए बिलावली गांव तक	बिलावली फतनखेडी, कैलोद करताल	मांचल गांव सिलीकान सिटी शिवसिटी ए बी रोड, रेल्वे लाईन क्रॉस करते हुए सिदोडा गांव तक	सिंदोडा गांव से बॉक गाँव सीमा तक
80	डा. राजेन्द्र प्रसाद	राजेन्द्र नगर सम्पूर्ण, रेल्वे क्वार्टर, कृष्ण नगर, ममता नगर अवैध बस्ती, प्रगति नगर के झोपडे कुंए के पास, बुद्ध नगर के झोपडे वी आई पी परस्पर, बुद्ध नगर के झोपडे घोषित गंदी बस्ती, जवाहर नगर, राजेश नगर, प्रगति नगर, पाराशर नगर, धनवंतरी नगर, तिवारी नगर, च्वाईस पैलेस कालोनी, विज्ञान नगर, धनश्री नगर, वी आई पी परस्पर रिंग रोड के पूर्वी साईड विशाल नगर, अहिल्या नगर, भोज नगर, वैशाली नगर सेक्टर सम्पूर्ण, सुर्दशन नगर, ब्रजविहार कालोनी, सिद्धीपुरम, तक्षशिला परिसर, सांदीपनी कालोनी, पुलिस लाईन, शासकीय महिला पोलेटेक्नीक, जिला शिक्षा केन्द्र डाईड परिसर भोज मुक्त वि.वि. राजेन्द्र	ग्रेटर वैशाली चौराहा, से चाणक्य पुरी चौराहा, अन्नपूर्णा मेन रोड,	चाणक्यपुरी चौराहे से दधिची चौराहा ए.बी. रोड होते हुए पेट्रोल पम्प तक	दत्त नगर रेल्वे पटरी से रेत मंडी चौराहा होते हुए केट चौराहे, हुक्माखेडी सीमा तक	केट चौराहे से सुख निवास रोड होते हुए सूर्यदेवनगर से रिंग रोड होते हुए ग्रेटर वैशाली चौराहे तक

वार्ड न.	वार्ड का नाम	वार्ड समाहित क्षेत्र	चर्तुः सीमा			
			(1)	(2)	(3)	(4)
			उत्तर	पूर्व	दक्षिण	पश्चिम
		नगर नाका, एवं कॉलम क्रमांक 4 में दर्शित वार्ड की चर्तुःसीमा के अन्तर्गत समस्त क्षेत्र ।				
81	अन्नपूर्णा	गोपुर एक्सटेंशन, ग्रेटर वैशाली, सूर्यदेव नगर सेक्टर सम्पूर्ण, डाकतार कॉलोनी, सिद्धी पुरम कालोनी रिंग रोड के पश्चिम तरफ, सत्यदेवनगर, परस्पर नगर, सहजीवन नगर, प्रिकांको कालोनी, गोपुर कालोनी, मिश्र नगर, अन्नपूर्णा नगर, भवानीपुर कालोनी, गोडबोले कालोनी, अन्नपूर्णा परिसर, कांतिकृपालानी नगर, जनसेवा नगर, गरीब बस्ती पट्टे वाली, देवेन्द्र नगर दो गिटटी खदान, गायत्री नगर, प्रभु नगर, सरस्वती नगर, सिल्वर आक्स कालोनी, चाणक्यपुरी, उमेश नगर, नर्मदा नगर, एवं कॉलम क्रमांक 4 में दर्शित वार्ड की चर्तुःसीमा के अन्तर्गत समस्त क्षेत्र ।	दशहरा मैदान	मून पैलेस कालोनी, विनय नगर, पार्श्वनाथ नगर, अलंकार पैलेस, आर टी ओ रोड रेल्वे क्रांसिंग से होते हुए दधीची रेल्वे क्रांसिंग तक	दधीची चौराहा रेल्वे क्रांसिंग चाणक्यपुरी चौराहे से ग्रेटर वैशाली चौराहा रिंग रोड, बुद्ध नगर होते हुए सुख निवास रोड	सुख निवास रोड, हवा बंगला, सुदामा नगर सेक्टर ई ग्रेटर वैशाली चौराहा, सुदामा नगर सेक्टर डी 60 फीट रोड होते हुए दशहरा मैदान ।
82	सुदामा नगर	सुदामा नगर सेक्टर बी, सुदामा नगर चौरसिया सेक्टर, सुदामा नगर सेक्टर डी, रिंग रोड, झुग्गी झोपड़ी, सुदामा नगर, एन.पी. सेक्टर, सम्पूर्ण सुदामा नगर ई सेक्टर, शान्तिनाथपुरी, श्रीराम नगर, परिवहन नगर, गुरुशंकर नगर एवं कॉलम क्रमांक 4 में दर्शित वार्ड की चर्तुःसीमा के अन्तर्गत समस्त क्षेत्र ।	फूटी कोठी, रिंग रोड, बैंक कालोनी से अन्नपूर्णा रोड तक	अन्नपूर्णा मंदिर, गोडबोले कालोनी, भवानी नगर, अन्नपूर्णा नगर, प्रिकांको कॉलोनी से ग्रेटर वैशाली चौराहा तक	ग्रेटर वैशाली नगर, सूर्य देव नगर से हवा बंगला रोड होते विधुर नगर तक	अहिरखेडी गॉव की सीमा, ऋषि पैलेस, न्यू द्वारकापुरी से फूटी कोठी तक
83	गुमाशता नगर	गुमाशता नगर सम्पूर्ण, स्कीम नं. 71 सेक्टर ए/बी/सी/डी, सेल टेक्स कॉलोनी, सुदामा नगर सेटी गेट, महावीर गेट के आसपास का क्षेत्र, सुदामा नगर ए सेक्टर, एवं कॉलम क्रमांक 4 में दर्शित वार्ड की चर्तुःसीमा के अन्तर्गत समस्त क्षेत्र ।	धार रोड चंदन नगर चौराहे से गंगा कालोनी पुलिया तक	कीमती गार्डन, मिल्क कालोनी, चांदमोरी बस्ती, द्रविड नगर होते हुए रणजीत हनुमान मंदिर से नरेन्द्र तिवारी मार्ग होते हुए विश्वकर्मा नगर पानी की टंकी तक	सुदामा नगर सेक्टर डी एवं ई	ग्वाला कॉलोनी होते हुए रिंग रोड से चंदन नगर चौराहा तक

वार्ड न.	वार्ड का नाम	वार्ड समाहित क्षेत्र	चर्तुः सीमा			
			(1)	(2)	(3)	(4)
			उत्तर	पूर्व	दक्षिण	पश्चिम
84	द्वारकापुरी	द्वारकापुरी सम्पूर्ण, न्यू द्वारकापुरी, ग्वाला कालोनी और रिंग रोड के झोपडे, एवं कॉलम क्रमांक 4 में दर्शित वार्ड की चर्तुःसीमा के अन्तर्गत समस्त क्षेत्र ।	छोटा सिरपुर तालाब	स्कीम नं. 71 सी एवं डी सेक्टर फुटी कोठी, सुदामा नगर सेक्टर ई	परिवहन नगर,	प्रजापत नगर, ऋषि पैलेस, साईबाबा नगर होते हुए छोटा सिरपुर तालाब
85	प्रजापत नगर	प्रजापत नगर सम्पूर्ण, आकाश नगर, छोटा सिरपुर तालाब के पास, श्रद्धा सबुरी, ऋषि विहार कालोनी, श्री ऋषि पैलेस कालोनी, आस्था पैलेस, बडा सिरपुर तलाब, साई बाबा नगर, एवं कॉलम क्रमांक 4 में दर्शित वार्ड की चर्तुःसीमा के अन्तर्गत समस्त क्षेत्र ।	धार रोड, बॉक गाँव से राम बलराम नगर पुलिया से छोटा सिरपुर तालाब बंड तक	हरिहर नगर, ग्वाला कॉलोनी, द्वारका पुरी, न्यू द्वारकापुरी, परिवहन नगर तक	परिवहन नगर, गुरुशंकर नगर, अहिरखेडी गाँव सीमा तक	सिहांसा गाँव की सीमा एवं धार रोड तक

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय दुबे, आयुक्त.

इन्दौर दिनांक 01 दिसंबर 2014

क्रमांक 1644/वार्ड विस्तार न.पा.नि. इन्दौर/2014 भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1642/वार्ड विस्तार न.पा.नि. इन्दौर/2014, दिनांक 01 दिसंबर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय दुबे, आयुक्त.

Indore, Dated 1st December 2014

No. 1645/ ward Vistar/ 2014 - In exercise of the power conferred by Notification No. 3-518-Eighteen-3-2004 Dated 24th February 2004 of Urban Administration and Development Department, Government of Madhya Pradesh. I, Sanjay Dubey, Commissioner, Indore Division, Indore, hereby determine the extent of wards of Municipal Corporation of Indore under section 10(1) of the M.P. Municipal corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) are as per schedule given below :-

W. No	Name of Ward	Areas included within Ward	Ward Boundary			
			NORTH	EAST	SOUTH	WEST
1	SIRPUR	Vijayashree nagar, Maruti palace, Ganesh nagar, Shree khedapati hanuman mandir ke aage, Goverdhan palace near madina masjid, Gandhi palace, Near Shree khedapati hanuman mandir, Samrat nagar, Sirpur Dhar road, Jagannathpuri sirpur kakad ke pass, Bajrang nagar, Rana colony, Ammar nagar (Entire), Dimand palace, Friends colony, Sahayog nagar, Sagar palace colony, Ashiyana palace nai colony dhar road, Keshaw nagar, Gulab bagh, Sayogen nagar, Geeta nagar main Agnihotri petrol pump dhar road, Krishna puri, Harihar nagar, Vishal nagar, Ram balram nagar, Shahid chandrashekhar azad pratima ke pass ring road, Nut colony sirpur talab ke samne dhar road sirpur cyphen tak, Jagdish puri, yash hotel ke piche Geeta nagar, Geetanagar Ex. dhar road, Hakimi bagh parshad mahoday ke samne petrol pump dhar road and all the areas and all the areas included in the ward as shown, with the boundaries, in the column no. 4	Airport Boundary wall, Vyas nagar, B.S.F. area, Jayashree nagar.	Nagin nagar, Vardhaman nagar, Geerta nagar Palace, Chandan nagar dhar road, Chandan nagar choraha, upto ring road sch.no.71.	Sch. No. 71 sector. d, Sirpur lack, Gwala Colony Sirpur Talab Pall Dhar Road.	Dhar road to Kordiya bardi village, Airport boundary Wall
2	CHANDAN NAGAR	Chandan nagar (Entire), Lohe wala gate, Nake wali gali, Geeta nagar palace, Rani palace, Sakina masjid wali gali and all the areas and all the areas included in the ward as shown, with the boundaries, in the column no. 4	Jagannath puri se nale hote via ramanand nagar culvert	ganga nagar dhar road tak	Dhar road Aam wali gali to Agnihotri petrol pump .	Agnihotri petrol pump to nalla.

Ward No.	Name of Ward	Areas included within Ward	Ward Boundary			
			(1)	(2)	(3)	(4)
			NORTH	EAST	SOUTH	WEST
3	KALANI NAGAR	B.S.F. premises, Airport colony, Kalani nagar, Jayashree nagar, Nagin nagar, Nandan nagar sector N.and all the areas and all the areas included in the ward as shown, with the boundaries, in the column no. 4	Airpot thana to Kalani nagar choraha.	Hajur ganj, Dharmaraj colony puliya to Damodar nagar nalla	Damoda r nagar nalla to Daimand palace	Samrat nagar, Khedapati hanuman nagin nagar to Airport road.
4	SUKHDEV NAGAR	Vyankatesh nagar main, Patel nagar, sadhna nagar, Sadhna nagar Ex. Manpasand colony, Gurukrishna colony, Sahu nagar, Panchawati nagar, Dwarkadhish nagar, Sukhdev vihar, Sukhdev nagar, Shikshak nagar, Anjani nagar, Shrikrishna nagar airport road police qarter, Kanyakubja nagar, Vidhya dham, Ratan bagh, Ambikapuri main, Amrakunj colony, Krishna bagh airport road, Akhand nagar, Aaradhana nagar, Harijan colony, Ganga nagar, Parihar colony, Hujur ganj and all the areas and all the areas included in the ward as shown, with the boundaries, in the column no. 4	Ambika puri, Suvidhi nagar, Palhar nagar to police quarter.	Dusri paltan police quarter to VIP road police line.	VIP road Bijasan colony, Tirupati nagar, Dharmaraj colony Kalani nagar Sq. to BSF area.	Airport colony.
5	RAJ NAGER	Jai bhawani nagar, Rajnagar, Ramnagar, Vardhaman nagar, Ramanand nagar, chandan nagar sector sector 'E', Rana colony near prafulla cinema, Damodar nagar, VyasRamanand nagar, Ganga colony near keshav dharmashaala and all the areas and all the areas included in the ward as shown, with the boundaries, in the column no. 4	Kalani nagar, Bholenath colony, Hukumchand colony.	Indra nagar zopad patti nala, Hariram nagar, Panchmurti nagar to Dhar road nalla.	Dhar road.	Aamwali gali chandan nagar, Kalani nagar.
6	MALHAR GANJ	Ramchandra nagar (Entire), Tirupati nagar, Hukumchand colony, Vidhyachal nagar, Ram nagar, Ganeshganj, Sitaram park, warehouse (Entire), Prajapat pura kumhar mohalla, Teli bakhal, Kadabin (bageche wala), M.G.road, malharganj, Dharmaraj colony, Tirupati nagar zopadpatti, Sankhala colony, Bijasan colony, Bholenath colony, Indranagar jhopadpatti, Pachkuiya muktidham area, ramchandra nagar Extn., Nayapura ke pass Shukla nagar, Ramayan nagar, Nayapura brick bhatta, Lohar patti main road and all the areas and all the areas included in the ward as shown, with the boundaries, in the column no. 4	VIP road piliya khal, Badag anpati temple Jinsi bus stand to Malharganj police thana.	Yeshwantg anj, South lohar patti.	North rajmohalla, Mahesh nagar, Giridhar nagar to Mahadev nagar.	Jai bhawani nagar, Kalani nagar, Nayapura, Mohata bagh.

Ward No.	Name of Ward	Areas included within Ward	Ward Boundary			
			(1)	(2)	(3)	(4)
			NORTH	EAST	SOUTH	WEST
7	JANTA COLONY	Piliyakhal, Gorav nagar, Chatrapati nagar, Mahavir nagar, Agrasen nagar, Shramik colony, Janta colony, Subash marg (Bada ganpati to Jinsi Chourha) Dusri paltan, Wireless police qarter, Jinsi main road, Arjun paltan police line, Arjun paltan, Shankarganj main road, Kilamaidan road, Officer bungla to Gokulganj, Kandil pura, Shankarganj, Dudhadhari ka bagicha(Radhaganj junarisala), Neelkanth colony, Radha nagar and Kadabin (lal mandir) all the areas and all the areas included in the ward as shown, with the boundaries, in the column no. 4	Sawariya nagar, Anaj mandi, Kilamaidan, Sikandarabad colony.	Bhisti mohalla, Shastri colony, Malhar paltan to MG road.	Kadabin gali no.1, Sitaram park to Vindhya chal nagar.	Police petrol pump to Police quarter sahu nagar Pallhar nagar.
8	JUNARISALA	Malharganj main road (madhuban hotel to ramashah mandir), Tamboli bakhal, Gopal vilas malharganj, Tori corner, Malhar paltan, Shanti nagar, Chothipaltan, Chipa bakhal, North yashwantganj, MG road gorakund choraha, Ahilya pura, Khajuri bazar M.G. road, gorakund choraha, Tori corner, Arjunsingh nagar, Ravidas nadar, Harijan colony, Sikandrabad colony, community hall, Shastri colony, Ramganj jinsi, Jinsi haat maidan, Junarisala gali no1,2,3 and all the areas and all the areas included in the ward as shown, with the boundaries, in the column no. 4	Shankarganj, Arjun paltan, Ahilla paltan	Ahillya paltan, Badwali chowki, Junapitha, Khajuri bazar.	Gorakund choraha, MTH cloth market, Malhaganj to Kadabin.	Kadabin.
9	VRINDAVAN	Sheshadri colony, South gadra khedi, Bramhabagh colony (Entire), Kumharkhadi, Durga nagar near marimata, Raghuvanshi colony, North gadra khedi, Rahi nagar, Khasgi ka bagicha, Vrindavan colony, Mahesh guard police line, Penjon colony, Latur bagh, Mehta nagar, Kamla nehru nagar, Shaheed hemu kalani, Gomti nagar, Laxmanpura, Guru govind singh nagar and all the areas and all the areas included in the ward as shown, with the boundaries, in the column no. 4	Maa ahillya nagar, Govind colony, Banganga.	Jaihind nagar, Banganga Mukti dham, free ganj, Marimata Sq. to sadar bazar nalla.	Sikandra bad colony, Kila maidan to Rambali nagar.	Laxmibai nagar, BS NL office, Laxmipuri to sangam nagar.
10	BANGANGA	Satyasai bagh, Walmiki nagar, Mahesh yadav nagar (Entire), Banganga (Entire), Subash nagar, Freeganj, Choti kumhar khadi, Patel ka bhatta, Jaihind nagar and all the areas and all the areas included in the ward as shown, with the boundaries, in the column no. 4	Maharana pratap nagar, Lapresi hospital, Laxmibai nagar railwaya line.	Pologround industrial area nalla.	Marimata Sq.	Vrindavan colony, Govind colony, Sheetal nagar, Durga nagar, Maharana pratap nagar.

Ward No.	Name of Ward	Areas included within Ward	Ward Boundary			
			(1)	(2)	(3)	(4)
			NORTH	EAST	SOUTH	WEST
11	BHAGIRATHPURA	Refelle bhagirathpura, Bhagirathpura behind community hall, Bhagirathpura main, Bhagirathpura farshi wali gali, Redwal colony, Yadav colony, Bagiya mohalla, Nai basti bhagirath pura, Chirad mohalla, Bawadi ki chaal, Ma. VI. Laxmi bai nagar, Mohta nagar, Laxmi bai nagar railway station and all the areas and all the areas included in the ward as shown, with the boundaries, in the column no. 4	Nalla Industrial area	Nalla Bhagirath pura	Nala shukla nagar	Laxmibai nagar railway line
12	GOVIND COLONY	Ganesh bagh (Entire), Govind nagar, New govind nagar, Mahranapratap nagar, New sheetal nagar, Yadavnand nagar, Radhakrishna nagar, Karma nagar, Durga nagar, Vishal nagar, Durga nagar nai basti, Ganga bagh, Shradha dham and all the areas and all the areas included in the ward as shown, with the boundaries, in the column no. 4	Dashrath Bag, Prince nagar, Kush wah nagar, Mental hospital	Maheh yadav nagar, Valmiki nagar, Banganga.	Vrindavan colony, Penjon colony, Latur bagh.	Maa ahillya nagar, Sch.no.51, Sch.no.155, Maatesh wari nagar.
13	SANGAM NAGAR	Avantika nagar, Sch.no.51, Sangam nagar, Maa ambika nagar, Maa ahillya nagar, Laxmi puri, Rambali nagar, Archana Nagar, Hammal colony, Main road bangarda road, Laxmi nagar zopad patti, Annaj mandi, Kitched patti, Vaishnav vihar colony, Kaveri nagar, Shubham palace, shubham nagar and all the areas and all the areas included in the ward as shown, with the boundaries, in the column no. 4	Rakhi nagar, Sch.no.155, Durga nagar.	Latur bagh, Laxmanpura, BSF qarter, Police line kila maidan.	Fire brigade police quarter, Sawariya nagar, to Rukhmani nagar.	Suvidhi nagar, Mahaveer nagar, Shubham palace, Garib nawaj colony.
14	ASHOK NAGAR	Ashok nagar, Ambikapuri and extention, Suvidhi nagar, Rukhmani nagar, Somani nagar, Krushi nagar (shree laxmi nagar), Sukhdev nagar Ex., Loknayak nagar, Sanwariya nagar, Pallhar nagar, Omvihar, Panchshil nagar zoped patti in front of airport, Vyas nagar and all the areas and all the areas included in the ward as shown, with the boundaries, in the column no. 4	Bijasan mata mandir, Shakti nagar, Bapu murai mohalla, Vaishnav colony, Manojshree nagar to Mahavir nagar.	Srushti nagar, Hammal colony, Kaveri nagar, Annaj mandi.	Police quarter, Sahu nagar, Akhand nagar, Vainkatesh nagar to BSF area, Maruti palace, Gandhi palace, Laxmi nagar.	Airport.
15	BIJASAN	Bada bangarda, Gandhi nagar, Bohra colony, Tigriya badsah Village, Chorsiya nagar, Shakti nagar, Patel nagar, Bijasan mata mandir, Asha palace, Laxmi nagar, Paramhans nagar,	Palakhedi village to Bhawrasla village.	Industrial area, Narwal Village, Bajrang nagar,	Ashok nagar, Laxmi nagar, Panchas hil	budaniya village and Jamburdi Hapsi village

Ward No.	Name of Ward	Areas included within Ward	Ward Boundary			
			(1)	(2)	(3)	(4)
			NORTH	EAST	SOUTH	WEST
		Manushree nagar, Vidhya palace, Babu murai mohalla and all the areas and all the areas included in the ward as shown, with the boundaries, in the column no. 4		Ganga nagar, Nariman city, Roop nagar.	nagar, Airport, Nainod village.	boundry
16	NANDBAGH	Nandbagh, Rakhi nagar, Jairam nagar, Mateshwari nagar, Nandan nagar, Ekta nagar, Surendra nagar, Yadav palace, Shreyas nagar, Roop nagar, Lack palace, Kedar nagar, Vandana nagar, Shanti nagar, Shree ram nagar, Durga nagar, Vainkatesh vihar, Chota bangarda village, Sch. no.155, Smruti nagar, Mahaveer Nagar, Vikas Nagar, Ganga dham, Vishal palace and all the areas and all the areas included in the ward as shown, with the boundaries, in the column no. 4	Tigriya badsah village.	Eshan palace, Jairaj nagar, Dashrath bagh, Radhakrishna colony.	Sch no.51, Avantika nagar to Shreena th street, Aradhan a nagar, Ashok nagar.	Vidhya palace colony, Chota bangarda village, Bada bangarga village.
17	KUSHWAH NAGAR	Kushwaha nagar (Entire), Kushwah nagar main road to jagdish nagar tak, New prince nagar, Prince nagar, Sundar nagar, Rishi nagar, Roshan bagh, Pushp nagar, Anjani nagar, Jagdish nagar, Jagannath nagar, Ram nagar, New ram nagar, Raja bagh, Kamla keshar nagar, Dasharath Bag and all the areas and all the areas included in the ward as shown, with the boundaries, in the column no. 4	Tigriya badsah village, Bajrang nagar to Industrial area..	Durga nagar to Mental hospital.	Maharan apratap nagar, Radhakrishna colony, Sch.no.155.	Mateshwari nagar, Nand bagh Ganga nagar via Tigriya Badshah Village Boundary
18	SANT KABIR	Shiv nagar, Govind nagar kharcha, Bajrang pura, Sugandha nagar, Avantika nagar, Shivkanth nagar, Badridham, Bhawani nagar and kakad, Shanti nagar, Mental hospital, Bhagatsingh nagar nai basti and sarounding area, Gangabai ki basti, Maruti nagar, Bholenath colony, Eshavas colony, Balagi vihar, Bardari Village, Revati, Bhorasla Village, Saver road industrial area sector A and E Tigriya badshah Kankad and all the areas and all the areas included in the ward as shown, with the boundaries, in the column no. 4	Bhangya village boundary.	Karolbagh outer area, Bhangya village, Kumedi, Industrial area sec.E, Morden sq.,Riddhi siddhi nagar, Ganesh dham, Durga nagar, Mukharji nagar.	Saraswati kushth aashram, Raja bagh, Sundar nagar, Vijayvargiya nagar.	Tigriya badsha village, Palakhed i village.
19	VISHWAKAR MA	Ganesh dham, Mukharji nagar, Bhagatsingh nagar, (Estern side of main Road from banganga naka towards to Ujjain) Ramdutta ka bhatta, Gali infront of banganga thana, Saver road industrial area sec. C and F, Adarsh ganpati nagar, Saisuman nagar, Narval village and kakad,	Bhangiya village boundary.	Bhangad, MR 10 Bridge, Toll tax, Railways line, Sukhliya, Khatipura bridge to	Mahesh yadav nagar, Maharan apratap nagar.	Banganga mental hospital, Railways bridge, Shiv nagar, Bhawani nagar,

Ward No.	Name of Ward	Areas included within Ward	Ward Boundary			
			(1)	(2)	(3)	(4)
			NORTH	EAST	SOUTH	WEST
		Durga nagar, Kumedi village and kakad Karol bag, Riddhi siddhi nagar, Ganga Nagar and all the areas and all the areas included in the ward as shown, with the boundaries, in the column no. 4		nala, Laxmibai nagar to Mahesh yadav nagar.		Indoraqm a jarman tool room to Kumedi.
20	GAURI NAGAR	Gorinagar, New gauri nagar, Bholenath dham, Roop nagar, Keshav nagar, Aadinath nagar, New khatipura, Khatipura Village, Khatipura harijan basti, Sukhliya gram, Devshree nagar, Khatipura colony, Moti nagar, Prince city, Industrial area sector D, Panna Nagar, Railway Jhuggi Jhopadi, Suraj nagar and all the areas and all the areas included in the ward as shown, with the boundaries, in the column no. 4	Toal tax naka MR-10 bridge to Bhagyashree nagar.	Bhagya laxmi nagar, Abhinandan Nagar, King park gaurishankar nagar to radhika society	Sharda vidhya mandir Industrial area sec.D1& D2 to Ganesh dham.	Ganesh dham, Industrial area Sec.C to MR-10 tol tax naka.
21	SHYAM NAGAR	Shyam nagar, Shyam nagar Nx., Shyam nagar Ex. and whole shyam nagar, Bhagya laxmi nagar, Janakpuri, Gayatri nagar, New gayatri nagar, Veena nagar sector H.No. 1 to 235, Veena nagar sec. MB H.No. 12 to 71, Abhinandan nagar, Radhika sosity, Sagar vihar colony, New hira nagar, Sundar nagar Ex., Mangal nagar, Kashi puri, Tretment plant road, Nagar nigam qarter, Gulmohar green, Tirumala pride, Basuriwala, Shalimar swayam, Kalpana Nagar, sidhi nagar, Kailash puri, Alkapuri, Kings park, Gaurishankar Nagar and all the areas and all the areas included in the ward as shown, with the boundaries, in the column no. 4	Kumedi village and Bhangarh village boundary.	Niranjanpur nai basti, Chandragupt morya choraha, Heera nagar, Veena nagar, Aadarsha molik nagar, ITI.	Electrinx complex, Bhagwati nagar.	Gauri nagar, Prince city, Kumedi gram
22	Pt. DEENDAYAL UPADHAYA	Pt. Deendayal upadhyay nagar sector A-H. H.No. 1 to 23, A.M H.No. 1 to 76, A.L.H.No. 1 to 31, Sec.A.M. H.No. 1 to 484, A.M.-2shop com residents H.No. 1 to 50, DH H.No.1 to 31, BM H.No. 1 to 120, AM. H.No.77 to 150, AM-2 H.No. 200 to 310, Aadarsh molik nagar H.No. 1 to 45, CHD H.No. 19 to 54, CL. H.No.1 to 200, DM H No.1 to 344, CM H.No. 1 to 60, CH.H.No.1 to 51, Sec. C 602 to 799, Ravidas nagar, Lavkush vihar, Shabari Nagar, Heera nagar main road, veena nagar, MR-10 road Sukhliya Sq. to Chandragupt morya Sq., Sukhliya Sq. to Maruti nagar Sq. sundar nagar main, Veena nagar sector A,B,C and all the areas and all the areas included in the ward as shown, with the boundaries, in the column no. 4	Chandragupt morya choraha, MR - 10 road up to Bapat chouraha culvert.	fortune land mark hotel	Doctor colony, Maruti nagar, Ambenagar, Prime city, MR-9 to Shyam nagar.	shyam nagar to Janak puri via Chandragupt morya Sq.

Ward No.	Name of Ward	Areas included within Ward	Ward Boundary			
			(1)	(2)	(3)	(4)
			NORTH	EAST	SOUTH	WEST
23	Lt. RAJESH JOSHI	Pardesipura (Entire), Arjun singh gohar nagar, Lal gali, Ganesh nagar, Clerk colony, Dhanlaxmi nagar apartment, Redimade complex, Electronic complex, Samaj kalyan parisar, clerk colony Ex., Bhagwati nagar, Yashoda nadar, Old gouri nagar, Koli mohalla, Adarsh Bijasan nagar and all the areas and all the areas included in the ward as shown, with the boundaries, in the column no. 4	Gouri nagar, Shyam nagar, ITI khatipura triangle.	ITI khatipura triangle, ITI MR-9 junction to ESI hospital junction to Teen puliya junction.	Teen puliya to Pardesipura junction, Subash nagar junction, kulkarni bhatta, Bhagirath pura culvert.	Bhagirath pura bridge to via nala up to New gaury nagar.
24	SANT BALIJI NATH MAHARAJ	Sarvahara nagar, Subash nagar (Entire), Shankar kumhar ka bagaicha, Penjon colony, Shiv shakti nagar, Swadeshi mill gate to subash nagar main road, Pardesi pura police thana quarter, Gokuldas complex shyamacharan shukla nagar, Kulkarni bhatta (Entire), Sheelnath camp, Laxman mali ka khet, Kotawalo ki chaal, Berwa samaj basti, Nanda mali ki basti, narayan mali ka khet, Ahirwar samaj basti, Jatav samaj basti, Hukumchand mill surrounding area and Rajkumar mill sabji mandi and all the areas and all the areas included in the ward as shown, with the boundaries, in the column no. 4	Bhagirath pura bridge, Damrupura, Subash nagar choraha, Teen puliya.	Teen pulia, Pardesipura main road to Jeven ki phael, Malwa mill mukti dham tiraha to Hukumchand railway line.	Bhandari railway line to MPEB under bridge nalla to Indore steel.	Shukla nagar nalla to Kulkarni bhatta nala to Bhagirath pura puliya.
25	NANDA NAGAR	Nanda nagar road no.1-2-3-4-7 -8 and 13 to 26, Nandanagar teen puliya MIG quarter, Janta quarter, Ayodhya nagari, Police quarter, Malwamill patare ki chaal, Pakki chaal, (Entire) Malwa mill compound main road to sarvahara nagar to Patnipura junction. And all the areas and all the areas included in the ward as shown, with the boundaries, in the column no. 4	Nanda nagar road no.9, Sant josaph church.	Sant josaph church patnipura junction to Malwa mill puliya.	Malwa mill puliya nalla to jeeven ki phel	Jeeven ki chaal Sarvahara colony, Sugnadevi coledge to nanda nadar road no.9.
26	JEEN MATA	Neharunagar road no. 1 to 10 including Multy story, Malwa mill to Patnipura main road, Amir pahalwan ki chaal, Narsingh ki chaal, Bhairav baba ki gali, Gafur khan ki chall, Mumtaz seth ki gali, Nandram baniye ka bagicha, Bekri wali gali, Hakim ki chall, Mukadam ki chall, danfan ki chall, Lalapura Mangilal ki chal, Motilal ki chal, Phool singh jamadar ki chal, Kanhaiyalal ki chal, and all the areas included in the ward as shown, with the boundaries, in the column no. 4	Patnipura Sq. to MIG thana Aatal gate.	Aatal gate, Govt. school Roopesh yadav nagar.	Roopesh yadav nagar, Rustam ki chaal, Kaji ki chall pulya main road.	Malwa mill puliya to Patnipura junction.

Ward No.	Name of Ward	Areas included within Ward	Ward Boundary			
			(1)	(2)	(3)	(4)
			NORTH	EAST	SOUTH	WEST
27	PASHU PATINATH	Bajranj nagar (Entire). Junior bajrang nagar,D.M.quarter, Nanda nagar road no.5,6,9,10,11,12,27 28,29 30 and 31, Satyam vihar,Suyesh vihar, Doctor colony,Panchadeep bhawan,Teen majla hospital quarter, Karas dev nagar,Maruti nagar, Anudeshak nagar, Ambe nagar, Prime city, Prime city Nx., Staff colony and all the areas included in the ward as shown, with the boundaries, in the column no. 4	ITI khatipura junction, Sundar nagar, Aadarsh molik nagar, Pt. deendayal nagar, Hotel fortune land mark.	Fortune landmark back side nalla to Meghdoot nager, Anjali nagar, Aastha cinema Sant joseph church road no.9.	Road no. 9 nandana gar.	Nandana gar road no.9 to Clark colony Vradha ashram to Khatipura ITI Junction.
28	MAA TULJA BHAWANI	Meghdoot nagar, Naitra colony, Choti bhamori, Sanjay gandhi nagar, Shiv shakti nahar, Badi bhamori(Dubey), Bhamori plaza, Ram nagar, Anjani nagar, Kailash ka bhatta, New anjani nagar,Malviya samaj basti,Ram nagar nai aabadi, Trilok ka bhatta, Navjeeven rahavasi sangh, Meghdoot garden, Meghdoot smashan ghar and near by area, Fortune land mark hotel, LIG sectore K H.No. 1 to 112 and all the areas included in the ward as shown, with the boundaries, in the column no. 4	Bapat choraha to Sayaji choraha MR-10.	Sayaji choraha to Manmandi r, Aadarsh machinic nagar, Sanjay gandhi nagar MR 9 puliya Nadiya nagar.	Nadiya nagar, Ansari colony, Kanoo patel ki chaal.	Nandana gar road no.7 church choraha, Bajrang nagar, Raja Karmach ari bima nagar, Maruti nagar to Bapat choraha
29	Dr. SHYAMAPRA SAD MUKHARJI	Vijay nagar, Sch. No. 54 comp.,Sch.no.74 comp., She. No. 54 Aadaesh mechanic nagar, Mechanic nagar Ex. Sch.No. 54 PU-3,Aren house, Saffire house, Man house, Hotel Atithi niwas,Satguru building, Surbhi garden, Housing HIG quarter housing building, Sharma namkin near by area. and all the areas included in the ward as shown, with the boundaries, in the column no. 4	Nakshatra garden junction , 74 main road to A.B. road.	A.B. road basant vihar to Vijay nagar to Aatithi niwas hotel.	A.B.road Aathi niwas, Sethi sambandh nagar.	Badi bhamoti, Sayaji choraha, MR-10 bapat choraha to MR-11 Naxatra junction.
30	SANT RAVIDAS	Barfani nagat, Malviya nagar road no-2, Anurag nagar, Press complex compound behind bhaskar press, Om gurudev complex, Shantideep colony, Krishnabagh complete., Guru nagar, Guru nagar Ex., Shradha shree colony, Sunder nagar, New malviya nagar, Barfani nagar, Mahesh bagh colony, Ravi jagrati nagar, Ambika nagar, Anil nagar, Solanki nagar, Near Chandra nagar hotel amarvilas, State bank parisar, Nearby area of Shreemaya residency and all the areas included in the ward as shown, with the boundaries, in the column no. 4	C-21 mall A.B. road to Aadarsh molik nagar to Maa ambika nagar to Ring road.	Velocity cinema, MR-9 ring road swarna bagh.	Kalindi park nai sadak khajrana kakad puliya to Life line hospital A.B.road	A.B.road LIG gurudwar a, MR-9 choraha to C21 mall.

Ward No.	Name of Ward	Areas included within Ward	Ward Boundary			
			(1)	(2)	(3)	(4)
			NORTH	EAST	SOUTH	WEST
31	MAHARAJA CHATRASAL	Bhagyashree colony, Sheetal nagar sec. A and B, Suman nagar, Ganga devi nagar, Maa ambika nagar, Mangal city, Sch. No. 54 PU-4, BCM HEIGHTS, Shekhar planate, Princes plaza, Royal platinam, Basant vihar colony, Shanti nicketan, Bapji nagar, Raja bagh, Sch. no. 114 part-2, Sch.no.94 Sec. WA,WB,WE,EB, Anurag nagar behind shalimar township, Bapu gandhi nagar, Gulab bagh, Aadarsh meghdoot nagar, New sheetal nagar, Chitra nagar, Patel nagar, Poonam palace colony, BSNL quarter, Sch. no.54 PU-4 C-21 mall, Malhar mega mall, Malviya nagar road no.1 and 3, shreeram nagar, Kalpkamdhenu nager, and all the areas included in the ward as shown, with the boundaries, in the column no. 4	Niranjanpura choraha to Lasudiya mori junction ring road.	Lasudiya junction ring road to Redission junction and Velocity junction.	Ring road ambika colony, Anil nagar, Malviya nagar, A.B. road C 21 junction.	A.B. road C-21 to rasoma junction Vijay nagar junction Niranjapur choraha.
32	ATAL BIHARI BAJPAI	Sch. No.78 slice no.2-4 and 5-6 sec.,Atal bihari khel sankul parisar, Narmada quartr,78 part 2 hotel vrandavan, LCH hospital Nakshatra convention center area, Sch. No. 113 raghunandan bagh, Ishwer nagar and all the areas included in the ward as shown, with the boundaries, in the column no. 4	MR-11 sica school junction, Scheme. No. 78 part1 A.B. road.	Shalimar township A.B.road, Basant vihar colony.	Sch. No.74-C, Prestige colledge, nakshtra conventi onal centre.	MR-11 Nakshtra conventi onal junction to Sica school 78 junction.
33	SUKHALIYA	Kabit khedi, Lahiya colony, Surya palace, Shivani nagar, Parag nagar, Maa sharda nagar, Royal banglow, Sanskruti nagar, Swasthay nagar, Shalimar banglow, Pt deendayal upadhya nagar Sec. CN 1 to 303, AH 24 to 54, ASH. 1 to 21, AHD 1 TO 52, AM second 1 TO 654, CJRM 1 to 125 CM 61 TO 250, CH 52 to 101, Sec. plot no. 485 to 601, CL 1 to 100, Sec. C 800 to 1125, CHD 800 TO 1125, CHD 1 TO 18, Aadarsh molik nagar, Nyay nagar, Jai ambe nagar and all the areas included in the ward as shown, with the boundaries, in the column no. 4	Bhangarh nalla, via Sch. No. 136 up to Sch. No. 113.	Kabit khedi, Sch.no.13 6, Sica school 78, Sch. No. 54 FH sec.	Bapat Sq. MR 10 to traingle before Chandra gupt morya junction	Chandra gupt morya choraha, Tritment plant, Bhangha d.
34	SHAHEED BHAGATSINGH	Niranjanpur area, Sec. no.114 part 1, Rajeev aavas yogana, Sch. No.78 slice 1 and 3, Sch. No 78 Loha mandi, Row house pink city, Sch. No.136, Cristiane quarter and all the areas included in the ward as shown, with the boundaries, in the column no. 4	Niranjanpu r nai basti, MR-11 road, Niranjapur choraha A.B. road.	A.B. road niranjanpu r choraha to Shalimar township.	Aranya Sch. No.78, Sica school, Sch.no. 113 lahiya colony, Muktidham.	Bhangad e village nalla.

Ward No.	Name of Ward	Areas included within Ward	Ward Boundary			
			(1)	(2)	(3)	(4)
			NORTH	EAST	SOUTH	WEST
35	LASUDIYA MORI	Lasudiya mori village, Talawali chanda village, Rahulgandhi nagar, Niranjapur nai basti, Sch. No. 78 loha mandi rahul gandi nagar near by area, Bajrang nagar kakad, Talawalichand Basti, Lasudiya gram basti, Madhuban dhaba, Niranjapur choraha to talawali chanda dewas naka main road, Shakar khedi village, Bhangarh village and all the areas included in the ward as shown, with the boundaries, in the column no. 4	Kailod halla village.	Arandiya, Mayakhedi	Nipaniya, Shreeram nagar to Niranjapur choraha A.B. road via MR-11 to Niranjapur ura nalla to Bhangya road	Niranjapur nalla to railwaya track, via Kailod halla Bhangya road to railway crossing to Bhangya village boundary
36	NIPANIYA	Mayakhedi village, Arandiya village, Gram pipliyakumar, Gram kanadiya, Gram Tigriya rao, Part of Lasudiya mori village and all the areas included in the ward as shown, with the boundaries, in the column no. 4	Mangaliya village	Silver park, Balya khedi, Omex city.	By pass, Sch. No/134, Sai krupa colony, Mahalaxmi nagar.	Mahalaxmi pipliyakumar, Sch. No.94, Lasudiya junction, Niranjapur choraha a.B. road Lasudya mori, Talawali chanda
37	SAIKRUPA	Sch. No.94, Vakratund nagar, Mumtaz nagar, Sanjeevani nagar, Anandi nagar, Sawariya nagar part 1, Ramkrishna bagh, Ramkrishna bagh B, Yashoda nagar, Ramkrishna Bagh 2, Patel nagar, Sch. No. 94 classic purnima, Shanti kunj, Swarna ananda nagar, Tapeshwari bagh colony, New harsiddhi nagar, Gurunanak nagar, Naya nagar, behind malviya petrol pump, Shreerishna vihar colony, Sch. no 94 radhika palace colony, Vaibhave laxmi nagar, Krishna bagh B sec., New chitra nagar, Saikrupa colony, Swarna bagh colony, Sanjog puri, Mahalaxmi nagar, Gaqnesh nagar, Veena nagar, Mansarover nagar, Chikitsak nagar main and basti in front of bombay hospital sch. 94, Naya nagar Ex., Ganesh puri, Sumit Nagar, Anand colony and all the areas included in the ward as shown, with the boundaries, in the column no. 4	Lasudiya tiraha, Pipliya kumar gram, Nipaniya village boundary.	Sch. No.134, to Baba mansab nagar to Dhiraj nagar	Dhiraj colony, Vishwanath colony, Patel nagar, Ring road to Kalindi park.	Anuragh nagar, Radhaku nj colony, Shradha shree colony, Ambika colony, Shri ram nagar, Redisson junction, Bombay hospital junction, Anuragh nagar, Sch. No.94 to Babu gandhi nagar to Lasudya traingle.

Ward No.	Name of Ward	Areas included within Ward	Ward Boundary			
			(1)	(2)	(3)	(4)
			NORTH	EAST	SOUTH	WEST
38	HAJI COLONY	Suhana park, Asharfi nagar, Gandhi gram, Rajeev nagar, police quarter, Taaj nagar, Taj nagar sec.A and B, Sadar bazar, Mamta colony, Jalla colony, Haji colony, Laxmi bagh, Nahar shaha nagar, Manasab nagar, Anar bag, Baba Mansab nagar, Shahi bagh, Bangali colony, Super palace, Badla, Badla ghati, Rajeev nagar badla, Vijay nagar, and all the areas included in the ward as shown, with the boundaries, in the column no. 4	Saikrupa colony, Nipaniya gram boundary.	Kanadiya gram boundary to By pass.	from kandiya village to Roshan nagar, Harijan colony, Khajrana ganesh mandir.	Khajrana ganesh mandir main road to Ahilya nagar via shivbag, Shri krishna bag colony to Sai kripa colony.
39	NAHARSHAH WALI	Jakariya colony, Saira nagar, Habbib colony, Daktaar colony, Tanjim nagar, Gohar nagar, Dosiya nagar, Royal palace, Raza colony, Silver colony, Riyaz ul madarsa, New sharafat nagar, New mejestik nagar, Parsi compound, Khuda baksh palace, Khajrana palace, Khirabad, Khijrabad sec.B, Eliyas colony, Mejestic nagar, Ali colony, Khan compound, jaitan bagh, Garib nawaj colony, Shalimar colny, Aman nagar, Ahamed nagar, Kadar colony, Harun colony, Ahraf nagar, Heena palace, New heena palace, Dilip nagar, Sanchar nagar, Dawoodi nagar, Momin pura, Shahjaha colony, Eshak colony, Roshan nagar, Roshan nagar A,B and C sec., Doulat bagh, Shersshah suri nagar and all the areas included in the ward as shown, with the boundaries, in the column no. 4	Asharfi nagar, Sch. No.134 to By pass	Kanadiya village to Tigriya rao village.	Bicholi Hapsi village, By pass to sanchar nagar, Samrat nagar, Mitra bandhu nagar, Goyal vihar.	Ganesh puri Khajrana ganesh mandir, Zalla colony, Momin nagar, Taaj nagar, Naharshah colony, Asharafi nagar
40	KHAJARANA GANESH	Sundar nagar, Mayapuri, Mayapuri sec. B and C, Shiv bagh badi, Ramkrishna bagh, Devki nagar, Aasha nagar, Jumman nagar, Saidham, Shanti nagar, Khajrana gram, Goyal vihar colony, Ganesh mandir, Ganesh puri colony, Patel mohalla, Khajrana main road left side, Sawariya nagar part B, Balai mohalla, Ravidas nagar, Pankaj nagar, Shakar nagar, Vishwanath dham, Shiv bag, Choti shiv bagh, Dhreej nagar, Saraswati nagar, Krishnabag sector B, Goya Talab road, Soharab colony, Baba Ki bag, Sharayar colony, and all the areas included in the ward as shown, with the boundaries, in the column no. 4	Patel nagar, Nyay nagar, Baba manasab nagar.	Baba mansab nagar, Haji colony, Rajeev nagar, Zalla colony, Dilip nagar, Mitrabandhu nagar.	Goyal vihar avenue, Ganraj nagar, Riddhi siddhi colony, Khajarana chouraha tak.	Khajrana a chouraha, Aman nagar, Sanjog puri, Anandi nagar, Mumtaz bagh colony, MR-9 to patel nagar.

Ward No.	Name of Ward	Areas included within Ward	Ward Boundary			
			(1)	(2)	(3)	(4)
			NORTH	EAST	SOUTH	WEST
41	KAILASHPURI	Devpuri, Suraj nagar, Mangalmurti nagar, Soniya palace colony, Chetan nagar A and B, Kailashpuri colony, Mitrabandhu nagar, Palash palace, Alok nagar, Ashish nagar, Sanchar nagar Goyal nagar Ex., Madhav nagar, Bhawana compound, Ganraj nagar, Gan nayak nagar, Utkarsh Estate, Shekhar Nagar enclev, Aasha nagar, Som nagar, Priti nagar, Shree ram nagar kanadiya road, Sch. no.94 BSNL quarter, Mayur nagar service road, Daimond colony, Diamond palace, Vaibhav nagar main and ex., Mahadev totla nagar, Kandhari nagar, Bangali colony, Sushant colony, Riddhi siddhi nagar , Sumit nagar, Goyal vihar avenu, Laksh vihar, Shekhar enclev, Shubh Labh Avenue and all the areas included in the ward as shown, with the boundaries, in the column no. 4	Sahatarjun choraha, Ganeshpuri, Goyal vihar, Aman colony to Ahmed nagar Kanadiya road	Ahmed nagar Kanadiya road to Vaibhav nagar, Brijeshwari Nx	Ganesh dham	Ring road, Vandana nagar, Shakti nagar, Jinious park to Palival dharmas hala Ganesh dham mandir bangali Sq. to Khajarana Sq.
42	SWAMI VIVEKANAND	Manbhawan nagar, Harsh nagar, Mukati nagar, Gayan park, Telephone nagar, Sanjhi chat building, Shubhlabh building, Silver avenue, Silver wing, Ravindra nagar, Vinoba nagar (H.No. 465 to 626 and main road H.No. 1 to 90 ko chodkar) Saket nagar, Swami vivekanand nagar, Chandralok colony, Paliwal nagar, Kalpanalok colony, Manish puri, Manish puri Ex., Sheetal nagar, Sch. No. 94 Classic paliwal, Multani colony, Menan colony, Utkarsh vihar, Classic purnima state, Sanjivaneer nagar, Regency priyadarshini, Kanadiya main road, and all the areas included in the ward as shown, with the boundaries, in the column no. 4	Barwani Plaza, Saket Zone, Rafeel tower to baikunth Dham to khajarana main road to Anurag nagar, Sanjog puri ring road.	Anandi Nagar Ring Road to Bengali Square Via Khajarana Square	Bangali Sq. to Goyal nagar, Mahaveer nagar, Savid nagar, Tilaka nagar main road, badi gwaltoli puliya.	Badigwal toli to Barwani plaza
43	SHREE NAGAR	New Palasiya, Anoop nagar, Shakun vila apartment, Mahak apartment, Chandani apartment, New palasiya community hall, laxmi memorial hospital lokhande pull, Sarvoday Nursing Home, Sunshine apartment, Gaurav apartment, Kanchan apartment, Anoop nagar old, Khajrani kakad, Kirti palace, Shree nagar main and extention, Baikunth dham, Bima nagar state bank colony, shree nagar Kanakad, Kalindi park, Ravi	Pachu ki chaal nala, A.B. road, Old palasiya, LIG junction, Gurudwara culvert to Kalindi park.	Kalindi park nala to Khajarana main road, Kalpna lo, chandralok to saket nagar Sq.	Saket nagar Sq. to Ravindra nagar to Barwani plaza Greater Kailash Hospital, A.B. road, Harijan colony to	Janjirwal a choraha to Pancham ki Phel to Panchu ki chal.

Ward No.	Name of Ward	Areas included within Ward	Ward Boundary			
			(1)	(2)	(3)	(4)
			NORTH	EAST	SOUTH	WEST
		nagar, , Silver arc enclave, Vaiknth dham, Bima nagar Shree nagar kakad, Kalandi park Ravi nagar, PC colony, Old palasia ranade compound, Ranade compound extention, Manorama ganj pul to Old palasia, Joy builder's colony, Yamaha show room A.B. road, Sanghi colony, Gurukrupa restaurent khajrana road and all the areas included in the ward as shown, with the boundaries, in the column no. 4			Janjir wala Sq.	
44	HIG	Kannu patel ki chaal, Somnath ki nai chal, Choti khajrani, Naya basera, Malwa parisar A.B. road, Shahanai residency block Cand D, Sai sampada Apartment, Satkar residency, Aakshaya deep colony, Shalimar malwa parisar, Prakash chandra sethi nagar, New nadiya nagar, Nadia nagar, Ansar colony, Mahabaleshwar mandir Sector I, LIG sec. I and L, MIG sec. G, LIG thana H and G Sector, Shopping complex graha nirman office to shopping complex back side shop, Patnipura junction to Shulabh complex, Hari colony, Jagjivanram Nagar complete and all the areas included in the ward as shown, with the boundaries, in the column no. 4	Aadarsh mechenic nagar, Pakiza A.B. road.	A.B. road C 21 mall to Gurudwara culvert	Gurudwara culvert to MIG sector F, LIG main road, Christian Eminent school to Patnipura junction.	Patnipura junction, Shiv shakti nagar, Sanjay gandhi nagar zopat patti area, Adarsh mechanic nagar.
45	Dr.BHIMRAO AMBEDKAR	Ambedkar nagar, MIG colony, Lig Colony Sector L, Gurudwara ke piche, Sanjay Gandhi Upvan, R K puram, Girnar apartment, Dev nagar harijan colony, Rupesh yadav nagar, Lala ka bagicha, More ki chaal, Panchukumar ki chall, Nil Giri Apartment, and all the areas included in the ward as shown, with the boundaries, in the column no. 4	LIG maiun road to New horizone school nala to gurudwara culvert A.B. road	Gurudwara culvert A.B. road to LIG Sq. to Sagar Apartment	Sagar appartment, New palasia, Laxmi memorial hospital, Somnath ki chall,	Gotu ki chaal, Shiv vyayam shala, Neharu nagar to MIG thana
46	SOMNATH	Pancham ki phel, Rustam ka bagich, Gotu ki chaal, Amer tekri, Vikas nagar, Somnath ki chaal, Kaji ki chal and all the areas included in the ward as shown, with the boundaries, in the column no. 4	Neharu nagar, Roopesh Yadav nagar, Lala ka bagicha to Ambedkar Nagar.	Laxmi memorial hospital new palasia, Janjir wala Sq..	Janjirwala Sq., Roshansingh bhandari marg, Goma ki Phel to malwa mil Sq.	Malwa mil Sq. to Nala
47	SARDAR VALLABH BHAI	Yeshwant niwas road, Builders Colony, Ahillya mata colony, GSITS, Daimond colony, Park road, Agravihar colony, Dhenu market, Vallabh nagar, Dubey ka	Hukumchand mill, Shivaji nagar, Malva mill	Gotu ki chaal, Pancham ki phel, Bhandari	Palasia junction, A.B. road, South	Gandhi hall, New siyaganj, Nayapura,

Ward No.	Name of Ward	Areas included within Ward	Ward Boundary			
			(1)	(2)	(3)	(4)
			NORTH	EAST	SOUTH	WEST
		bagicha, new dewas road, Malviya nagar choraha, Race corse road, Roshan singh Bhandari marg, Goma ki phel, pancham ki phel (h.no 221 to 577) Harijan colony Janjirwala choraha, 56 shop Abhilasha apartment, Chain singh ka bagicha, B Builder colony, Nehru park , Shekhar park building, tulsī tower , D.M. tower and all the areas included in the ward as shown, with the boundaries, in the column no. 4	junction to Rustam ka bagicha.	marg, Jangir wala Sq. to New palasia.	tukoganj MG road high court, Regal Sq. to Shastri under bridge.	Central jail, Snehalat aganj to Hukum chand mil
48	GEETA BHAWAN	Badi gwaltoli, Seva sardar nagar, Geeta nagar, Lalaram nagar, Grater tirupati, Padmawati colony, Doorsanchar colony, Dak kunj, Navratn bag, Manorama ganj gali no. 1 to 6. Kailash park, Deep shikha apartment, Rajdarh kothi, Mishra vihar, Devi indira nagar, , Vanmandal office compound, Shivmangal nagar, Alankar point, Suyash hospital, Gohar compound, Shanti nagar, Telephone colony, PWD quarter, Bakhtavar ram nagar, F and E sec., Palasia thana parisar block no.2 Old palasia mulhtan apartment, Barwani plaza, Old palasia grater kailash hospital gali and all the areas included in the ward as shown, with the boundaries, in the column no. 4	A.B. road Geeta nagar Sq. to Shree nagar, Old palasia.	Saket nagar zone, Ravindra nagar, Tilak nagar main Bakhtaver ram nagar to Paricharika nagar nale tak .	Agriculture Staff nagar, BSNL office, Shivaji vatika Sq. A.B. Road	University to Ratlam kothi, Geetabhanawan Sq., Harijan colony to A.B. road Gitar Sq.
49	TILAKNAGAR	Rajashree Vatika, Payal vatika, Tilak nagar main and Ex., Goyal Nagar, Shakti Nagar, Vandana nagar, Shreenath colony, Savidnagar, Sainath colony Sec B and C, Bakhtawar ram nagar Sec. A,B,C and D, Vandana Nagar main, Sai vihar colony, Vasundhara apartment, Krushivihar colony, Vandana Nagar Sec B&C, Sunil nagar, Swarna vatika, Swarnahar, Goyal nagar, Tilak nagar muktidham gali main road. and all the areas included in the ward as shown, with the boundaries, in the column no. 4	Vinoba nagar nala to tilak nagar main road, Patrakar colony, Kanadiya road , Gulmohar nagar, Bangali Sq. ring road.	Bangali nagar Sq. to mahadev totla nagar, Ganesh dham Ring road.	Pipliyahana ring road, Girdhar nagar, Paricharika nagar nala tak	Paricharika nagar nala to Geeta nagar, Tirupati colony, Sewasagan nagar, Tilak nagar to Vinoba nagar.
50	BRAJESHWARI	Nirmal nagar , Vrindavan garden colony, Pipliyahana talab pal, Chouhan nagar, Grater brejeshwari, Utkarsh state, Ganesh dham, Brajeshwari main, NX and Ex., Shree mangal nagar state, shubh labh valley, Bombay yogena Sch. no.140, Pipliyahana total, Revenue nagar, Bijli nagar,	Ring road goyal nagar Ext. to , Patidar colony, Kanadiya road, sanchar nagar	Kanadiya road, By-pass, Bicholi hapsi, Bicholi Mardana.	Agrawal colony, Ashish Regency ring road Pipliyahana chouraha to old	agriculture staff colony to geeta nagar, swarna vatika to ring road

Ward No.	Name of Ward	Areas included within Ward	Ward Boundary			
			(1)	(2)	(3)	(4)
			NORTH	EAST	SOUTH	WEST
		Ashish nagar, Shreekant palace, Shiv mangal nagar, Shiv shakti nagar, Serve suvidha nagar, Laxmi vihar colony, Shekhar enclave, Sanchar nagar, Morya hills garden, Alok nagar, Vaibhav nagar B ang C and Ex., New ashish nagar, Tapan elclave, Doulat vihar, Ashish vihar, Ramabai nagar, Sukh shanti nagar, Mahaveer dham, Girdhar nagar, Paricharika nagar, Nandgao, halimar pam, Gyaneshwar park, Nidhivan colony, Palash palace, Parasdham enclave, Sharma enclave, Vimal shree brijeshwari, Raj colony and all the areas included in the ward as shown, with the boundaries, in the column no. 4			sehore road to agricultur e staff colony	
51	BHAGWATI NAGAR	Shiv nagar, Alok nagar, Chodhari park, Ram nagar, Virat nagar , Udhog nagar, Shivdarshan nagar, Shahin nagar, Dhanlaxmi udhyog nagar Zuggi comp., Krishnapuri colony, Abhilasha nagar, Kamal nagar, Maa bhagwati nagar, Abhishek nagar, Krishna nagar, nemawar road, Babulal nagar, Endra Ekta Nagar Chandrapuri and all the areas included in the ward as shown, with the boundaries, in the column no. 4	Royal regency, Shalimar palms, Sanjana park.	Bicholi mardana village, Bicholi by-pass, Devguradi ya village.	Udhog nagar, Palda village, Nemawar road to Shreeram nagar.	Nemawar road, pawan puri, Khati mohalla, Indira nagar, Musakhe di culvert Sahil nagar, Mayur nagar, Idreis nagar, to Royal rejency.
52	MUSAKHEDI	Musakhedi, Alkapuri, Yadav nagar, Prem nagar kakad ring road pani ki tanki, Musakhedi khati mohalla, Ajay bagh colony, Firdos nagar, North musakhedi, Chandrapuri colony, Chirad mohalla, Kharwal mohall, Ravi nagar, Gulab bagh, Shreeram nagar, Sitaram park, Endra ekta nagar, Shahin nagar, Chandrapuri colony, Jagdishpuri colony and all the areas included in the ward as shown, with the boundaries, in the column no. 4	MPEB greed. PHE area, Tulsi nagar, Bheel paltan, Musakhedi ring road junction to Mayur nagar.	Ram nagar to bhagwati nagar.	Nemawar road, Udhog nagar, Ring road Pawanpuri colony. Bhagwati nagar nalla to Pawan putra nagar.	Kohinoor colony, Muktigham, Netram ka bagich. To MPEB grid.
53	Dr.MOLANA AAZAD NAGAR	Aazad nagar, Aazad nagar gol choraha, Lok nirman vibhag building, Purana aazad nagar, Indira chowk, Aazad nagar nai basti, Aazad nagar musakhedi marg muktidham tak, Hussani chowk, Ganesh chowk, Gawali	Ahillyapuri, Redio colony, Central jail.	MPEB grid, Jagdishpuri north, Firdos nagar to	Pawan puri Teen imli choraha ring road.	Teen imli Sq. to Ring road nala to Sajannagar

Ward No.	Name of Ward	Areas included within Ward	Ward Boundary			
			(1)	(2)	(3)	(4)
			NORTH	EAST	SOUTH	WEST
		mohall, Water pump wali gali, Kali puliya aazad nagar, gop colony, Aazad nagar hussani maszid road, Noori nagar, Madina nagar, Sumati nagar, Kohinoor nagar, Meena palace, Aman nagar, Shabnam nagar, Gulshan nagar, Nafees nagar, Geeta nagar graha nirman sansthan Samshan ghat main road and all the areas included in the ward as shown, with the boundaries, in the column no. 4		Ravi nagar ring road.		Sanwad nagar, Prakash club culvert to azad nagar Sq..
54	RESIDENCY	New ekta nagar Ring road, Shanti nager, Aman nagar, Pink city, Bheel colony, Bheel paltan colony, Musakhedi Tempo stand, Idarish nagar, Residency Income tax office Custom exise quarter and jail parisar, Daily collodge, Krushi nagar, PTS campus area Govt. 80 quarter, A.B. road Zoo, Doorsanchar parisar, Hari om prabha Nagar, Shurya sukhdam, Akshardham, Nupur Nagar, Tulsini nagar, Residency area, Mayur nagar, Narmada project colony, Musakhedi tempo stand A. B. road bank of india to shivaji Vatika, Satam park colony, Police petrol pump, Netram ka bagicha and all the areas included in the ward as shown, with the boundaries, in the column no. 4	Shivaji vatika A.B.road to Agriculture staff nagar, Old sihore road ring road to brijeshawar i Ext. to royal regency	Royal regency to agrawal colony to pawan putra society	Shahin nagar, Veerat nagar, Ram nagar, Musakhe di ring road, to Alka puri, Yadav nagar muktidha to Azad nagar Sq. to Zoo to Indira circle A.B. road	Aazad nagar, Indira gandhi choraha, Parsi mohalla, Jawara compound, Shivaji vatika Sq.
55	SOUTH TUKOGANJ	South tukoganj, Jawara compound, Mathurawala sweet, Jhabua tower, Devi Ahilya University Parisar, Dhar kothi, M.Y. Hospital parisar, R.N.T Marg Sahagal colony, I.G. Bunglow, A.B. road White church Home Guard office, Choti gwaltoli, Banda compound, Railwaya police thana and reservation office, Railway hostel and quarter, Patel bridge, Murai Mohalla, Nasiya road, Traeser iland, Nobel hospital, Chawani, Kibe compound, Kalyan vishranti Grih, Rani sarai, Green park, Neharu pratima and all the areas included in the ward as shown, with the boundaries, in the column no. 4	Shastri under bridge railwaya line to M.G. road, Rigal Sq. to palasia junction.	A.B. road palasia junction to via Geeta bhawan junction, Suyash hospital, Geeta nagar, Paricharika nagar to daily collodge.	Daily college, Medical hostel, shivaji vatika, GPO, chawani, Nasia road trangle, Choti gwaltoli, Sarvate bus stand, Railwaya under bridge.	Sarvate bus stand, Railway Under Bridge to Patel bridge to Shastri Bridge.
56	SNEHALATA GANJ	Jeeven ki phel, Firoz Gandhi Nagar, Bansi Press Ki Chal, Chick Mangloor Sq. to Sai Bhawan Mandir, Shivaji nagar, Naya pura, Snehalata ganj, Usha fatak,	Kulkarni bhatta to via shivaji nagar trangle, to	Malwa mill junction, Shivaj nagar trangle,	New siyaganj to Urdu school, Sikh	Jail road ganji compound chiman-bagh

Ward No.	Name of Ward	Areas included within Ward	Ward Boundary			
			(1)	(2)	(3)	(4)
			NORTH	EAST	SOUTH	WEST
		Kachhi mohall and all the areas included in the ward as shown, with the boundaries, in the column no. 4	Malwa mill muktidham nalla to Malwa mill culvert	Sch. No.91, Rajkumar talab, railway trake, to new siyaganj.	mohall tiraha, Mewati mohalla to Jail road.	junction, Ahillya ashram bridge nalla to Railwaya under bridge bhandari bridge, Kulkarni bhatta tiraha.
57	DEVI AHILLYABAI	Nagar nigam road, Nagar nigam quarter, Sutar gali, Ganji Compound, Jail road, M.G. road, (Rajwada to Gandhi Hall), Devi Ahilya marg comp., Sabnis bagh, Shanti path, DRP line, Narayan bagh, Pant Vaidya colony, Ganesh colony, Jati colony, Rambagh, Tilakpath main road, Verdhman tower, Netaji subhash marg, (chikmangloor junction to Imli bazar junction), Bhoi mohalla, Peer gali, Nirala Hanuman Mandir MPEB colony, Railway Colony, Juna tukoganj, Hemilton road, Pologround MPEB colony, Ahilyashram, Sikh Mohalla, New siyaganj, Mewati mohalla, Alka talkies, Imli Bazar, (Area in the Ward Only) M.G. Road Fadnis Complex to Gandhi Hall, and all the areas included in the ward as shown, with the boundaries, in the column no. 4	Choti kumhar khadi nalla to Railwaya track Laxmi bai nagar.	Laxmibai railway station, MPEB under bridge nalla to Ahillya ashram bridge, Agnibaan press, Chiman-bagh, jailroad, Mewati mohalla, Sikhmohalla tiraha, Juna mill wall, Urdu school, New siyaganj VIP road, shastri under bridge up to Fire brigade quarter.	Shastri under bridge, MG road, Kothari market junction to Rajwada	Rajbada to Imli bazar choraha, Sadar bazar choraha, Bhisti mohalla police line to Narayan bagh tiraha to Pologround choraha, ESI hospital marimata Sq. Muktidham nalla to Badalka bhatta to Choti kumhar khadi.
58	NETAJI SUBHASHCH ANDRA BOSS	S.A.F. police line, Gafurkha ki bajariya, Badwali chowki, Shiv vilas palace, Subhash Marg Main road, South kamathi pura, North kamathi pura, Bakshi bagh, Bakshi baga Extn. Irrigation Colony, Bafana kothi, Juna pitha, Subhash chowk Kunwar mandli, Khajuri bazar Yashoda mata mandir, Juni Kaseri bakhil, Dilipsingh colony, Shankar bag, Garib nawaj wali edgah sadar bazar ke pass, near nala, Bhishati mohalla, Marathi mohalla, Ahillya	Brahma bagh puliya to pologround junction via marimata.	Pologround junction, Narayan bagh Traingle to tilak path man road to North Kamathi pura tiraha to martand chowk Imlibazar to Rajbada.	Rajbada imambada, Sarafanagori shop, to Khajuri bazar, Gorakund junapitha road.	Khajuribazar road to Brahma bagh pulya nala via Juna pitha, Badwali choki, Juna risala, Dudhadhari

Ward No.	Name of Ward	Areas included within Ward	Ward Boundary			
			(1)	(2)	(3)	(4)
			NORTH	EAST	SOUTH	WEST
		paltan, North bajariya, Hakimji ka bagicha, Sadar bajar East & west, Sadar bazar, Sadar Main road, Ikbal colony and all the areas included in the ward as shown, with the boundaries, in the column no. 4				ka bagicha south Gadara Khedi Bramh bag Culvert to marimata
59	HARSIDDHI	Prince yashwant road, Kanoongo bakhal, Resham wala lane compound, Pandharinath path, Aada bazar, Laxmi gali, Salvibakhal, Taji kunwar, Nandlalpura, Jawahar marg, Shani mandir ke piche, Nandlalpura main road sabji mandi, Veer sawarkar market, M.G. road, Rajbada chowk, Ramlaxman bazar, Nihalpura, Gotampura, Rajesh nagar, Harsidhi mandir ke pass, North harsiddhi bagiche ke pass pani ki tanki poloce chowki ke pass, Moti tabela, Koyla bakhal, Sunar ki bagichi, Harijan chatrawas Barakholi, Millat nagar, Shekhar nagar nai basti, Collector office and all the areas included in the ward as shown, with the boundaries, in the column no. 4	Khajuri bazar to MG road, Jail road junction.	MG road jail road junction, Khatipura, Sanjay brigde, Jawahar marg bridge, Nandlalpura sabji mandi junction, nandalal pura main road, Chandra bhaga culvert, Aalapura, Balnikaten, Jain sweet motitabela.	Collectora te ganji compound to GDC tiraha.	GDC tiraha, Jairampur culvert nalla, Chatri-bagh culvert, Macchi bazar culvert, Mohan-pura jawahar marg, Piplibazar, Rajbada.
60	RANIPURA	Jawahar margmain road, Kosthi samj ki dharam shala to siyaganj police chowki, Siyaganj, Ware house road, Mahesh joshi nagar, Ranipura main road, Mehatani market, Jagjeevanram Nai bagad, Siyaganj main road railway platform no.5, maharani road, Chogala ustad marg, Ravidas marg, Khatipura main road, North toda, South toda, Doulatganj, Champa bag, Kabutar khana and all the areas included in the ward as shown, with the boundaries, in the column no. 4	MG road jail road junction to Shastri bridge railwaya line.	Shastri under bridge railwaya trake, Patel bridge, Juni indore mukti dham, Haatipala under bridge.	Haatipala main road Muktidham, Bada rawala, Mahal kacheri chandra bhaga to Harsiddi zone.	Chndra-bhaga culvert, Nandalal pura main road, Jawahar marg, Preamsukh bridge, Sanjay setu, Khatipura choraha To MG road jailroad junction.
61	TATYA SARVATE	Jabran colony compl, Pagnis paga, Juni Indore Police quarter, Alapura, Bargal colony, Godha colony, Tatyasa sarvate, Bhaat mohalla, Bheem gir gali, Chandrabhaga main road west side Kamal road, Marimata ka Bagicha, Kallu Khan Ka bagicha, Prakash ka bagicha, Radhagovind ka bagicha, Balai Mohalla, Katkat	Moti tabela, Chandrabhaga, Rawji bazar, Gadi adda, railway Crossing.	Gadi adda Railway Crossing to Juni indore Bridge.	Juni indore bridge, Manikgagh junction, To Motitabela jain methai tiraha.	Moti tabela.

Ward No.	Name of Ward	Areas included within Ward	Ward Boundary			
			(1)	(2)	(3)	(4)
			NORTH	EAST	SOUTH	WEST
		pura complete and Main road, Mominpura and all the areas included in the ward as shown, with the boundaries, in the column no. 4				
62	RAWAJI BAZAR	Rawaji Bazar, Jagjivanram Mohalla, Kumawat pura, Gadi adda, Brahmchari bagicha, Harijan mohalla jhopad patti and near railway track, Murai mohalla, Hathipala main road, Mali pura, Vyas phala complete, Shani gali main road, Chandrabhaga main road, Chandrabhaga Mahal Kachehari, Ganesh marg, Hardiya compound, Shradhanad marg main road, Kallai mohalla, Luniya pura, Loha mandi, main road, Anaj mandi, Panch sheel Nagar, Sarvodaya Nagar, Nursingh Tekari Jagjivanram mohalla and all the areas included in the ward as shown, with the boundaries, in the column no. 4	Chandra bhaga bridge to Bada ravala to juni indore muktidham railway under bridge to Nasiya road to shradhana nd marg to chawani choraha.	Chawani Sq. to Jagannath Bridgew to Kalali Mohalla Culvert via Ilva School to Patel nagar.	Sindhi colony Sadhu vasvani nagar, New Loha mandi Railway line, Katkat pura Rawaji bazar Police thana to Balai mohalla.	Chandra bhaga bridge.
63	NAVALAKHA	Janki nagar,, Sneh Nagar, New Patel nagar, Chavani to Agrasen Main road Shankar bag Bridge, Agrawal Nagar, Indira pratima bangali club to chawani Jagannath bridge area, Agrasen chouraha main road, Parsi mohalla, Sapana sangeeta bajaj showroom, Navlakha bus stand to vishal tower area, Gulmohar complex, Vikas tower, Ramkrishna tower, Harsh deep tower, Visarjan Asharam, Bengali club, Indra pratima A.B. road, jagannath bridge, Shukla compound, Yadav compound, Prakash hockey club area, Siremal bafna hostel, Prestige tower, Shyamacharan shukla nagar, and all the areas included in the ward as shown, with the boundaries, in the column no. 4	Kalali mohalla naala, Chawani jagganath school puliya, Chawani choraha, GPO.	GPO choraha, Museum, Central school, Aza d nagar Sq.	Sanwad nagar culvert, navlakha, BCM hieght, Holker college, Vidhya nagar to Sapna sangeeta road.	Sapna sangeeta road, Profeser colony, Sarvoday nagar, Panchas heel nagar, New anaj mandi kalali mohall nala.
64	CHITAWAD	Nandanvan colony, Khandelwal nagar, Sanwad nagar, Prakash nagar, Shiv kripa colony, Sajan nagar, Nemawar road, Mittal compound, Jawahar dal mill, Koshliya puri, Jagannath ki chal, Anand nagar & Extn. , Mangal murti nagar, Gajadhar nagar, Gul mohar kabagicha, Shivmoti nagar, B.J. Vijay vihar, Radha swami nagar, Chitawad, Triveni colony, Bhawar kua junction to aasaram babu choraha, Art and commerce	Tower choraha, Vidhya nagar, Janki nagar, Navl akha choraha, Sanwad nagar culvert.	Sanwad nagar culvert to Teen imli culvert nalla, Teen imli ring road. Pawanpuri tiraha to Nemawar road.	Nemawar road Chitawad kakad, Khandwa road IT college and Palada Village boundary	Khandwa road IET college to Bhawar kua, Vidhya nagar.

Ward No.	Name of Ward	Areas included within Ward	Ward Boundary			
			(1)	(2)	(3)	(4)
			NORTH	EAST	SOUTH	WEST
		college, Triveni nagar nai basti, Teen imli choraha to asaram babu chouraha, Abhinay nagar, Chitawada kakad, Narmada nagar, Lalbahaddur shastri nagar, Pawar nagar, Pawan puri, Durga nagar, Ansari bagh, Gulmohar ka bagicha, University Campus, Ankur Awas Grih Nirman and all the areas included in the ward as shown, with the boundaries, in the column no. 4				
65	SANT KAWAR RAM	Khatiwala tank, Khatiwala tank M& R, Sadhu waswani nagar, Harijan colony, New Loha mandi, Babu nagar, Jaihind nagar near devshree talkies, Jagrati nagar, Sindhu nagar, Berathi colony, BK sindhi colony, Veer sawarkar nagar, Jeevandeep colony, Sch. no.31, Joshi colony, Sadhu basant shah colony, Profesor colony & jhopade and all the areas included in the ward as shown, with the boundaries, in the column no. 4	Harijan colony gadi adda.	Panchshe el nagar, Patel nagar sapana sangeeta main road.	Sapana sangeeta talkies, tower chouraha, gurmeet nagar SBI ATM BSNL colony to Manik Bag Bridge.	Manik bagh bridge railwaya line, Juni indore bridge, Radha govind ka bagicha, Harijan colony gadi adda.
66	SHAHEED HEMU KALANI	Pratap nagar, Gopal bag, Baramattha, rajabagh, Gurunanak colony, Karbala maidan, Dhobighat, Malwa kanya campous hemson colony, Vasudev nagar, Lalbagh main road, Ladkana nagar, Prem nagar A,B and C sec., Palsikar colony, Dubey colony, Sadhu nagar, Jayashree syndicate colony, Adarsh nagar, Javery colony, under Manik bagh bridge Sch. no. 101, Vyankatesh market, Roop ram nagar, Triveni colony, Rajmahal colony, Model village colony, Palace colony, Orange country, Adarsh nagar Lalbag Line, Manik bagh main road, and all the areas included in the ward as shown, with the boundaries, in the column no. 4	Lal bagh palace RTO road tiraha to hemu kalani tiraha Juni indore bridge.	Sonkar samaj darma shala, Juni indore bridge railwaya patri to Manik bagh railwaya line.	Manik bagh bridge railway line to Badri bagh nalla.	Badri bagh nalla, Raj mahal colony culvert to RTO road, Lalbag Tiraha.
67	MAHARAJA HOLKAR	Chatri bag, Prem kumari Hospital parisar, Syam shivam sundaram apartment, Kanjar mohalla chatripura thana, Mahunaka, Chatribagh police line, Ramdwra marg, Joshi mohalla, Barabhi, Sethi nagar, Lodha colony, Rajaswa gram, Rajput samaj bagichi, Jairampur colony, Katju colony Jamana nagar, Jawahar nagar, Jamna nagar zopad patti, Arjun pura multi story & Jhopad	Kadav ghat, Chatribagh puliya.	Gangor ghat, Saraswati river jairampura culvert to GDC tiraha.	GDC, Karbala culvert to Mahu naka junction.	Badri baga nala to Rajmahal colony culvert to RTO road Lal baga tiraha.

Ward No.	Name of Ward	Areas included within Ward	Ward Boundary			
			(1)	(2)	(3)	(4)
			NORTH	EAST	SOUTH	WEST
		patti, Balda colony complete and all the areas included in the ward as shown, with the boundaries, in the column no. 4				
68	BAMBAL BAZAR	Mohanpura, Bambai bazar, Jawahar marg main road agara hotel, Udupura, Mukeripura, Pinjara bakhal, Kadaw ghat, Isak pehlwan ki chal roshan pura, Macchi bazar, Nayapitha, Silawat pura, Tatpatti bakhal, Kagdipura, Ravidaspura, Kagdipura main road (Controle shop wali gali, diamond stationary to hakimi glass) and all the areas included in the ward as shown, with the boundaries, in the column no. 4	Santha bazar, Bajaj khana chowk, Piple bazar, Jawahar marg.	Laxman bajar, Macchi bazar choraha bridge nalla to Chatri bagh nalla. To Gangaur ghat to rajsvagram	Rajaswa gram, Biyabani main road.	Biyabani main road, Jangampura tiraha, lodhipura, Narsingh bazar choraha, jawahar marg.
69	JAWAHAR MARG	Lohar Patti main road, Malganj Bhagat singh marg, Lodhipura, Old rajmohalla, Jangam pura, Biyabani, Dhar road, Itwariya bazar, Narsingh bazar, Hukumchand marg, Naliya bakhal, Sitlamata bazar, Cloth market, Shakkar Bazr, Morsali gali, Pipli bazar, Bajaj khana, Santha bazar, Marothiya bazar, Bohara Bakhal, Dhangali bada sarafa thana, Chota sarafa, Mahaveer marg, Maulana azad marg, South rajmohalla, Gulab park colony, Mahesh nagar, Bhakt Prahalad das nagar, New mahesh nagar, chouthmal colony, Malganj jawahar marg, Samajwad nagar, Taran pusahakar road, Verdhaman nagar, Labariya bheru Bharat petrol pump area and all the areas included in the ward as shown, with the boundaries, in the column no. 4	Antim choraha, Kailash marg, Loharpatti, Khajuri bazar main road, Gorakund choraha.	Rajbada, Kanoongo bakhal, Jawahar marg, Pipli bazar, Mohan pura, Mohan pura, Mumbai bazar, Mukeripura, Silawat pura, Tatpatti bakhal, Balda colony.	Mhow naka chouraha.	Mhow naka chouraha to M.O.G Line Labariya Bheru, Raj mohalla Sq. Harijan colony, Girdhar nagar to Panchkui nya Mukti dham road.
70	LOKNAYAK NAGAR	Harijan colony (Rajmohalla), Gulabai ka bagicha, Sulkakhedi, Aadarsh indira nagar main road, Chandmari Brick bhatta, Gangabai joshi nagar, Loknaya nagar, Panchamurti nagar, Hari om Nagar, Jalaram nagar, Dhar road to Khalsa school, college parisar back side, Mali mohalla, Mali mohalla zopad patti, Labriya bheru comp., Shreekrishna colony, Shreehari socity, GNT market, Dhar road kimti garden Dist. hospital, milk colony, Gadariya mohalla dhar road and all the areas included in the ward as shown, with the boundaries, in the column no. 4	Ramanand nagar, Indira nagar, Indira nagar zopad patti, Packuiya muktidham	Gulab park, Vaishnav school, Labrya bheru junction. Cloth Market Hospital M.O.G Line Vaishnav Politechnic College	Samawadi Indira Nagar Chandmari Basti Scheme No. 71 Via Dhar Road	Ganga colony, Ramanand nagar.

Ward No.	Name of Ward	Areas included within Ward	Ward Boundary			
			(1)	(2)	(3)	(4)
			NORTH	EAST	SOUTH	WEST
71	DRAVID NAGAR	Dravid nagar , Dravid Nagar police line, Vishvakarma Nagar Bank Colony, Usha nagar main, Ushanagar NX. Samaj Vadi Indra Nagar ,Swastik Nagar MOG lines, indore eye hospital, Cloth market Hospital, Gangwal Busstand, Chandmari compound, MOG lines Nakoda Palace Shri Nath Tawar Murgi Palan Kendra Parisar Housing Board Appartment . and all the areas included in the ward as shown, with the boundaries, in the column no. 4	Kasturi cinema Labryaheru Chouraha M.P.E.B.Of fice	M.P.E.B.O ffile, Sarafa School, Mhow Naka, Mahavar Nagar, Annapurna Pani Ki Tanki tak	Sudama Nagar Main Road, Dayal Guru Gate	Dudama Nagar Post office. Govt Atradevi School, Vishram Bag SecNo. 71 Milk Colony Timber Market, Mali Mohlla ,Dhar Road Kastoor Seenima
72	LOKMANYA NAGAR	Mahawar nagar, Revenu nagar,, Nidhi vihar Gyaraha bangale, Shreeram nagar, Sachidanand Nagar, Indira Gandhi Nagar Madhuban colony,IndralockColony, Moon Palace, Vinay Nagar, Parshwanath nagar, Yadav Mohalla, Kunjwan colony , Basant vihar colony, Lokmany Nagar& EX, Nemi Nagar Main Nemi Nagar EX, Keshar Bag Road , Sidharth nagar, Deshara Maidan Basti, Alankar palace Silver Palace, Johari Palace and all the areas included in the ward as shown, with the boundaries, in the column no. 4	Mhow naka junction, Lalbagh RTO road tiraha.	Lal bagh palace, RTO office, Ghanshya m das colony tiraha to Aurvedic college railway line.Gyatri Mandir Railway Crossing	Gayatri nagar railway gate, , Kranti kruplani nagar gate annapur na road.	Annapur na road, Unic hospital usha nagar Ex., Usha nagar mhow naka junction
73	LAXMANSINGH CHOCHAN	Khatiwala tank, BSNL colony, Saifee nagar buildinds, Jaiaswal ki chaal, , Noori colony, Gulzar colony, New saifee nagar, Fadnis colony, Vijay palace(nagar), Nandanvan colony, Noori Coloney Gulzar Colony New SaifeeNagar Brook bond colony, Ashoka colony, Purandas ka bagicha, Sch.no. 102, Shyam nagar, Saifee nagar Main & Zopde Pati , Ghanshyamdas nagar, Labahadoor shastri nagar Fakhari Manjil ,Kutubi Mangil,MohameedMangil Badri Bag and all the areas included in the ward as shown, with the boundaries, in the column no. 4	Mankbagh rialway bridge to BSNL quarter road, Khatiwala tank,	khatiwala tank road, Transport nagar, Mechanic nagar main road Guru Dawara choithram bridge.	Choithra m bridge to nalla trough railwaya line lokmany a nagar, RTO road.	Indira gandhi nagar RTO road rajmahal colony culvert to manibagh bridge via Railway line.
74	VISHNUPURI	Anand Nagar Tower Chouraha Ke Pass, Gurmeet nagar, Shaheed Bhagat singh Colony, Piplaya Main Road , Banshi Dham, Ashok nagar, Vidhya nagar, Holkar	Transport nagar to khatiwala tank, Siffe nagar SBI	Agrawal nagar, Bhagwand een nagar, Holker	Krishnoda y nagar, Sant nagar, Piptyapala talab,	Choithram choraha, Choithram hospital to Manik Bag Pulia,

Ward No.	Name of Ward	Areas included within Ward	Ward Boundary			
			(4)			
			NORTH	EAST	SOUTH	WEST
(1)	(2)	(3)				
		Cilleage to Bhawar Kua Chouraha, Indrapuri, Anantpuri, Ahillyapuri, Shivam puri, Girdhar nagar, Mangal Nagar, Aditya Nagar , Piplya rao, Sarvanand Nagar, Nanak Nagar, nanak palace, hargovind nagar, Bholaram Ustad Marg, Brahmapuri, Ambika puri, Jagannathpuri, Banshi Dham Piplaya Pala Goan Main Road , Bhawar Kua Thana , Soyabeen Campus Soniya Gandhi Nagar, Rahul gandhi nagar, Bhola Nagar, Gujar Hospital, Vishnupuri Main , Vishnupuri NX, Mechanic Nagar, sneha Vihar, Jeet nagar, E Jayshing nagar and all the areas included in the ward as shown, with the boundaries, in the column no. 4	Bank colony, Tower choraha, Profisser Colony Patel Nagar, Sapna Sangeeta Main Road	college, Bhawar kua choraha to Radaswa mi satsang vayas.	Reganal park Choithram choraha.	Transport nagar road.
75	PALDA	, Palda village, Mundliya Nayata and all the areas included in the ward as shown, with the boundaries, in the column no. 4	Khandwa road chitawad kakad to Nemawar road, Pawanpuri, Udhyog Nagar, Bhagwati nagar. Dhan Lamxi Nagar Davgurady a Village	Sanavidya Village	Ralamandal Seem, Mirzapur village	Limbodia Village, Khadwa road to Chitawad kaked.
76	BICHOLI	Bicholi mardana, Bicholi hapsi, Tigriya Rao, KanadiyaVillage and all the areas included in the ward as shown, with the boundaries, in the column no. 4	Omax City, Khatri Khedi, Bangan Khedi Goan,	Ramgar Goan Badiya Kima,	Devguradiya.	Dhanlaxmi Nagar, Shiv Nagar, Sanjana Park, Bijli Nagar, Moriya Hills to Kanadiya Main Road Bye Pass, OmaxCity
77	BILAWALI	Ekta nagar, Kushwah ka bagicha, Sant nagar palace, Sant nagar, Ganesh nagar, Phuta pala, Krashoday nagar, Rajiv Gandhi Circle Puliya To MR - 3 Road , Maa Vihar Colony, Amar palace,	Choithram choraha to Piplya talab road, Rahul gandhi	Mundla naita, Rala Mandal, Mirzapur, Ashrawad Khurd,	Morad village, Machal.	Machal village, Ni halpur Mandi, Sanjay nagar,

Ward No.	Name of Ward	Areas included within Ward	Ward Boundary			
			(1)	(2)	(3)	(4)
			NORTH	EAST	SOUTH	WEST
		Mahadev nagar shifting Houses, Bilawali Village, Fathan Khedi Village, Kailod kartal village, Limbodi Village, and all the areas included in the ward as shown, with the boundaries, in the column no. 4	nagar, to Khandwa road. Radha Swami Satsang Nyash, Palda Village			Hukma khedi, Bijalpur, Tejpur gadbadi culvert A.B. road to Choithram choraha
78	CHOITHRAM	Raj township, Holker apartment, Block A,B,C, Swami dayanand nagar, Choithram hospital Parisar , Sch.no. 59, Ametesh nagar, Basant puri, Golden Palace, Falbagh Area, Nalanda parisar, Keshar bagh road, Sarnath colony, Shubham residency, Bijalpur Tejpur Gadbadi A.B.Road Indrajeet Nagar I.D.A Coloney Indrajeet Nagar jhopre Sec.No.103 Goya Colony, New Prakash Nagar, Sabji Mandi, Ful Mandiand, Boliya Sarkar Bunglow, Mahadev Naga Raja Rani Nagar Raj Point, Blowman Malhari Martand and Samane Ki Patti , Bheem Nagar Gandi Basti, Nema nagar, Bijalpur gandi basti, Narmada control room to arjun nagar basti, Chappri Village Gangor nagar, Martand Nagar and all the areas included in the ward as shown, with the boundaries, in the column no. 4	Ayurvedic college, Railwaya line nalla to Choithram culvert.	Choithram culvert , Choithram choraha, A.B. road tejpur gadbadi muktidham , Martand nagar, Bijalpur school.	Bijalpur talab, A.B. road , Rajendra nagar railwaya line.	Rajendra nagar railwaya line to Aurvedic collage railwaya line.
79	SUKHNIVAS	Sukhnivas village, Ahirkhedi village, Hukmakhedi village, Nihalpur mundi Village and all the areas included in the ward as shown, with the boundaries, in the column no. 4	Bak village, Sirpur talab, Hawabangla Sukhniwas road CAT choraha to ret mandi choraha, Railwaya line , A.B. road, Vitthal mandir, to bilawali village.	Bilawali, Fatankhedi Kailod kartal.	Machal village, Silicon city A.B. road to Sindoda village via railwaya crossing.	Sindoda village. Bank Goan Seema Tak
80	Dr.RAJENDRA PRASAD	Rajendra nagar Sampurn , Railway quarter, Krishna nagar, Mamata nagar illegal colony, Pragati nagar ke jhopade near kuan, Budh Nagar Zopre, VIP Paraspar Budh Nagar Ka jhopre declared gandi basti, Jawahar nagar, Rajesha nagar, Pragati Nagar, arashar Nagar	Grater vaishali choraha to annapurna main road via chanakya puri choraha.	Chanakya puri choraha to dadhichi choraha, A.B.Road and Petrol Pump	Datta nagar railwaya line to CAT choraha Hukma Khedi Seema Tak	CAT choraha to Sukhniwas road, Surya dev nagar, Ring

Ward No.	Name of Ward	Areas included within Ward	Ward Boundary			
			(1)	(2)	(3)	(4)
			NORTH	EAST	SOUTH	WEST
		Dhanvantari nagar, Tiwari nagar, Choice Palace Coloney, Vigyan nagar, Dhanashree colony, VIP Paraspar Ring Road East Side, Vishal nagar, Ahillya nagar, Bhoj nagar, Vaishali nagar all sector , Surdashaan Nagar, Brajvihar colony, Siddhipuram, Takshashila Parisar, Sandapani Colony, Police Line , Govement Women Ploytencie, Jila Shiksha Kendra' DIET Bhoj Mukht university, Rajendra Nagar Naka' and all the areas included in the ward as shown, with the boundaries, in the column no. 4				road, Grater vaishali choraha.
81	ANNAPURNA	Gopur extention, Grater vaishali, Suryadev nagar Daak taar colony, Siddhipuram colony, Satyadev nagar, Paraspar nagar, Sahajeevan nagar, Prikanco colony, Gopur colony, Mishra nagar, Annapurna nagar, Bhawani pur colony, Godbole colony, Annapurna parisar, Krantikrupalani nagar, Janseva nagar garib basti, Patte wali, Devendra Nagar, gitti khadan, Gayatri nagar, Prabhu nagar, Saraswati nagar, Silverox colony, Chankyapuri, Umesh nagar, narmada nagar and all the areas included in the ward as shown, with the boundaries, in the column no. 4	Dashara maidan.	Moon palace colony, Vinay nagar, Parshwan ath nagar, Alankar Palace RTO railway crissing to Dadichi railwaya crossing.	Dadhichi railway crossing Chanaky apuri choraha, Grater vaishali choraha ring road, buddhan agat to Sukhniw as road.	Sukhniva s road, Hawa bangala, Sudama nagarsec . E, Grater vaishali choraha, Sudama nagar D 60 feet road to dashara maidan.
82	SUDAMA NAGAR	Sudama nagar sec.B , Sudama nagar chorasiya sec. Sudama Nagar D, Ring road Jhopad patti, sudama nagar N.P. sec, SudamaNagar E Sec., Shantinath puri, Shree ram nagar, Parivahan nagar, Gurushankar nagar and all the areas included in the ward as shown, with the boundaries, in the column no. 4	Futikothi ring road, Bank colony, to Annapurna	Annapurna GodBola Colony Bhawani Nagar, Annapurna nagar, Prika nko colony, greater Vaishali Square .	Grater vaishali nagar, Suryadev nagar to Hawaban gala road, Vidur Nagar	Aahir khedi Goan Boder. Ri shi Palace, New Dwarka Puri, Footi kothi.

Ward No.	Name of Ward	Areas included within Ward	Ward Boundary			
			(1)	(2)	(3)	(4)
			NORTH	EAST	SOUTH	WEST
83	GUMSHTA NAGAR	Gumashta nagar,,Sch. No. 71 A,B,C,D, Saletax colony Sudama Nagarc sethi Gate area, Mahaveer Gate Area, Sudama Nagar A Sec. and all the areas included in the ward as shown, with the boundaries, in the column no. 4	Dhar road chandan nagar junction to Ganga Colony Puliya	Kimti Garden, Milk colony, Chandmari Basti, Dravid Nagar, Via Ranjeet hanuman mandir to narendra tiwari marg via vishwakarm a nagar pani ki tanki tak	Sudama nagar secD & E	Gwala Colony via ring road to Chandan Nagar Square
84	DWARKAPURI	Dwarkapuri, New Dwarka Puri Gwala, Colony Ring Road Jhopre and all the areas included in the ward as shown, with the boundaries, in the column no. 4	Chota sirpur talab.	Sch. No. 71 C and D sec. Futikothi, Sudama nagar Sec E.	Parivahan nagar.	Prajapat nagar, Rishi Palace Sai Baba Nagar Chota sirpur talab.
85	PRAJAPAT NAGAR	Prajapat nagar, Astha palace, Aakash nagar, near chota sirpur talab, Shraddha saburi colony, Rishi viharcolony, Rishi palace colony, Shree rishi palace colony, Astha palace, Bada sirpur talab, Sai baba nagar and all the areas included in the ward as shown, with the boundaries, in the column no. 4	Dhar Road Bock Goan' Raja Ram Nagar puliaya, Chota sirpur talab.	Harihar nagar, gwala colony, Dwarka puri, New dwarkapuri, Parivahan nagar.	Parivahan nagar. Guru Shankar Nagar Aahir khedi.	Sihayan Goan ki seema and Dhar Road

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY DUBEY, Commissinor.